

## निवेदन

काव्य की परिभाषा सस्तृत के भिन्न-भिन्न कवियों, विद्वानों और साहित्यकारों ने अपने-अपने ढग पर अलग-अलग की है। किसी ने काव्य की उपर्यां सर्वालिकार-विभूषितां भनोरमा सुन्दरी स्त्री से दी है, जिसका शरीर शब्द और अर्थ, जिसका आत्मा रस और जिसके आभूयण उपमा, अनुप्रास आदि अलकार हैं। किसी ने रस को काव्य का प्राण माना है। विना रस के काव्य वैसा ही निर्जीव है जैसे विना प्राण के शरीर। किसी ने ध्वनि को ही काव्य का आत्मा स्वीकार किया है। किसी ने काव्य के गुणों से युक्त तथा काव्य के दोषों से मुक्त, शब्द और अर्थ के समूह को, काव्य की पदवी दी है। किसी ने रमणीय अर्थ के देनेवाले शब्दों को ही काव्य कहा है। किसी ने श्रीचित्य (propriety) अर्थात् शब्दों के उचित प्रयोग को ही काव्य का मुख्य तत्व माना है। किसी ने काव्य में अलकारों को ही सबसे अधिक महत्व दिया है, इत्यादि।

किन्तु काव्य की परिभाषा या व्याख्या जो भी हो, सबका तोड़ इस बात पर है कि उत्तम काव्य वही है जिसमें कोई चमत्कार हो, कोई विचित्रता हो, कोई अनोयापन हो, वहने का ढग नथा हो, वेवल पिष्टपेयण या तुववन्दी मात्र न हो। आखिर सबके हैं पर चितवन में भेद है। आखिर में जो चितवन है वही काव्य में चमत्कार या अनोयापन 'है। इसी दृष्टि को लेकर ही मैंने इस पुस्तक में अनोखी सूझ के कुछ सस्तृत इलोनों का

संग्रह किया है। यदि इससे रसिक पाठकों का मनोरंजन हुआ और संस्कृत काव्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी, तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूँगा।

लगभग चालीस वर्ष हुए इसी प्रकार का और इसी नाम से मेरा एक छोटा-सा मनोरंजक श्लोकों का संग्रह, कलकत्ते में हिन्दी पुस्तक एजेन्सी द्वारा प्रकाशित हुआ था। उस समय उस पर स्व० आचार्य प० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपनी जो बहुमूल्य सम्मति प्रदान की थी, नोचे अन्यत्र दी गयी है। यह वर्तमान संग्रह उसी छोटी-सी पुस्तक का परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप है।

—जनादेन भट्ट

## स्व० आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की सम्मति

इस संग्रह की सौर करके मुझे बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। प्रायः सभी श्लोक अनोखे हैं और अनेक विषयों के हैं। शृंगार-रस की उक्तियाँ अनोखी होने पर भी उद्घेगजनक नहीं। भावार्थ लिख देने से केवल हिन्दी जाननेवाले भी इससे आनन्दप्राप्ति कर सकेंगे। श्लोक फण्ठ करने लायक हैं। लोगों की रुचि संस्कृत की ओर बढ़ रही है। इस दशा में, आशा है, सभी सर्वसाधारण जन इसे बहुत पसन्द करेंगे। यह मेरी सच्ची राय है।

महावीरप्रसाद द्विवेदी

# विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
१. मगलाचरण	१
२. भवतो के हृदयोदगार	६
३. सदमी और सरस्वती का विवाद	२०
४. अहु वर्णन	२६
५. प्रभात और सूर्योदय	४७
६. सूर्यास्त और चत्नोदय	५४
७. जल-विहार	६६
८. विरह-वेदना	७२
९. प्रग-सौन्दर्य	१०१
१०. यश और प्रताप	११५
११. कवि और काढ़	१२८
१२. कवियों की गर्वोक्ति	१३६
१३. कामदेव की विचित्र महिमा	१४०
१४. निघन शृहस्थ	१४७
१५. सज्जन और दुर्जन	१५८
१६. पीहप और भाग्य	१६७
१७. नीति के दावय	१७७
१८. लंसार की असारता	१८०
१९. भनोखी अन्योक्तियाँ	१९१
२०. हास्य और झंग	२१५

## शुद्धि-पत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ
१. पूर्व	पूर्वं	१५
२. छाया	छायाः	३४
३. हेमन्ती	हेमन्त	४४
४. जगदिदिमहो	जगदिदमहो	६२
५. कलीन	कुलीन	७०
६. करने भी	करने पर भी	८६
७. आंस	आसू	९३
८. भ्रूतुलायेतु	भ्रूतुलामेतु	१०५
९. हिमाशोः	हिमाशोः	१०७.
१०. कि वृत्तान्ते	कि वृत्तान्तः	१२०
११. सित	सित	१२१
१२. जाता	जाना	१४६
१३. प्रवेष्टिनम्	प्रावेष्टिनम्	१६१
१४. यचनीयमात्र	यचनीयमत्र	१६१
१५. पतितोऽपि	पातितोऽपि	१८४
१६. नटः	नर	१६०
१७. तारदुपमदमदागु	तारदुपमदमदागु	२०७

संस्कृत कवियों  
की  
अनोखी सूझ

## मंगलाचरण

१

जेतुं यस्त्रिपुरं हरेरण हरिणा व्याजाद्बलि वधनता  
खष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शोपेरण धतुं धराम् ।  
पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपं: सिद्धये  
ध्यातः पंचशरेरण विश्वविजये पायात्स नागाननः ॥

भावार्थः—भगवान् शकर ने त्रिपुरासुर को विजय करते समय, विष्णु ने छल से राजा बलि को बाँधते समय, द्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करते समय, शेषनाग ने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते समय, पार्वती ने महिषासुर का मर्दन करते समय, सिद्धाधिपो ने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए तथा कामदेव ने विश्व को विजय करने के समय जिन गणेश जी का ध्यान किया था, उन गणेश जी को नमस्कार है। ऐसे गणेश जी हमारी आपकी और सबकी रक्षा करें।

२

हृदयं कौस्तुभोद्भासि हरे : पुण्णातु वः थियम् ।  
राधाप्रवेशरोपाय दत्तमुद्भिव थिया ॥

भावार्थः—भगवान् विष्णु का वह हृदय आपकी श्री की

वृद्धि करे, जो कोस्तुभ मणि से अलकृत होकर अपनी छटा चारों ओर फेला रहा है। इस पर कवि की कल्पना है कि यह कोस्तुभ मणि नहीं है, वरन् मुहर की एक आप है, जो लक्ष्मी ने विष्णु के हृदय पर इसलिये लगा दी है कि इस हृदय पर मेरा ही एकाधिकार रहे, मेरी सौत राधा इसके अन्दर कभी भी प्रवेश न पा सके।

## ३

पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः श्यामांबुदोपमः ।  
गौरीभुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते ॥

**भावार्थ**—नीलकण्ठ महादेव का लक्ष्मी मेघ के समान नीला कण्ठ श्रापको रक्षा करे, जिस कण्ठ पर पार्वती की सुकृमार गोरी भुजलता विजली की रेखा के सट्टश चमक रही है। महादेव के नीले कण्ठ की उपमा काले मेघ से और पार्वती की भुजा को उपमा विजली की रेखा से दी गई है। जिस प्रकार काले मेघ में विजली चमकती हुई शोभायमान होती है, उसी प्रकार महादेव जो के नीले कण्ठ पर पड़ी हुई पार्वती को चमकती हुई भुजलता सुशोभित हो रही है।

## ४

विहाय पीयूषरसं मुनीश्वराः ममांश्चिराजोवरस पिबन्ति किम् ।  
इति स्वपादाम्बुजपानकीतुको स गोपवालः श्रियमातनोतु वः ॥

**भावार्थः**—शिशु गोपाल श्रेष्ठने पैर का अगृठा चूस रहे हैं—इस पर किसी कवि की अनोखी सूझ है—‘वडे-वडे’ क्षणि-मुनि

अमृतरस के पान को छोड़कर मेरे चरणकमल के रस को क्यों  
पिया करते हैं, देखें इसका स्वाद कैसा है ?”—इसी बात को  
जानने की इच्छा से ही मानो बालक शृणु अपना पैर मुख में  
रखकर चूस रहे हैं। ऐसे बालक शृणु आपका मगल करें।

## ५

मातः कि यदुनाथ देहि चयकं कि तेन पातुं पथः  
तन्नास्त्यद्यकदास्तिधा निशि निशा का वान्यकारोदये ।  
आमील्याक्षियुग निशाप्युपगता देहीति मातुर्मुहुः  
वक्षोजांशुकर्पणोद्यतकर फृष्णः स पुत्रानु वः ॥

**भावार्थः**—यशोदा शृणु वो नियमित समय के मनुमार ही  
अपने स्तनों से दूध पिलाती थी। एक दिन शृणु ने अनियमित  
समय में दूध पीने की माँग दी। इस पर देखिये यशोदा और  
शृणु का प्रश्नोत्तर कैसा मुन्दर है :—

शृणु—“माँ !” यशोदा—“क्या यदुनाथ ?” शृणु—  
“दूध पिलामो।” यशोदा—“अभी नहीं।” शृणु—“फिर क्य ?”  
यशोदा—“रात को।” शृणु—“रात यद होती है ?” यशोदा—  
“जब मन्त्रेरा हो जाता है।” इस पर शृणु अपनी आँख यन्द  
पर सेते हैं और भासा के स्तन पर से यस्त्र को बार-बार  
सीधते हुए लहरते हैं—“माँ, देगो ! रात या गई है और  
मन्त्रेरा हो गया है, यब दूध निलामो।” इस प्रतार बार-नीना  
परते हुए शृणु भगवान् मापरे गुा प्रोर गोभाय दो दफ्तरे।

कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमधुना मृदभक्षिता स्वेच्छया  
सत्यं कृष्ण किमेप आह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम् ।  
व्यादेहीति विकासिते च वदने हृष्ट्वा समस्तं जगत्  
माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः श्रीपतिः ॥

**भावार्थः—** कृष्ण और बलदेव दोनों खेलने के लिए बाहर गये । वहाँ कृष्ण ने मनमातो मिट्टी खाई । लौटने पर बलदेव ने माँ से चुगली खाई कि “माँ, आज खेलने के लिए गये थे, वहाँ कृष्ण ने खूब मिट्टी खाई थी ।” इस पर माँ यशोदा ने पूछा —“कृष्ण, देखो बलदेव क्या कह रहा है, क्या यह सच है ?” कृष्ण—“भूठ है, मेरा मुख देख सकती हो ।” यशोदा—“अच्छा मुँह बांधो ।” इस पर कृष्ण ने जो मुख खोला तो उसमें समस्त जगत् को देखकर जिसकी माता आश्चर्य से चकित हो गई, ऐसे लक्ष्मीपति कृष्ण आपकी रक्षा करें ।

रथस्त स्वागतमर्थ्यहं वद विभो किं दीयतां मेदिनी  
का मात्रा मम विक्रमत्रयपद दत्तं जलं दीयताम् ।  
मा देहीत्युशनाव्रवीद्वरिरथं पात्रं किमस्मात्परं  
चेत्येवं बलिनार्चितो मखमुखे पायात्स वो वामनः ॥

**भावार्थ—** इस श्लोक में बलि और वामन का सवाद बहुत सुन्दर है :—

वामन—“राजन् ! आपका वल्याण हो !”

बलि—“भगवन् ! आपका स्वागत है !”

वामन—“मैं याचक हूँ, माँगने आया हूँ !”

बलि—“भगवन् ! कहिये क्या दूँ ?”

वामन—“पृथ्वी !”

बलि—“कितनी ?”

वामन—“मेरे तीन पग के बराबर ।”

तब बलि के गुरु शुक्राचार्य ने वजिन विया कि “मत दो, यह तो विष्णु है ।” इस पर बलि ने यहा—“यदि ऐसी बात है तो किर, इनसे बढ़कर देने के सिए श्रीर कीन पात्र होगा ।” इस प्रकार बलि के थज में सबके भागे पूजे गये वामनावतार पापकी रक्षा करें ।

## ८

पाणिप्रहे पुलषितं यपुरेणं भूतिभूषितं जपति ।  
अंकुरित इय मनोभूयंस्मिन् भस्मावदोषोऽपि ॥

भावार्थ—विद्याह के ग्रन्थ यदि भगवान् लिय ने पार्वती का पाणिप्रहरा किया तो पार्वती के अर्द्ध मान से उनका भस्म से विभूषित शरीर पुनर्वित हो गया । इस पर क्यि कहता है कि वामदेव जो लिय के तोगरे नेत्र ने जगत्तर भन्नोभूत हो गया था, वही वामदेव भगवान् के शरीर में पुनर्वायसी के स्त्र में मानो द्वितीय रूप अंकुरित हो गया है । ऐसा भगवान् का पुनर्वित शरीर भासका मण्ड परे ।

## भक्तों के हृदयोदयार

६

क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया ।  
मानसे मम नितान्ततामसे नन्दनन्दनं कथं न लीयते ॥

भावार्थ — मवखन चुराकर बालक कृष्ण विसी एवान्त अन्धेरे स्थान में छिपने के लिए भागे जा रहे हैं। उन्हें सबोधन कर के एक कृष्ण का भक्त कहता है—“हे नन्दनन्दन ! मवखन चुरा कर डर के मारे भागकर, किसी एवान्त अधेरे स्थान में छिपना चाहते हो तो मेरे उस मन में आकर वपो नहीं छिप जाते, जिस में मोहँ और अज्ञान का घोर अन्धकार भरा हुआ है ? ऐसा अन्धकारमय स्थान छिपने के लिए तुम्ह कहो नहीं मिलेगा ।”

१०

रत्नाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा  
कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय ।  
राधागृहीतमनसः मनसोऽस्ति दैन्यं  
तन्मे गृहाण पदपंकजमपितं ते ॥

भावार्थ — विष्णु का एव भक्त विष्णु को सबोधन करके

वहता है—“समुद्र जो रत्नों का खजाना है, वह आपका निवास स्थान है, साक्षात् लक्ष्मी आपकी धरवाली है और आप स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं, भला मैं आपको वया दे सकता हूँ ? पर ही, एक चौंज आप वे पास नहीं हैं, और उसे मैं आपको देने में समर्थ हूँ। मन आपके पास नहीं है, वर्णे मि आपके मन का राधा ने चुरा लिया है। तो फिर आप मेरे उस मन को यो नहीं ले लेते ? जिसे मैंने कितनों दिनों से आपके चरण क्षमतों में अपित बर रखा है !”

## ११

नितरर विनयेन पृच्छते सुविचार्योत्तरमत्र यच्छ मे ।  
करितो गिरितोऽप्यहं गुरुस्त्वरितो नोद्धरसे यदद्य माम् ॥

भावार्थ —एक विष्णु वा भक्त विष्णु को गवोधर परवे वहता है—“यहुत ही विनयपूर्वक में एक बात आपसे पूछता हूँ। कृष्ण वहुङ् सोब विचार परवे उत्तर दीजियेगा। आपने गज वा उद्धार किया था और गोवर्द्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया था। यहा मैं गज से और गोवर्द्धन पर्वत से भी भारी हूँ कि भरा उद्धार नहीं पर लेत ? मुझे उठा नहीं लेने ?”

## १२

मृद्दीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पय.  
स्वयत्तिन सुघाप्यधापि पतिघा रभाघर. रण्डित. ।  
सत्य यूहि मदोय जोय भयता भूयो भये भ्राम्यता  
कृष्णेत्यक्षरयोरय मधुरिमोदगारः पथचित्तक्षित ॥

**भावार्थः—**कृष्ण का एक भक्त अपने प्राणों को सम्बोधन करके कहता है—हे मेरे प्राण, तुमने दाख (अगूर) भी चखा होगा, तुमने मिश्री के टोरें भी खाये होगे, तुमने औटाया हुआ दूध भी पिया होगा, चौरासी लाख योनि में तुम कभी स्वर्ग भी गये होगे और वहाँ अमृत का स्वाद भी लिया होगा और रभा आदि अप्सराओं के अधरामृत का पान भी किया होगा । पर सच-सच बताओ इस ससार में बार-बार जन्म ले कर अमरण करते हुए तुमने “कृष्ण” इन दो अक्षरों में जो मिठास है, ऐसी मिठास कही पायी है ? पण्डितराज जगन्नाथ के इस श्लोक का हिन्दी पद्धानुवाद एक कवि ने इस प्रकार किया है—

चारुयो मिशिरी को अरु, पान कियो स्वच्छ दूध,  
 त्योही परिपूरन सुदाख हूँ को खायो तू ।  
 जाय सुरलोक मध्य अमृत पियो है पुनि,  
 केंयो बार रभा को अधर खड़ि आयो तू ।  
 अब हूँ तो साची बात कहुरे हमारो जोव,  
 विप्रचन्द जग बोच बार बार आयो तू ।  
 कृष्ण या युगल वर्ण माघुरी प्रवाह सम  
 अद्भुत माघुरी कबहूँ कहु पायो तू ॥

४

१३

क्षालयामि तव पादपंकजं नाथ दारूदूषदोः किमन्तरं ।  
 मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥  
 पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पश्चात्परं तीरमहं नयामि ।  
 नो चेत्तरी सद्युवत्तो मलेन स्याच्चेद्विभो विद्धि कुदुम्बहानिः ॥

**भावार्थ** — नीका के द्वारा गगा पार करने के लिए आये हुए भगवान् रामचन्द्र से मल्लाह कहता है— 'हे भगवन्, मैं पहले आपके चरणकमल को धोना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि आपके चरणों की धूलि में ऐसी शक्ति है कि वह पत्थर को स्त्री बना देती है। आपने एक पत्थर की ही तो अहिल्या बना दिया था। मेरी नीका पत्थर की तो नहीं, परन्तु काठ की है। पर पत्थर और बाठ में भेद ही कितना है? इसलिये मैं पहले आपके पैर धोऊगा, तब उसके बाद हो आपको पार ले जाऊँगा। नहीं तो कही आपके चरणों की धूलि से मेरी नीका स्त्री हो गई, तो बत्ताओ। मैं अपने कुटुम्ब का पालन कैसे करूँगा? तुलसीदास की नोचे लिखी कवित्त इसी भाव की है—

पात भरी सहरी, सबल सुत वारे-वारे,  
केवट को जाति, बछु वेद न बढाइहो ।  
सब परिवारु मेरो याहि लागि, राजा जू,  
हों दीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गदाइहो ॥

गीतम वी घरनि ज्यो तरनी तरंगो मेरी,  
प्रभु सा निपादु हूँ वे बादु न बढाइहो ।  
तुलसी वे ईस राम रावरे सो साचो वहों,  
विना पग धोए नाथ, नाथ ना चढाइहो ॥

१४

कालिन्दीपुत्तिनोदरेषु मुसली यावद्गत लेलितु  
तावत् स्वादु पय. पिय हरे धर्षिष्यते ते शिला ।

इत्थं वालतया प्रतारणपराः श्रुत्वा यशोदागिरः  
पायाद् वः स्वशिखां स्पृशन् प्रमुदितः क्षीरेऽर्धपीते हरिः ॥

**भावार्थः**—यशोदा दूध पीने के लिए बालक कृष्ण को फुसलाती हुई कहती हैं—हे कृष्ण ! बलदेव यमुना जी के किनारे खेलने को गया है, जबतक वह लौट कर आवे तब तक तुम इस स्वादिष्ट दूध को पी डालो, जिसमे कि तुम्हारी चोटी भी उसी के समान बड़ी हो जाय। इस प्रकार यशोदा की वाणी से फुसलाये गए कृष्ण ने अभी आधा ही दूध पीया था कि अपनी चोटी यह देखने के लिए छूने लगे कि दूध पीने के बाद मेरी चोटी कुछ बढ़ी या नहीं। ऐसे प्रसन्न-वदन कृष्ण आपकी रक्षा करे।

मूरदास के नीचे लिखे दद्य में भी यही भाव है :—

मैया कवर्हि बढेगो चोटी ।

किती वार मोहि दूध पिवत भई यह अजहूँ है छोटी ॥

तू जो कहति बल की वेनी ज्यों हूँ है लांयी मोटी ।

काढ़त गुहत न्ह्यावत ओछन नागिन सी भुइ लोटी ॥

काचो दूध पिवावत पचि पचि देत न माखन रोटी ।

“सूर” स्याम चिरजिव दोउ भैया हरि हलधर को जोटी ॥

### १५

अथि मुरलि मुकुन्दस्मेरवयन्नारविन्द-

इवसनमधुरसज्जे त्वां प्रणम्याद्य याचे ।

अधरमणिसमीपं प्राप्तवत्यां भवत्यां

कथय रहसि करें मदशां नन्दसूनोः ॥

**भावार्थः—**एक कृपण का भक्त कृपण की मुरली को सबोधन करके बहता है—“ऐ मुरली, तुम भगवान् कृपण के मुख्य-कमल की इच्छा से बजाई जा कर अति मधुर स्वर निकालती हो । मैं आज तुमसे अति विनय पूर्वक यह भिक्षा मागता हूँ कि कृपण के मणि के समान लाल ओठ के समीप जब तुम पहुँचो तो मेरी केमी शोचनीय दशा हो रही है यह एकान्त में उनके बानो में जरा ढाल देना ।”

१६

• क्षुधितस्य नहि ग्रासित मे प्रतिरथ्यं प्रतिगृह्णत. करणान्  
श्वकलंक यशस्करं न ते भवदीयोऽपि यदन्यमृच्छति ॥

**भावार्थः—**एक भगवान् का भक्त भगवान् को उत्ताहना देता हुआ बहता है—“हे भगवन्, मैं भूता हूँ । यदि कोई भूता मनुष्य अपनी क्षुधा दान्त बरने के लिए गली-गली, दरदर, एवं एक दाना मागता किरे तो उसमें लज्जा की बात नहो है । पर आप तो निनात निटलव और मवरों बडे दानी हैं । यदा आपके लिये यह यश की बात है कि मैं आपका होकर भी निमी दूमरे के दर पर मागने के लिये जाऊँ ?”

१७

मदन परिहर स्थिति भद्रीये भनसि मुमुन्दपदारयिन्दधाम्नि  
हरनयनकृशानुना कृशोऽसि त्मरसि न चक्षपराक्रमं मुरारेः ॥

**भावार्थ—**कोई कामी पुरुष यिष्यु की भक्षा निया

चाहता है, पर मन उसका विष्णु के चरणों में रमता नहीं, तब वह कामदेव को संबोधन करके कहता है :—कामदेव, तुम मेरे मन से दूर हो जाओ, उसमें अब विष्णु भगवान् के चरणों का वास होने लगा है । तुम तो पहले से ही शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि से दग्ध होकर जर्जर हो रहे हो, क्या तुम्हे विष्णु भगवान् के चक्र की शक्ति का स्मरण नहीं है ?

१८

पापः खलोऽहमिति नार्हसि मां विहातुं  
कि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।  
यस्मादसाधुरघमोऽहमपुण्यकर्मा  
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥

**भावार्थः**—एक भगवान् का भवत कहता है—हे भगवन्, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, यह समझकर ही क्या आप मुझे त्याग रहे हैं । किन्तु जो निष्पाप है, जिसको कोई भय नहीं है, जो सुकृति है, उसको आपकी रक्षा की आवश्यकता ही क्या है ? रक्षा की आवश्यकता तो मेरे जैसे पापियों और भयातीं को है । यदि आप मुझ महापापी, महा अघम और महाखल की रक्षा न करेंगे तो फिर किसकी करेंगे ? मैं ही तो आपकी दया का सबसे अधिक पात्र हूँ ।

१९

हे कृष्ण मद्भरणमद्य करोपि न त्वं  
तेनेव संशयमुर्पति मनो मदीयम् ।

नाऽहं वसामि किमु केशव विश्वमध्ये  
विश्वंभरेति तव नाम निरर्थकं वा ॥

**भाषार्थः—**कृपण का एक भक्त कष्टो से दुखित होकर यहता है—हे कृपण ! आज आप मेरा भरण-पोपण नहीं करते हैं, इस से मेरे मन मेरे यह शका पैदा होती है कि हे केशव ! या तो मैं आपके इस ससार मेरे नहीं रहता हूँ या आपका जो “विश्वभर” (ससार का भरण पोपण करने वाला) नाम है वह निरर्थक है। या तो मेरा भरण-पोपण करें, नहीं तो मैं ‘विश्वभर’ नाम छोड़ दें ।

२०

पृष्ठे भवन्तमयमुद्धृते कदाचित्  
एतावता यदि तर्वति द्यास्पदत्वम् ।  
स्वामिन्नहं तु हृदयेऽन्वहमुद्धृहमि  
त्वामित्यतः कथमहो न तवानुकम्प्यः ॥

**भाषार्थः—**शिव वा एक भवन शिव यो सबोधन करके यहता है—हे भगवन् ! यह नान्दी बेंस आप यो कमो-कमी आपनी पीठ पर सवार कराकर इथर-ठथर से जाता है, पर इनने से ही यह आपको परम इष्टा का पात्र बना हुआ है । पर स्वामिन्, मैं तो प्रतिदिन और प्रतिशत्तु आपको आपनी पीठ पर नहीं, बल्कि आपने हृदय के सादे किरता है, किर भास मुझे आपनी इष्टा का पात्र क्यों नहीं बनाते ?

२१

ईशे पदप्रणयभाजि मुहुर्तमात्रे  
 प्राणप्रियेऽपि कुरु मानिनि मा प्रसादम् ।  
 जानातु मत्प्रभुरसौ पदयोनंताना  
 मस्माद्वशामिव मनोरथभंगदुःखम् ॥

**भावार्थः**—शिव का एक भक्त—जो अपने आराध्य देव को  
 मनाते मनाते थक गया, परन्तु उसकी मनोकामना पूरी न हुई—  
 ऊब कर और बहुत दुःखी होकर पार्वती को सवोधन करके  
 कहता है—

“भगवती, आपसे एक विनोत प्रार्थना है । वह यह कि जब  
 आप अपने प्राणों से भी प्यारे पति, महादेव से रुठ जाएँ तो  
 माने नहीं, चाहे वे आपको कितना भी मनावें और आपके चरणों  
 में अपना सिर भी रखदें । मेरी ओर देखिये, मैं उनके चरणों में  
 नाक रगड़ते-रगड़ते कितना थक गया, पर वह पसीजे नहीं ।  
 जरा उन्हे भी तो हमारी तरह मालूम हो कि मनोरथ के भग  
 होने से कितना दुःख होता है ।”

२२

दोषाकरः शिरसि तेऽस्ति गले द्विजित्वः  
 पापाणजा सहचरी पशुरान्तरंगः ।  
 दुःखं निवेदयति को मम दीनवन्धो  
 त्वं चेत्त्रिलोचन निमीलितलोचनोऽसि ॥

**भावार्थ—**शिव का एक भक्त दुखो से ऊबकर उलाहन। देता हुप्रा कहता है—हे दीनवन्धु ! हे शकर ! तुम्हारेसिर पर तो दोपो का खजाना दोपाकर (चंद्रमा) है, तुम्हारे गले में चुगली खाने वाला द्विजिह्व (सर्प) है, तुम्हारी सहचरी पत्थर से जन्म लेने वाली पार्वती है (अतएव जो पापाण-हृदया है), तुम्हारा अन्तरग साथी पशु नान्दी बैल है (पशु में इतनी सहानुभूति कहाँ से हो सकती है)।—ऐसी दशा में मेरा दुख आप तक कौन पहुँचावे । और आपने भी, तीन नेत्र वाले होकर भी, हमारी ओर आँखें बन्द वर रखकी हैं । फिर हमारी कौन सुने ?

इस श्लोक में 'दोपाकर' और 'द्विजिह्व' में अति उत्तम इलेप है—'दोपाकर' का अर्थ 'दोपो का आकर' और दोपा+कर अर्थात् 'चंद्रमा' तथा 'द्विजिह्व' का अर्थ 'चुगलखोर' और 'सर्प' दोनों हैं ।

## २३

वपुः प्रादुर्भवादनुभितमिदं जन्मनि पुरा  
पुरारे न प्रायः कवचिदपि भवन्तं प्रणतवान् ।  
नमन् मुक्तः संप्रत्यहमतनुरग्रेऽयनतिभाक्  
महेश क्षन्तव्य तदिदमपराधद्वयमपि ॥

**भावार्थः—**एक भक्त अपनी भवित द्वारा मुक्त हो जाने पर महादेव को सबोधन करते रहता है—हे महेश, इस जन्म में शरीर धारण करना पड़ा इससे मैं यह अनुमान बरता हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में आपको कभी प्रणाम नहीं किया था । मैंने पहले जन्म में प्रणाम किया होता तो मेरा यह जन्म यदापि न होता । अब इस जन्म में मैं आपको प्रणाम करता

है, जिससे मैं मुक्त हों जाऊँगा और मुझे पुन शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अतः अब मैं आपको भविष्य में भी प्रणाम न करूँगा। बिना शरीर के मैं आपको प्रणाम कैसे कर सकूँगा? इसलिए हे भगवन्, मेरे इन दोनों भूत काल के और भविष्यकाल के, अपराधों को क्षमा करें।

## २४

मौलौ गंगाशशांकौ करचरणतले कोमलांगा भुजंगाः  
चामे भागे दयाद्र्द्वा हिमगिरितनया चन्दनं सर्वगात्रे ।  
इत्यं शीतं प्रभूतं तव कनकसभानाय बोदुं वव शक्तिः  
चित्ते निवेदतप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये ॥

**भावार्थः—**एक शिव का भक्त भगवन् को सबोधन करके कहता है—हे भगवन्! आप अपने सिर पर परम शीतल गगा और उससे भी अधिक शीतल चन्द्रमा को धारण किये हुए हैं। आपके हाथों और पैरों में ठडे स्पर्श वाले सर्प लिपटे हुए हैं। आपके बाम भाग पर साक्षात् हिम के आलय (हिमालय) की बन्या तथा दया से आद्रै पार्वती जी विराजमान हैं। आपका सारा शरीर शीतल चन्दन के लेप से लिप्त है। इतनी सारी ठडक आप कभी सहन नहीं कर सकते थे। यदि सहन कर लेते हैं तो इसका कारण यह है कि आप सदा मेरे दुख से सतप्त हृदय में निवास करते हैं, जिस में दुःख की आग सदा मुलगती रहती है। उसी आग से आपको गर्भी पहुँचती रहती है और इसी से आप इतनी ठडक वर्दान्त कर लेते हैं।

२५

यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि  
यो वा मदं वहति तस्य दमं विघत्से ।  
इत्यक्षरद्वय-विपर्यय-केलि-शील  
किन्नाम कुर्वति नमो न मनः करोषि ॥

**भावार्थ** —एक शिव का भवत शिव से कहता है कि जो आप के समक्ष मुख से 'रव' (शब्द) करना है उसको आप उल्टा 'वर' देते हैं। जो आपके सामने 'मद' (अभिमान) करता है उसका आप 'दम' (दमन) करते हैं। इस प्रकार अधारो वा उलट पलट करना आपके लिए स्वाभाविक होल सा है। तब फिर क्या बात है कि मैं 'नम' (नमस्कार) करता हूँ किन्तु तुम उसकी ओर 'मन' भी नहीं देते।

२६

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं  
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः ।  
संचारः पदयोः प्रदक्षिणाविधि. स्तोत्राणि सर्वा गिरो  
यद्यत्कर्मं करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् ॥

**भावार्थ** —एक शवर का भवत भगवान् वी स्तुति में कहता है—हे शवर! मेरा शरीर ही मन्दिर है, उसमे तुम मेरे आत्मा के हृष में निवास करते हो, उसी मे तुम्हारी अद्वागिनी पायती

जी मेरो बुद्धि के रूप मे विराजती है , उसमे मेरे प्राण ही तुम्हारे सहचर (साथी) हैं, उसमे मेरी इन्द्रिया भिन्न-भिन्न विषयो का जो भोग करती हैं वही तुम्हारी पूजा है, उसमे मेरी निद्रा तुम्हारी समाधि है , उसमे पंरो से जो मेरा सचरण होता है वही तुम्हारी परिक्रमा है और वाणी से जो जो मैं कहता हूँ वही तुम्हारी स्तुति है । माराश यह है वि हे प्रभो ! कर्मणा, मनसा, वाचा जो जो कर्म मैं करता हूँ, उसको आप मेरी पूजा के ही रूप मे स्वीकार करे ।

२७

हस्तमाक्षिप्य यातोऽसि वलात्कृष्ण किमद्भुतम् ।

हृदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते ॥

भावार्थ —एक भक्त कृष्ण को सवोधन करके कहता है— हे कृष्ण ! मेरा हाथ वलपूर्वक छुड़ाकर तुम चले जा रहे हो, इसमे कोई बड़ी वात नहीं है । हाँ, तुम्हारा पौरुष तो मैं तब जानू, जब तुम मेरे हृदय से निकल जाओ । इसी भाव को लेकर ही नीचे वा दोहा लिखा गया है—

हाथ छुडाये जात हो, निवल जानिके मोहि ।

हिंदे से जो जाइहो, सबल वदोंगो तोहि ॥

२८

बालक इव परिपालितपातकनिचयः प्रथत्नतो बहुशः ।  
त्वद्दृश्यनेन नष्टः भन्दाकिनि डाकिनी किमसि ॥

**भावार्थः—**एक गगा का भक्त गगा को सम्बोधन करके कहता है—हे गगे, मैंने बहुत दिनों से, बड़े लाडप्पार से, अपने पापों के समूह को, बालक के समान, अपनी गोद में पाल रखा था। परन्तु वह पापस्पी बालक आपके दर्शन करते ही नष्ट हो गया। सो हे मन्दाकिनि, बोलो, तुम बच्चों को खा जाने वाली डाकिनी हो क्या?

## २६

येषां श्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्ति भवितनंराणां  
येषामाभीरकन्याप्रियगुणकथने नानुरक्षता रसना।  
येषां श्रीकृष्णलीलाललितगुणरसे सादरी नैव कर्णो  
धिक्तान्धिक्तान्धिगेतान्कथयति सततं पीतंनस्थो मृदंगः ॥

**भावार्थः—**जिन लोगों को यशोदासुत भगवान् कृष्ण के चरण कमल में भवित नहीं है, जिनकी जिह्वा आभीर-कन्याश्रो (गोपियो) के प्यारे कृष्ण के गुणों के वरणन करने में अनुरक्षत नहीं है, जिनके पान श्री कृष्ण की ललित लीला के गुणों को जादर मुनने में अभिन्नि नहीं रखते, “उनको धिक्कार है!” “धिक्कार है उनको” ऐसा बीतौन के समय यजता हुआ मृदंग “धिक् धिक् तान्” धिक् धिक् तान्” इस बोल वे द्वारा यार-यार कह रहा है।

## लक्ष्मी और सरस्वती का विवाद

३०

विद्वांसः कृतबुद्धयः सखि मम ह्वारि स्थिता नित्यशः  
श्रीमन्तोऽपि मध्या विना पशुसमास्तस्मादहं श्रेयसी ।  
श्रीवाग् देवतयोरमूनि वचनान्याकर्णं वेधाश्चिरा-  
द्वृचे श्रेपतरे उभे यदि भवेदेको विवेको गुणः ॥

भावार्थ :—लक्ष्मी और सरस्वती का विवाद इस श्लोक में  
अच्छा दिया गया है। लक्ष्मी कहती है—“सखी, बडे-बडे विद्वान्  
और बडे-बडे बुद्धिमान् नित्य मेरे (धनियों के) दरवाजे पर हाथ  
फैलाये खडे रहते हैं।” इस पर सरस्वती उत्तर देती है—“हा  
ठीक है, किन्तु धनी मनुष्य भी मेरे (सरस्वती के) विना निरे  
पशु के समान है, इस लिये मैं तुम से बड़ी हूँ।” लक्ष्मी और  
सरस्वती के इस विवाद को सुनकर ब्रह्मा जी, बहुत देर तक  
सोचने के बाद बोले—तुम दोनों ही अच्छी हो, यदि दोनों में  
एक विवेक गुण भी हो। विना विवेक के दोनों में से कोई भी  
प्रशसा के योग्य नहीं है।”

३१

पीतोऽगस्त्येन तातश्चरणतलहृतो वल्लभोऽन्येन रोया-  
दाबाल्याद्विप्रवर्यः स्ववदनविवरे धार्यते वैरिणी मे ।

गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिमित्त  
तस्मात्खिन्ना सदाऽहं द्विजकुलसदनं नाथ नित्यं त्यजामि ॥

**भावार्थः**—विष्णु ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम ब्राह्मणों से क्यों घृणा करती हो ? उनके पास क्यों नहीं जाती ? इस पर लक्ष्मी उत्तर देती है—“हे नाथ ! अगस्त्य नाम का एक ब्राह्मण हुआ है जिसने मेरे पिता समुद्र वो ही उठाकर पी लिया था। एक दूसरा ब्राह्मण भृगु नाम का हुआ है, जिसने मेरे ग्राण-पति विरशु भगवान् वो ही लात मार दी थी। वहुत धोटी उम्र से ही ब्राह्मण लोग मेरी वैरिणी सरस्वती की उपासना करते हैं और सर्वदा उसे अपने मुख में धारण किए रहते हैं। बमल मेरा निवास रहता है, उसी को वे लोग प्रतिदिन उमाकान्त (शिव) की पूजा वे निमित्त तोड़ा करते हैं। इन्हीं सब यातों से सिन्न होकर मैं ब्राह्मणों वे यहाँ रहने का नाम भी नहीं लेती। उन को दूर से ही नमस्कार करती हूँ।”

### ३२

पद्मे मूढजने ददासि द्रविण चिद्रत्सु कि मत्सरो  
नाहं मत्सरिणी न चापि चपलानैवास्मि मूर्खरत्ता ।  
मूर्खेन्यो द्रविणं ददामि नितरां तत्कारणे श्रूयता  
चिद्रान्सर्वजनेषु पूजिततमुमूर्खस्य नान्या गति ॥

**भावार्थः**—लक्ष्मी विद्वानों के पास क्यों नहीं जाती—इस पर इसी लक्ष्मी की प्रकृति की सूक्ष्म है—‘हे लक्ष्मी, तुम मूर्खों

को धन देती हो, पर विद्वानो से तुम्हारा इतना पूर्ण क्यों है ?”  
 इस पर लक्ष्मी उत्तर देती है—“न तो मैं किसी से द्वेष करती हूँ, न मैं चचला हूँ जैसा कि लोग मुझे समझते हैं और न मूर्खों से मेरा कोई प्रेम है। मूर्खों को जो मैं प्रचुर धन दिया करती हूँ उसका कारण सुनो—विद्वान् पुरुष तो सब जगह पूजा जाता है, उसकी प्रतिष्ठा सब जगह होती है, पर मूर्खों की तो सिवा मेरे और कोई गति ही नहीं है। इसी से मैं उन्हें धन दिया करती हूँ। यदि मैं भी उन्हे छोड़ दूँ, तो उनका ठिकाना और कहाँ लगे ?”

## ३३

लक्ष्मि क्षमस्व वचनीयमिदं दुखत-  
 भन्धीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन ।  
 नो चेत्कथं कमलपत्रविशालनेत्रो  
 नारायणः स्वपिति पन्तगभोगतल्पे ॥

**भावार्थ** —लक्ष्मी पाने से लोग भद्र से अन्धे हो जाते हैं, इस बात को कैसे अच्छे ढंग से इस द्वारा भी बहा गया है—“हे लक्ष्मी, तुम्हारी भक्ति और पूजा करने वाले पुरुष अन्धे हो जाते हैं—ऐसा कहने से यद्यपि तुम्हारी निन्दा तो होती है, पर है मह बात सच, इससे कहना पढ़ता है। यदि तुम्हारी उपासना करने से पुरुष अन्धे न हो जाते तो बताओ तुम्हारे साथ रहने से कमल-पत्र वे समान बढ़े-बढ़े नेत्र वाले विष्णु भगवान्, देखते हुए भी, क्यों दोष नाग वे दारीर पर दायन करते ? तुम्हारे सग मात्र से विष्णु भगवान् बढ़ी-बढ़ी आंस वाले होकर भी अन्धे हैं, तभी

तो सोपनाग के शरीर पर सोते हैं। सोते के लिए उन्हें और कोई ठीर न मिला !

३४

हालाहलो नैव विषं विषं रमा  
जनाः परं व्यग्रत्यमध्य मन्वते ।  
निषोदय जार्णात्त सुखेन तं शिवः  
स्पृशन्निमां मुहृत्ति निद्रया हरिः ॥

**भावार्थः**—लोगों का यह स्याल गलत है कि हालाहल विष है। मैं तो यह समझता हूँ कि हालाहल विष नहीं, विष तो वास्तव में लड्डमी है। क्योंकि हालाहल पीकर देखो शिव तो सदा जागते रहते हैं, परन्तु लड्डमी के स्पर्शमाध से मुग्ध होकर विष्णु भगवान् धीर सागर में, घोर निद्रा में पड़े सोते रहते हैं।

३५

यद्बन्ति चपलेत्यपवादं नैव दूषणमिदं कमलायाः ।  
दूषणं जलनिधेहि भवेत्यत्पुराणपुरुषाय ददौ ताम् ॥

**भावार्थः**—सोग पहुँते हैं कि लड्डमी पचता है, एक जगह स्थिर हो कर नहीं रहती; पाज एक के पास है तो वह दूसरे के पास। लेनिन इसमें लड्डमी का क्या दोष? दोष तो लड्डमी के पिता रामेश्वर का है, जिसने उसे पुराण पुरुष (बृहद मनुष्य पर्यात् विष्णु) से ध्वाह दिया। दर्ता भाव का रहीम का यह दोहा भी है .—

कमला यह न रहीम थिर साँच कहत सब लोय ।  
पर्व पुरातन की बधू क्यों न चला होय ॥

३६

रत्नाकरस्तव पिता कमले निवासो  
भ्राता सुधामयतनुः पतिरादिदेवः ।  
केनापरेण कमले बत शिक्षितानि  
सारंगश्वंगकुटिलानि विचेष्टितानि ॥

**भावार्थः**—हे लक्ष्मी, महान् रत्नो का खजाना समुद्र तो  
तुम्हारा पिता है, कमल-जैसे स्वच्छ और सुन्दर स्थान में तुम्हारा  
निवास है, प्रमृत का भाण्डार चन्द्रमा तुम्हारा भाई है, साक्षात्  
आदिदेव भगवन् विष्णु तुम्हारे पति है । ऐसे सरल और श्रेष्ठ  
कुल की होकर भी तुमने हिरन की सींग की तरह कुटिल व्यवहार  
किस से सीखा है, वताओं तो ?

३७

स्वार्थं धनानि धनिकात्प्रतिगृह्णतो यद्  
आस्यं भजेन्मलिनतां किमिदं विचित्रम् ।  
गृह्णन् परार्थमपि वारिनिधेः पयोऽपि  
मेघोऽयमेति सकलोऽपि च कालिमानम् ॥

**भावार्थः**—धनियों के सामने हाथ फैलाने से प्रतिष्ठा की  
कितनी हानि होती है, इस पर एक कवि कहता है—“किसी धनी

से अपने स्वार्थ के लिए धन लेते हुए मनुष्य का चेहरा मैला (फीका) हो जाय, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो, मैथ तो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, समुद्र से धन नहीं, केवल जल ही लेता है, परन्तु इतने ही से वह पूरी तरह काला हो जाता है। किसी के सामने हाथ फैलाने का यही परिणाम होता है।"

३८

लक्ष्मी यादोनिधेयदो नादो वादोदितं वचः ।

विभ्यती धीवरेभ्यस्सा दूरादूरं पलायते ॥

**भावार्थः—**लक्ष्मी जी सरस्यती के भक्तों से क्यों दूर भागती है, इस पर कवि की अच्छी कल्पना है। इस श्लोक में "धीवर" शब्द में उत्तम इलेप है। "धीवर" शब्द का एक अर्थ है 'विद्वान्' और दूसरा अर्थ है "मल्लाह"। कवि कहता है कि लक्ष्मी यादोनिधि (समुद्र) की "याद" (जलजन्तु) है—यह कहना अनुचित बात नहीं है। वह समुद्र की जन्तु है इसी से तो वह "धीवर" (विद्वान् या मल्लाह) से दूर-दूर भागती है कि कही मुझे पकड़ न ले।

३९

निद्राति स्नाति भुंकते चलति कच्चभरं शोषयत्यन्तरास्ते  
दीद्यत्यक्षंतं चायं गदितुमवसरो भूय श्राप्याहि याहि ।

इत्युद्धण्डः प्रभूणामसकृदधिकृतैर्वारितान् द्वारि दीना-  
नस्मान् पश्यादिधकन्ये सरसिरहरुचामान्तरंगैरपांगेः ॥

**भावार्थः—** किसी धनो के द्वार से दुर-दुराया गया कोई निष्पिक्चन, सरस्वती का भक्त लक्ष्मी से कहता है—“सरकार अभी सो रहे हैं, अभी स्नान कर रहे हैं, अभी भोजन पर बैठे हैं, अभी टहल रहे हैं, अभी बालों को सुखा रहे हैं, अभी जनानखाने में तशरीफ रखते हैं, अभी चौसर खेल रहे हैं, इस समय उनसे कुछ कहने का ग्रवसर नहीं है, फिर आना, अभी जाओ” इस तरह से धन के मद में मतवाले अमीरों की छ्योढ़ी पर नियुक्त उद्धण्ड अधिकारी पुरुषों से बार-बार रोके गए मुझ को हे लक्ष्मी, अपने कमल को भी मात करने वाले नेत्र के कटाक्ष से एक बार देख लो, तो मैं निहाल हो जाऊँ ।”

४०

अर्थनामीश्चिये त्वं वयमपि च गिरामीश्महे यावदित्यं  
शूरस्त्वं वादिदर्पञ्ज्वरशमनविधावक्षयं पाटवं नः ।  
सेवन्ते त्वां धनाद्या मतिमलहृतये मामपि श्रोतुकामा  
मय्यप्यास्था न चेत्त्वयि मम सुतरामेष राजनगतोऽस्मि ॥

**भावार्थ—** कोई सरस्वती वा भक्त विद्वान् इसी राजा के पास गया, विन्तु अपने प्रति उसकी उपेक्षा देख कर वह कहता है—“हे राजन ! तुम धन में स्थानी हो तो मैं वाणी वा मालिक हूँ ; तुम धूख्योर हो तो मैं भी शास्त्रार्थ में प्रतिवादियों के

घमण्ड को चूर करने की अनुपम योग्यता रखता है ; बड़े-बड़े धनों तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं और तुम्हारा मुँह जोहते रहते हैं तो न जाने कितने लोग अपनी दुष्किंचि का मल दूर करने के लिए मुझे सुनने और मेरी सेवा करने के लिए आत्मर रहते हैं । ऐसी दशा में यदि मेरे प्रति तुम्हारी शङ्खा नहीं है, तो मुझे भी आपके प्रति कोई आस्था नहीं है । अतएव मुझे यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं विदा लेता हूँ ।

४१

क्षारतादिभिरसेव्यतरोऽपि प्राहभीपणतया कुटिलोऽपि ।  
वारिधिर्वंत रमाद इतोव सेव्यते भगवता हरिणाऽसौ ॥

**भावार्थः—**—समुद्र इतना खारा है कि उसमें एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता, न उसका एक बूद पानी भी कोई पी सकता है । अनेक भीपण मगर आदि जोव-जन्म्यु उसमें रहते हैं । परन्तु ऐसे भयानक समुद्र में भी भगवान् विष्णु निवास करते हैं और उसका सेवन करते हैं, क्योंकि वह साक्षात् लक्ष्मी का देने वाला है । भगवान् विष्णु भी लक्ष्मी के लोभ से ही वहाँ निवास कर रहे हैं । लक्ष्मी का लोभ बड़ा प्रबल होता है ।

४२

त्वं राजा वद्यमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः  
स्व्यातास्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः ।

इत्यं मानद नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तरं  
यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः ॥

**भावार्थ :**—कोई सरस्वती का भक्त, विद्वान्, कवि किसी राजा या धनी के पास गया, परन्तु अपने प्रति उसकी उपेक्षा देखकर कहता है—“आपको यदि अपने धन और ऐश्वर्य का धमण्ड है तो मुझे भी इस बात का अभिमान है कि मैंने गुरु की सेवा करके विद्या और वुद्धि का सचय किया है। आप अपने धन और वैभव के लिए प्रसिद्ध हैं तो मेरा भी यश कवि लोग सारी दिशाओं में चारों ओर फैला रहे हैं। हे अभिमान मेरे चूरलक्ष्मी के पुत्र ! इस प्रकार हम दोनों में कोई बड़ा अन्तर नहीं है। अतएव यदि हमसे तुम अपना मुँह मोड़ते हो, तो हमें भी आपकी परवाह नहीं है।”

## ऋतु - वर्णन

४३

जगद्विजयरूपके पठति सूत्रधारे मधा—  
वतिप्रमदकोकिलाकलकलच्छलान्मंगलम् ।  
रुपं जवनिकां हरन् मृगदृशां मनोरंगत—  
स्ततः प्रविशति स्वर्यं कुसुमसायको नायकः ॥

भावार्थः—वसन्त ऋतु के वरण्नन में किसी कवि ने बड़ा सुन्दर रूपक बांधा है—जब “जगद्विजय” नाम के नाटक के प्रारम्भ में वसन्तरूपी सूत्रधार मद में मतवाली कोकिलाश्रो की क़़क्करूपी नान्दी का पाठ कर चुका, तब मृगनयनों कामनियों के मनरूपी रगभच (स्टेज) से मानरूपी जवनिका (पद्मे) को हटाते हुए कामदेव रूपी नायक ने प्रवेश किया। इस रूपक में कामदेव की उपमा समस्त जगत् को विजय करने वाले नायक से, वसन्त की उपमा सूत्रधार से, कोयल की कूक वी उपमा नान्दी-पाठ से, कामनियों के मन वी उपमा रगभच से और उनके रोप और मान की उपमा जवनिका से दो गयी हैं।

४४

जगौ विवाहावसरे वनस्थलो-  
वसन्तयोः कामहृताशसाक्षिणि ।

पिकट्टिज़ ग्रोतिमना मनोरमं

मुहुर्मुहुर्मगलमंत्रमादरात् ॥

**भावार्थ** — वसन्त काल में वनस्यली कैसो हरी-भरी और शोभायमान हो जाती है तथा कोयल अपनी कूक से लोगों के मन को कैसा आकर्षित करती है—इसका वर्णन करता हुआ कवि कहता है—वसन्त और वनस्यली का विवाह रचाया गया। विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर उसके चारो ओर वर और वधू फेरे फिरते हैं। इस अवसर पर कामदेव की अग्नि ने ही साक्षी का काम दिया। विवाह में पुरोहित मनो का पाठ करता है। इस अवसर पर कोयल ने ही पुरोहित का काम किया। बार-बार कोयल की कूक ही मनो का उच्चारण है।

४५

वसन्तप्रारम्भे चिरविरहित्वा सहचरी

यदि प्राणान्मुचेत्तदिह वधभागी भवति क. ।

वयो वा स्नेहो चा कुसुमविशिखो वेति विमृशन्

तुहीति प्रव्यवतं पिकनिकरभाँकारमशृणोत् ॥

**भावार्थ** — वसन्त ऋतु में कोई वियोगी पथिक अपनी विरहणी प्रियतमा के बारे में सोचता हुआ कहता है—वसन्त का प्रारम्भ हो गया है जब विरहणी वाला ओर के हृदय में वियोगाग्नि भड़क उठती है, ऐसे समय में चिरकाल से विरह के दुख को भोगती हुई यदि मेरी सहचरी प्रियतमा अपने प्राणों को छोड़ दे, तो उसके बध का अपराधी कौन होगा? वया युवावस्था इस

अपराध की भागी होगी या प्रियतमा का उत्कट प्रेम इसका भागी होगा या कुसुम-शर कामदेव इसका भागी होगा ? जब वह इस तरह विचार कर ही रहा या तभी चारों ओर से वृक्षों पर बैठो हुई कोविलाशो ने एक स्वर से अपनी कूकू में कहा—“तू ही, तू ही” । उन रावने मिलकर मानो स्पष्ट कह दिया कि यदि उस प्रेमोन्मादिनी विरहिणी को कुछ हो गया तो दोषी “तू ही” ठहराया जायगा ।

४६

चारस्त्रीव वनस्थली नवनवां शोभां वभारान्वहं  
पान्धान् पीड्यति स्म तस्कर इव क्रूरः शरैर्मन्मथः ।  
शृंगारः सगुणः क्षमापतिरिव प्राप्तः प्रतिष्ठां परां  
रात्रिः स्वीकुरुतेस्म मुग्धललनालज्जेव फादर्यं क्रमात् ॥

**भावार्थः**—यसन्त ऋतु में वेद्या के समान वनस्थली ने प्रतिदिन नयी-नयी शोभा नये-नये प्रकार से भारण पो । डाकू के समान कामदेव प्रियतमाशो से दूर विरही परिहासो को अपने क्रूर बाणो से पीड़ा देने लगा । शृंगार रम ने मर्वंगुण सम्पन्न होकर, दलग्रस सहित राजा के समान, चारों पीर प्रतिष्ठा पो प्राप्त किया और रात वैसे ही पीरे-पीरे क्षीण होने लगी जैसे वि मुग्धा नादिगत वी लज्जा पीरे-पीरे क्षीण होनी जानी है ।

४७

बालेन्दुवप्राप्यविकासभावाद्  
बनुः पलाशान्यतिनोहितानि ।

सद्यो वसन्तेन समागतानां  
नखक्षतानीव वनस्थलीनाम् ॥

**भावार्थः**—वसन्तु ऋतु मे वनस्थली मे फूले हुए पलाश के अधखिले लाल लाल फूल ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो दूज के चान्द के समान टेढे ये टेसू के फूल वास्तव मे ऋतुराज वसन्त के माथ त्रीडा करतो हुई वनस्थली द्वपि वधूटी के अगो पर तुरन्त लगे हुए नखक्षत हो ।

४८

सद्याधेः कृशता क्षतस्य रुधिरं दष्टस्य लालाक्षुतिः  
किञ्चिन्नेतदिहास्ति तत्कथमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः ।  
आः ज्ञातं भयुलं पठेमधुकरैरारब्धकोलाहले  
नूनं साहसिकेन चूतमुकुले दृष्टिः समारोपिता ॥

**भावार्थः**—वसन्त ऋतु मे एक वियोगी पथिक मार्ग मे एक आम के पेड के पास मरा हुआ दिखाई पडा । इस पर विकर्तपना करता है वि यदि यह किसी बीमारी से मरा होता तो वम से कम दुबला होता, यदि कोई धाव होता तो लहू वहा होता, यदि सौप के बाटने से मरा होता तो मुँह से केन बहा होता । परन्तु ये सब लक्षण तो इसमे कुछ भी नहीं हैं, तो फिर वेचारा पथिक मरा कैसे ? अच्छा, समझे ! मजरियो पर मण्डराते हुए मधु के लोभी भौरो बी झनवार से आवृष्ट होकर, इसने साहस दरके ग्रवद्य आम की मजरी पर दृष्टि ढाल दी होगी और तभी

इसकी वियोगाग्नि भड़व उठो होगी और उसी से इसके प्राण-पदोन्ह उड़ गए होंगे ।

४६

कोकिलश्चूतशिखरे मंजरीरेणुपिजरः ।  
गदितैर्वर्यपततामेति कुलीनश्चेष्टिरिव ॥

**भावार्थः—**—वसन्त ऋतु में श्राम के वृद्ध मजरी से इतने लदे हुए हैं कि उनकी चोटी पर बैठी हुई थोयल भी मजरी वे रग से रजित हो गई है । पता नहीं चलता कि वहाँ थोयल बैठी हुई है । उसका पता तभी लगता है जब यह कू-कू प्रावाज बरती है । इस प्रवार वह प्रपनो बोसी स उभी तरह प्रगट होती है, जिस तरह कि कुलीन मनुष्य प्रपने आचरण और वाणी से जाना जाता है ।

५०

तप्ता मही विरहिणामिव चित्तवृत्ति-  
स्तृप्तणाद्यगेयु फूपणेत्विव वृद्धिमेति ।  
सूर्यः करेदंहति दुर्यंचनैः रजो तु  
धाया सतीय न च मुञ्चति पादमूलम् ॥

**भावार्थ—**—श्रीराम एनु में गृह्णी यंते ही तार रही है, जैसे यि विदोती प्रेमियो का हृषय यियोग मे तार भरता है । बटाटियो में ल्याम यंता ही यह रही है जमे शूराम मनुष्यो मे पन को गृह्णाया दिनरर दिन बढ़ती जाती है । गूर्ये पनो तीमी विरागो ऐ

जगत् को वैसे ही पीडा दे रहा है, जैसे कि दुर्जन मनुष्य अपने वाग्वाणो से लोगों को पीडा दिया करता है। छाया वृक्ष की जड़ को वैसे ही नहीं छोड़ती जैसे कि सती पतिव्रता स्त्री अपने पति के चरणों को छोड़कर कही नहीं जाती।

५१

परपुरुषादिव सवितुः संप्रति भीता कराप्रसंस्पर्शात् ।  
कुलवध्य इव सलज्जाः प्रविशन्ति गृहोदरं छायाः॥

**भावार्थः**—सूर्य की किरणें (अर्थात् सूर्य का हाथ) कही मुझे स्पर्श न कर लें, वहस इसी डर से ग्रीष्म में छाया घर के भीतर घुसकर बैठती है, जैसे कोई लज्जाशीला कुलकामिनी परपुरुष के कर-स्पर्श से डरतो हुई घर के भीतर घुस जाती है। ‘कर’ में इलेप है—‘कर’ का अर्थ ‘हाथ’ और ‘किरण’ दोनों हैं।

५२

छाया वियोगिवनितेव गता कृशत्वं  
तप्तं पयः पिशुनमानसवद्वभूव ।  
केनाधुना वत् मनागवलोकनीयः  
कुद्धोत्तमरणंमुखमण्डलवत्पतंगः ॥

**भावार्थः**—ग्रीष्म ऋतु में पेड़ों की छाया वैसे ही तेजोरहित, मन्द और वृश हो जाती है जैसे कि विरहिणी स्त्री अपने प्रियतम के वियोग में दुवली हो जाती है। जल ग्रीष्म की गर्मी

से वेंसे ही तप जाता है, जैसे कि दुष्टों का हृदय दूसरों की ईर्ष्या से भीतर-ही-भीतर जला करता है। लाल अगारे के समान प्रचड़ सूर्य की ओर देखने का साहस उसी प्रकार नहीं होता जिस प्रकार कि क्रोध में भरे हुए, कर्ज देने वाले, महाजन का मुख देखने का साहस कर्जदार को नहीं होता।

## ५३

मध्याह्ने चलतालबृन्तमनिलः सर्वात्मना सेवते  
चारि स्वेदमिषेण शीतलवधूवक्षोजमालम्बते ।  
निद्रा नेत्रमुपैति पक्षमयुगलच्छायाथिता दैहिकी  
पान्ध्यानामथ पादयोर्निपतति च्छायापि मा पान्तिवति ॥

**भावार्थः**—ग्रीष्म की ऋतु में ठीक दोपहर को सभी प्राणी द्याकुल हो जाते हैं और गर्भ से बचना चाहते हैं। यहाँ तक कि हवा भी गर्भ से बचने के लिए चलते हुए पसे की शरण ले लेती है, जल भी पसीने के रूप में घघुओं के शीतल पयोधरो की छाया में आ जाता है। निद्रा भी नेत्रों की दोनों बटीनियों की छाया में शरण ले लेती है; और पथिकों के शरीर की छाया भी उनके पैरों पर गिरकर, उनको आगे जाने से रोक देती है।

## ५४

दुःसहतादभ्यादिव संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे ।  
छायामिव वांछन्तो छायापि गता तरतलानि ॥

**भावार्थः—**ग्रीष्म मे दोपहर को, सूर्य के ठीक मध्य आकाश मे आने पर, असहनीय ताप के भय से, छाया भी छाया की इच्छा से वृक्ष के नीचे चली गयी है। दोपहर के बारह बजे छाया सिकुडती-सिकुडती ठीक वृक्ष के नीचे आ जाती है, इसी बात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से कहा है। इसी भाव का बिहारी का यह दोहा भी है—

बैठि रही अति सघन वन, पैठि सदन मन माँहि ।  
निरखि दुपहरी जेठ की, छाहो चाहत छाँहि ॥

## ५५

निजां कायच्छाया श्रयति महिषः कर्दमधिया  
च्युतं गुंजापुञ्जं रुधिरमिति काकः कलयति ।  
समुत्सर्पन्सर्पः सुपिरविवरं तापविवशः  
सचीत्काराधूतं प्रविशति करं कुंजरपतेः ॥

**भावार्थः—**ग्रीष्म ऋतु मे गर्मी से व्याकुल होकर भैंसा अपने शरीर की छाया को ही कीचड समझकर उसमे लोटना चाहता है। कौआ भी गर्मी से व्याकुल होकर लाल-लाल गुंजाफलो को रुधिर समझकर अपनी जोच से चाटना चाहता है। सर्प भी, गर्मी से घबडावर, विल की तलाश मे रेगता हुआ हाथी की भुंड मे प्रवेश कर रहा है और इससे हाथी अपनी सूड को बडे चौत्कार के साथ फडफडा रहा है।

५६

छाया [संश्वयते तत्त्वं विटपिनां श्रान्तेव पान्थः समं  
भूलं याति सरोजलस्य जड़ता ग्लानेव मीनः सह ।  
श्राचामत्यहिमांशुदीधितिरप्स्तप्तेव लोकः समं  
निद्रा गर्भंगृहं सह प्रविशति वलान्तेव कान्ताजनैः ॥

**भावार्थः—**ग्रीष्म ऋतु में छाया भी पथिकों के साथ-साथ  
थककर पेडो के नीचे शरण लिये हुए पड़ी है । गर्मी से व्याकुल  
होकर जल की निस्तब्धता भी मछलियों के साथ-साथ सरोवर  
के पंदे में जाकर टिक गयी है । जिस तरह लोग व्याकुल होकर  
शीतल जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, उसी तरह सूर्य भी अपनी  
किरणों से पानी खीचकर अपनी प्यास बुझा रहा है । निद्रा  
भी यकी मान्दी होकर कुल स्त्रियों के साथ-साथ घर के भीतरी  
कमरे में नीद लेने के लिए प्रवेश कर रही है ।

५७

दुष्प्रेक्ष्यमुच्चैर्गणं निदाये

कोपाकुलस्येव भूलं नृपस्य ।

हरे: शयानस्य मृणालबुद्ध्या

फर्पन्ति पुच्छंकरिणः करेण ॥

**भावार्थः—**ग्रीष्म ऋतु में भावाश की ओर देखने से वंसा  
ही ढर लगता है जैसे कि वौषध से तमतमाए हुए राजा वा मुख

देखने से भय लगता है। गर्भों के मारे सिंह व्याकुल होकर ऐसी घोर निद्रा में सो रहा है कि हाथी उसकी दुम को खीचता है और उसे पता भी नहीं चलता। हाथी यह समझकर उस की दुम को खीचता है कि यह कमल की नाल है। सच है ग्रीष्म ने सब को धोखे में डाल रखा है।

#### ५८

खं वस्ते कर्लविककण्ठरुचिरं कादम्बिनीकम्बलं  
चर्चा पारयतीव दर्दुरकुलं कोलाहलैरुमदम् ।  
गन्धं मुंचति सिवतलाजसदृशं वर्येण दग्धा स्थली  
दुलंक्ष्योऽपि विभाव्यते कमिलनीहासेन भासां निधिः ॥

**भावार्थः**—वर्षाकाल में कर्लविक (गौरेया) के कण्ठ के समान काले मेघ आकाश में छाये हुए ऐसे लगते हैं मानो आकाश रूपी फर्श पर काला गलीचा विद्धा हो। मेढ़क लोग टर-टर लगाए हुए ऐसे लगते हैं मानो वेद-पाठी छात्र वेद-पाठ कर रहे हो। ग्रीष्म से तप्त पृथ्वी वर्षा की दून्दो से सिक्त होकर वैसी ही सुगन्ध छोड़ रही है, जैसी सुगन्ध धान के लावा के धो में भूजने से उठती है। यद्यपि सूर्य मेघों में छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ता तथापि कमलों के विकास से उसके अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

#### ५९

क्षपा क्षामीकृत्य प्रसभमपहृत्याम्बु सरितां  
प्रताप्योर्बीं कृत्स्नां तरुगहनमुच्छोप्य सकलम् ।

वव संप्रत्युषणागुर्गत इति तदन्वेपणपरा-  
स्तडिद्वीपालोका दिशि दिशि चरन्तीहि जलदाः ॥

**भावार्थ.**—वर्षा काल की रात के बर्णन में एक कवि कहता है—श्रीष्म ऋतु में सूर्य ने बड़े-बड़े अत्याचार किये हैं, विशेषकर अवलाघो पर। धापा (रात्रि) रूपी अवला को सताकर उसने कृशित और दुर्वल बना दिया है (गर्भ में रात छोटी हो जाती है); उनी हृषी स्त्रियों को उनका सर्वस्व जल वल्लपूर्वक अपहरण कर दीन बना दिया है, एक अन्य अवला अर्थात् पृथ्वी को तपाकर भुलसा दिया है, इसके अतिरिक्त जितने बन-उपवन हैं उनको सुखाकर मुर्दा बना दिया है—इस प्रकार इतने बड़े-बड़े अन्याय और अत्याचार करके वह अत्याचारी सूर्य वहाँ छिपकर बैठा है, वह उसी को ढूढ़ने के लिए, हाथ में विजली हृषी मसाल सेकर, ऐध एक दिशा से दूसरी दिशा में चक्कर लगा रहे हैं।

६०

निरोक्ष्य विद्युन्मयनैः पयोदो  
मुखं निशायामभिसारिकायाः ।  
धारानिपातैः सह किं तु वान्त  
इच्छन्द्रोऽयमित्यात्मतरं ररास ॥

**भावार्थ.**—वर्षा वाली पर्यायी रात में एक चन्द्रमुग्नी यमिसारिका नायिका द्विरर घग्ने यार के घर जा रही है। उसके मुखहृषी चन्द्रमा दो विजली न्यो नेगो में देखवर यादलो

की भ्रम होता है कि कही निरन्तर के धारापात के साथ चन्द्रमा तो आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिर पड़ा, हाय, बड़ा गजब हो गया। इसी सोच में भरकर वे अकस्मात् बड़ो जोर से चिल्ला उठे। यह बादलों का गरजना ही उनका चौक कर चिल्लाना है।

## ६१

आकाशे पश्य नेमा निविड़घनघटाः संभृताग्नेयचूर्णा  
मञ्जूपा भान्ति तासामुपरि सुरघनुःकैतवात्केतवोऽमी ।  
विद्युन्नो नालयंत्रश्रुतिमुखनिपतदीप्तवर्त्तिप्रकाशः  
संन्यं मारस्य मन्ये स्फुरति विभयितुं मानिनीमानदुर्गम् ॥

**भावार्थः**—वर्षा काल में देखो आकाश में बादलों को यह घनधोर घटा नहीं है बल्कि बाहुद से भरी हुई पेटी है; उसके ऊपर जो यह इन्द्रधनुप प्रगट हो रहा है वह इन्द्रधनुप नहीं है बल्कि सेना की पताका है; उसमें जो यह बिजली की छटा चमक रही है वह बिजली नहीं है बल्कि तोप की नली में रखे हुए पलीते में आग लगने से निकला हुआ प्रकाश है। इस प्रकार सेना के सब साधनों से सुसज्जित होकर कामदेवरूपी सेनापति मानिनी स्त्रियों के भानरूपी गढ़ को चूर करने के लिए निकल पड़ा है।

## ६२

चन्द्रबिम्बरविद्विम्बतारकामण्डलानि घनमेघडम्बरैः ।  
भक्षितानि जलदोदरेषु तद्रोदनध्वनिरिवैष गजितम् ॥

**भावार्थः**—वर्षाकाल में घनधोर मेघों के समूह ने चन्द्रमा को,

सूर्य को और तारो को समूचा निगल लिया है, तभी तो दिन को सूर्य और रात को चन्द्रमा और तारे दिखाई नहीं पड़ते। वही निगले हुए सूर्य, चन्द्रमा और तारे मेघों के उदर में पड़े हुए कुडमुडाकर रो रहे हैं। मेघ जो गर्जते हैं, वही उनके रोने की आवाज है।

## ६३

चलद्वलाकादशन। भिरामः परिष्वद्वारिमदाम्बुधारः ।  
आहन्यमानस्तङ्गिदंकुशेन स्मरस्य दध्वान घनद्विपेन्द्रः ॥

**भावार्थ**.—कामदेवरूपी राजा हाथी पर चढ़कर मसार को विजय करने के लिए निकला है। काला मेघ ही उसवा हाथी है, चलते हुए सारसों की पक्षित ही उस हाथी के दात है, आकाश से गिरता हुआ वर्षा का जल ही हाथी के शरीर से चूते हुए मद की धारा है, विजली की चमक हो उस हाथी के ऊपर लगा हुआ अकुश है जिसके चुभने से वह चिघाड़ उठना है और बादल का गरजना ही उस हाथी को चिघाड़ है।

## ६४

वृद्धांगनेव विजहो सरिदुद्धतर्त्व  
वैदान्तिनामिव मतं शुचि नोरमासीत् ।  
चन्द्रप्रभा युवतिवन्मिवाङ्गुताभूत्  
ब्राह्मण्यदैन्यमिव केकिरुतं न रेजे ॥

**भावार्थ**:—शरत् वाल मे नदियों वा जोम वैसे हो टूट गया

जैसे कि बुढ़ापे मे स्थियो का जोम टूट जाता है ; जल वैसा ही साफ हो गया जैसा कि वेदान्तियो का सिद्धान्त स्वच्छ और विमल होता है , चन्द्रमा का प्रकाश मेघो के लोप हो जाने से, वैसा ही निर्मल और शोभायुक्त हो गया जैसा कि सुन्दर युवतियो का मुखारविन्द शोभायुक्त होना है और मोरो का किकियाना वैसा ही करण्कदु लगता है जैसा कि विद्वान् व्राह्मणो की दीन वाणी कानों को अप्रिय लगती है ।

६५

अथ प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा  
 समाययाद्वृत्पलपत्रलोचना ।  
 सपंकजा श्रीरिव गां निषेवितुं  
 सहंसबालव्यजना शरद्धधूः ॥

**भावार्थः—**रमणीय चन्द्रमा ही जिसका मुख है , आकाश ही जिसकी साड़ी है , नोले कमल हो जिसके लोचन है , कमल की शोभा ही जिसकी शोभा है ; हस ही जिसका चवर है, ऐसी शोभायमान शरद् रूपी वधू, माक्षात् लक्ष्मी के समान, पृथ्वी का सुख भोगने के लिए आकाश से नीचे उतर आयी है ।

६६

तीक्षणं रविस्तपति नीच इवाच्चिराढचः  
 शृंगं रुख्स्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः ।

तोयं प्रसीदति मुनेरिव चित्तवृत्तिः  
कामो दरिद्र इव शोषमुपैति पंकः ॥

**भावार्थ** —शरद क्रतु में सूर्य वैसा ही तथ रहा है जैसा कि हाल ही मे धन पा जाने से, मद से बोराया हुआ नीच पुरुष तपने लगता है, किसी को माल नही गिनता । हिरन अपने सीगो को वैसे ही त्याग रहे हैं जैसे कि वृत्तधनी मनुष्य रामर्य पड़ने पर अपने सञ्जिकट मित्र को भी त्याग देते हैं । जल वैसा ही स्वच्छ हो गया है जैसा कि युनियो का मन स्वच्छ रहता है । वर्षाकाल मे वपा के बारण उत्पन्न कीचड वैसे ही धीरे-धीरे सूख रहा है जैसे कि कामी दरिद्र की इच्छाएँ, साधन न होने से, आप ही लोग हो जाती हैं ।

६७

हिमधवलदन्तकेशी मन्दद्युतितारका वृहत्तिमिरा ।  
द्विगुणीभूता रजनी वृद्धेच शनैः शनैर्याति ॥

**भावार्थ** —हेमन्त क्रतु मे रात दुगनी बढ़ी हा जाती है, अतएव उसकी उपमा एक वृद्धा स्त्री से दी गयी है । हिम (वर्फ) ही उसके सफेद दात और वेश है । आराश के तारे ही उसकी आँखो की पुतलियाँ हैं । जिस प्रकार वृद्धावस्था मे आँखो की ज्योति मन्द पड़ जाती है, उसी प्रकार हेमन्त की रात मे तारो की ज्योति भी पोसी पड़ जाती है । जिस प्रकार वृद्धावस्था मे आँखो का तिमिर बढ़ाता है, उसी प्रकार हेमन्त की रात का प्रध-कार भी बढ़ जाता है । जिस प्रकार वृद्धा स्त्री लाठी के सहारे

धीरे-धीरे चलती है उसी प्रकार हेमन्ती की रात भी धीरे-धीरे ही जाती है। रात पहाड़ जैसी लगती है, काटे नहीं कटती।

## ६८

लज्जा प्रौढ़मृगीहशामिव, नवस्त्रीणां रतेच्छा इव  
स्वैरिण्या नियमा इव, स्मितरुचः कुल्यांगनानामिव ।  
दम्पत्योः कलहा इव, प्रणयिता वारांगनानामिव  
प्रादुभूंय तिरोभवन्ति, सहसा हेमन्तिका वासरा: ॥

**भावार्थः**—हेमन्त क्रृतु में प्रीढ़ा स्त्रियों की लज्जा के समान, नवयुवतियों की सुरतेच्छा के समान, यथेच्छाचारिणी स्त्रियों के शील और नियम के समान, कुलीन स्त्रियों की मुस्कान के समान, पति और पत्नी के परस्पर प्रेम-कलह के समान तथा वेश्याओं की प्रीति के समान, दिन आते हैं और फिर शीघ्र ही विलीन भी हो जाते हैं। हेमन्त क्रृतु में दिन छोटे हो जाते हैं इसके बर्णन में कौसी सुन्दर और घरेलू उपमाएँ कवि ने दो हैं।

## ६९

दुराशेव दरिद्रस्य तृष्णेव कृपणस्य च ।

अहो न विरभत्येषा हन्त हेमन्तयामिनी ॥

**भावार्थः**—हेमन्त क्रृती रात दिन पर दिन वैसो ही बढ़ती जाती है जैसे कि दरिद्र मनुष्य की दुराशा और कृपण मनुष्य की तृष्णा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। कभी उमड़ा अन्त होने पर नहीं आता।

७०

शीतात्ता इव संकुचन्ति दिवसाः नैवाम्बरं शवंरी  
 शीघ्रं मुञ्चति, पश्य देव ! हुतभुक्कोणं गतो भास्करः ।  
 त्वं चानंगहृताशभाजि हृदये सीमन्तिनीनां स्थितो  
 नास्माक वसनं न वा युवतयो वूहि कव यामो वयम् ॥

**भावार्थः**—शिशिर काल मे कोई कवि किसी राजा के पास जाकर कहता है—हे राजन् ! जाडे मे दिन भी सर्दी के मारे छिन्ह कर सिकुड़ गए हैं (अर्थात् छोटे हो गए हैं) । रात भी जाडे के मारे अम्बर (आकाशरूपी रजाई) ओढे पड़ी हुई है और आकाश को शीघ्र छोड़ना नहीं चाहती, इसीलिए जाडे मे रात बड़ी हो गई है । सर्दी से छिन्ह द्वारा हुम्मा सूर्य भी आग तापने के लिए अग्निकोण को चला गया है । आप भी उन रानियों के हृदयो मे निवास करते हैं, जिनमे कामाग्नि सदा सुलगा करती है । और मैं अपनी क्या कहूँ, मेरे न तो कपड़ा है, न युवतियां हैं । वताइये मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कौसे जाडा काढँ ?

७१

विभीषयति शीतलं जलमहिर्वपुष्मानिव  
 प्रलोभयति कामिनीस्तन इवास्तध्मानिलः ।  
 सुताप्तय इव त्विषो दिनमणे. सुखं कुर्वते  
 कुदुम्बकदुवागिय व्यथयते तुपारानिलः ॥

**भावार्थं—**शिशिर काल मे ठडा जल साक्षात् सर्प की तरह काटने को दौड़ता है। जिनमे से धुंश्रा अब नहीं उठ रहा है, ऐसे लाल-लाल जलते हुए आग के अगारे मनुष्य को अपनी ओर चैसा ही आकृष्ट करते हैं, जैसे कि कामिनी के स्तन देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सूर्य की किरणें मनुष्य को चैसा ही सुख देती है, जैसा कि पुत्र की प्राप्ति होने पर मनुष्य को सुख मिलता है। ठडी तीखी हवा शरीर को बैसे हो बेधती चलती है, जैसे कि अपने कुदुम्ब घालो के कडवे वचन हृदय को बेधनेवाले होते हैं।

७२

**शिशिरसोकरवाहिनि मारुते**

**चरति श्रीतभयदिव सत्वरः ।**

**मनसिजः प्रविवेश वियोगिनी-**

**हृदयमाहितशोकहुताशनम् ॥**

**भावार्थः—**शिशिर ऋतु मे ठडी हवा विरहिणी स्त्रियो के लिए वैसी दुगदायिनी होती है इसका बरंन बरते हुए यवि वहता है—शिशिर काल मे ठडी हवा चलने पर, शोत से बचने के लिए रामदेव भी, वियोगिनी स्त्रियो के हृदयो मे, जिनमे वियोग वो आग जल रही है, प्रवेश करने लगता है।

## प्रभात और सूर्योदय

७३

अभूतप्राची पिंगा रसपतिरिव प्राश्य कनकं  
क्षणात्क्षीणा तारा नृपतय इवानुद्यमभृतः ।  
गतच्छायश्चन्द्रो बुधजन इव ग्राम्यसदसि  
न राजन्ते दीपा द्रविड़रहितानामिव गुणाः ॥

भावार्थ.—प्रभातकाल के वर्णन में बड़ी सुन्दर उपमाएँ इस श्लोक में दी गयी है—सोना पी लेने के बाद पारा जैसे तपाए हुए सोने की भाँति चमकने लगता है, उसी तरह पूर्व दिशा भी प्रभात काल में सूर्योदय की लाली से तपाए हुए सोने की भाँति चमक रही है । आलसी अनुद्यमी राजाभ्रो की भाँति तारे भी क्षण भर में क्षीण होकर लोप हो गये हैं । जिस प्रकार गंवारो के बीच में बुद्धिमानों की श्री हत हो जाती है, उसी प्रकार चन्द्रमा भी प्रभातकाल में श्रीहत होकर अस्त हो रहा है । दीपक वैसे ही प्रकाशहीन होकर शोभा नहीं देते, जैसे कि धन से हीन दरिद्र मनुष्य के गुण शोभा नहीं देते ।

७४

विरलविरलीभूतास्ताराः कलौ सुजना इव  
व्यपसरति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिव दुर्जनः ।

अथमुदयधरित्रोधारिमूर्धीधिरुद्धो  
नयनपथमुपेतो भानुमत्केसरीन्द्रः ॥

**भावार्थः**—इस इलोक में सूर्य की उपमा एक सिंह से दी गयी है। प्रातःकाल सूर्यरूपी सिंह ने अन्धकाररूपी हाथी के मस्तक को अपने किरणरूपी नस्तों से विदीर्ण कर दिया है। मस्तक विदीर्ण होने से जो मोती उसमें से गिरे हैं वही ओस की बूँदों के रूप में चारों ओर विखड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही सूर्यरूपी सिंह अपने अन्धकार रूपी शत्रु को पचाढ़ने के बाद देखो, उदयाचल पर्वत की चोटी पर चढ़कर कैसे गवं के साथ बैठा हुआ है।

७८

अथमुदयति मुद्राभंजनः पद्मनीना-  
मुदयगिरियनालोवालमन्दारपुष्पम् ।  
विरहविधुरकोकद्वन्द्ववन्धुविभिन्दन्  
कुपितकपिकपोलक्रोड़ताम्रस्तमांसि ॥

**भावार्थः**—यह देखो गुर्से से भरे हुए वन्दर के गाल के समान लाल-लाल सूर्य, कमलों के समूह को प्रफुल्लित करता हुआ, रात भर एक-दूसरे से वियुक्त चकवा-चकई के जोड़ों को किर से मिलाता हुआ तथा अन्धकार के समूह को भेदता हुआ, उदयाचल पर्वत के बनों में खिले हुए मन्दार वृक्ष के फूल के समान, उदय हो रहा है।

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोपधीना—

माविष्कृतोऽरुणपुरः सर एकतोऽर्कः ।

तेजोदृश्यस्य युगपद्व्यसनोदयान्यां

लोको नियम्यत इवैष दशान्तरेषु ॥

**भावार्थः—**—वालिदास के अकुन्तला नाटक में प्रभात के बरांग में यह इलेग्राम है—एक और चन्द्रमा जो आकाश में चड़ा दृश्या था, अब बाल के चपकर में पठनर अस्ताचल की प्रोर जा रहा है। दूसरी ओर सूर्य, जो पतनायस्या को प्राप्त हो गया था, अब आकाश में किर उदय हो रहा है। चन्द्रमा और सूर्य दोनों एक माथ अपने उत्थान और पतन में मानों लोगों को यह दाढ़न दे रहे हैं कि जिसका उत्थान है उसका पतन भी ही सचना है प्रोर जो गिरा है वह उठ भी नकता है।

८०

उदयमुदितदीप्तिर्याति यः संगतो मे

पतति न वरमिन्दुः सोऽपरामेय गत्वा

स्मितरुचिरिव सद्यः साय्यसूर्ये प्रभेति

स्फुरति विशदमेदा पूर्वकाण्ठांगनायाः ॥

**भावार्थः—**प्रभात कास में चन्द्रमा पदिन्मग दिशा में दृश्य जाता है प्रोर सूर्य दिशा में हसरी-भी प्रभा पैन्नने सकती है—

मन इव मुनेः सर्वत्रापि प्रसन्नमभून्नभो  
विगलति निशा क्षिप्रं लक्ष्मीरनुद्यमिनामिव ॥

**भावार्थः**—प्रभात के वर्णन में एक कवि ने बड़ी सुन्दर उपमाएँ दी है—प्रभात के समय तारे आकाश में उसी प्रकार एक-दुक्का दिखाई पड़ रहे हैं, जिस प्रकार कि कलियुग में सज्जन विरले ही दिखाई देते हैं। आकाश से अन्धकार उसी प्रकार दूर हो रहा है, जिस प्रकार कि अच्छे लोगों के चित्त से दुर्जन दूर हो जाते हैं। सब और आकाश उसी प्रकार प्रकाश से प्रसन्न हो रहा है जिस प्रकार कि मुनियों का मन सदा प्रसन्न रहता है। रात्रि उसी प्रकार शीघ्रता के साथ लोप हो रही है, जिस प्रकार कि निरुद्यमो, आलसी लोगों की लक्ष्मी आनन-फानन लोप हो जाती है।

७५

सपदि कुमुदनीभिर्मीलितं हा क्षपापि  
क्षयमपगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः ।  
इति दयितकलत्रशिच्न्तयन्नंगमिन्दु—  
वंहति कृशमशेषं भ्रष्टशोभ शुचेव ॥

**भावार्थः**—प्रभात होने पर चन्द्रमा की शोभा क्यों क्षीण हो जाती है? इस पर माघ कवि की कल्पना है—चन्द्रमा की एक स्त्री कुमुदनी (कु॒द्ध) जो रात को खिली हुई थी वह सबेरे मुँद गयी। चन्द्रमा की दूसरी नायिका क्षपा (रात्रि) भी क्षय को प्राप्त हो गयी। तारिकाओं (तारो) के रूप में अनेक और स्थिरां

चन्द्रमा की थी, जिनके साथ वह विहार कर रहा था, वे भी एक-एक करके उसको छोड़कर चली गयी। सबो ने उसका साथ छोड़ दिया। इसी सोच में मानो चन्द्रमा का शरीर क्षीण और दुबला हो गया है और उसकी सारी कान्ति लोप हो गयी है।

७६

कुमुदवनमपश्चि श्रीमद्भोजषण्डं  
त्यजति मुदमुल्लकः प्रोतिमांश्चक्रवाकः ।  
उदयमहिमरश्मर्याति शीतांशुरस्तं  
हत्विधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः ॥

**भावार्थ**.—माघ कवि प्रभात काल के वर्णन में लिखते हैं— एक और कुमुदो के वन शोभारहित होकर अपने भाग्य को रो रहे हैं तो दूसरी ओर कमल के वन अद्भुत शोभा धारण कर हँस से रहे हैं। एक और उल्लू सूर्य का प्रकाश होने से भय के मारे अपनी प्रसन्नता व्याग रहे हैं तो दूसरी ओर चक्रवा चक्रई पुनर्मिलन की आशा से प्रसन्न हो रहे हैं। इसी तरह एक और उषणाशु सूर्य उदय को प्राप्त हो रहा है तो दूसरी ओर शीताशु चन्द्रमा अस्त हो रहा है—यह कुटिल भाग्य का अनोखा नेल है।

७७

करनखरविदीर्णध्वान्तकुंभोन्द्रकुंभात्  
तुहिनकणमियेण क्षिप्तमुवताप्ररोहः ।

अयमुदयधरित्रीधारिमूर्धाधिरुद्धो  
नयनपथमुपेतो भानुभत्केसरीन्द्रः ॥

**भावार्थः**—इस श्लोक में सूर्य की उपमा एक सिंह से दी गयी है। प्रात काल सूर्यरूपी सिंह ने अन्धकाररूपी हाथी के मस्तक को अपने किरणरूपी नखों से विदीर्ण कर दिया है। मस्तक विदीर्ण होने से जो मोती उसमें से गिरे हैं वही ओस की बूँदों के रूप में चारों ओर विखड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वही सूर्यरूपी सिंह अपने अन्धकार रूपी शनु को पछाड़ने के बाद देखो, उदयाचल पर्वत की चोटी पर चढ़कर कैसे गर्व के साथ बैठा हुआ है।

### ७८

अपमुदयति मुद्राभंजन. पद्मनीना-  
मुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम् ।  
विरहविधुरकोक्षन्दवन्धुर्विभिन्दन्  
कुपितकपिकपोलकोङ्काम्रस्तमासि ॥

**भावार्थः**—यह देखो गुस्से से भरे हुए बन्दर के गाल के समान लाल-लाल सूर्य, कमलों के समूह को प्रफुल्लित करता हुआ, रात भर एक-दूसरे से वियुक्त चकवा-चकई के जोड़ों को फिर से मिलाता हुआ तथा अन्धकार के समूह को भेदता हुआ, उदयाचल पर्वत के बनों में खिले हुए मन्दार वृक्ष के फूल के समान, उदय हो रहा है।

यात्येकतोऽस्त्वशिखरं पतिरोपयोना—

माविष्कृतोऽरणपुरसर एकतोऽकं ।

तेजोदृष्ट्यस्य युगष्पदव्यसनोदपाम्या

लोको नियम्यत इवंप दशान्तरेषु ॥

**भावार्थः—**कालिदास के शकुन्तला नाटक मे प्रभात के वर्णन मे यह इलोव है—एक और चन्द्रमा जो आकाश मे चढ़ा हुआ था, अब काल के चक्कर मे पड़कर अस्ताचल की ओर जा रहा है । दूसरी ओर सूर्य, जो पतनावस्था को प्राप्त हो गया था, अब आकाश मे फिर उदय हो रहा है । चन्द्रमा और सूर्य दोनो एक साथ अपने उत्थान और पतन से मानो लोगो को यह ढार्स दे रहे है कि जिसका उत्थान है उसका पतन भी हो सकता है और जो गिरा है वह उठ भी सकता है ।

८०

उदपमुदितदीप्तिर्याति यः संगती मे

पतति न वरमिन्दुः सोऽपरामेय गत्वा

स्मितरुचिरिव सद्यः साम्यसूय प्रभेति

स्फुरति विशदमेया पूर्वकाष्ठांगनायाः ॥

**भावार्थः—**प्रभात काल मे चन्द्रमा पश्चिम दिशा मे डूब जाता है और पूर्व दिशा मे हलकी-सी प्रभा फैलने लगती है—

इस पर माघ कवि की कल्पना है—“जो चन्द्रमा मेरा साथ करने से उदयाचल मे प्रकाशित होकर आकाश मे निरन्तर अम्युदय को प्राप्त हुआ था, वही चन्द्रमा अब देखो पश्चिम दिशा रूपी परतारी के यहाँ जाने से पतित होकर कैसी शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहा है”—यह सोचकर ईर्ष्या के मारे पूर्व दिशा अपनी हलकी प्रभा के रूप मे मानो मुस्का रही है। प्रभात काल मे पूर्व दिशा मे जो हलकी-न्सी प्रभा छा जाती है वही उसको मुस्कान है।

८१

वित्तपृथुवरत्रातुल्यरूपंस्यखे.

कलश इव गरीयान्दिभिराकृष्यमाणः ।

कृतचपलविहंगालापकोलाहलाभि-

र्जलनिधिजलमध्यादेष उत्तार्यतेऽर्कः ॥

**भावार्थः**—प्रभात काल मे सूर्य का गोला समुद्र के बीच से उदय हो रहा है, उसको लम्बी-लम्बी किरणें ऊपर की ओर दसों दिशाओं मे फूटकर फैल रही है, पक्षी चारों ओर चहचहा रहे हैं—इस पर माघ कवि की अनोखी कल्पना है। इस श्लोक मे माघ कवि ने सूर्य की उपमा एक भारी घडे से, सूर्य से फूटती हुई किरणों को उपमा लम्बी मोटी रस्सियों से, दिशाओं की उपमा पनिहारिनों से और चारों ओर चहचहाते हुए पक्षियों के कोलाहल भी उपमा पनिहारिनों के कल-कल शब्द से दो हैं। जिस प्रकार सबेरे प्रात काल कई पनिहारिनों एक साथ मिलकर

किसी भारी घड़े को मोटी लम्बी रस्मी से, कूप से खीचकर, निकालती हैं और उस समय उनके मुख से कल-कल शब्द निकलते हैं, उसी प्रकार प्रभातकाल में दसों दिशाएँ रूपी पनिहारिनें सूर्यरूपी घड़े को, लम्बी किरणरूपी रस्सी से, समुद्र रूपी कूप से खीचकर निकाल रही है। उसी समय चिडियों का जो चहचहाना है वही उन दिशारूप पनिहारिनों का कल-कल शब्द है।

## ८२

उत्सवतः कुसुमासवैः कुमुदिनीं राजप्रियां पुष्पणी-  
मालिगन्निशि निर्भयं परिचयं कुर्वन्पुन् पल्लवैः ।  
यावत्पंकजसौरभस्वमखिलं गृह्णलघु प्रस्थित-  
स्तावत्कल्य उपस्थिते मरुदयं विष्वरभयद्वावति ॥

**भावार्थ—**रात भर वायु पुष्पों के रस को पीकर मतवाला हो गया, चन्द्रमारूपी राजा की रानी कुमुदिनी का आलिगन किया, वृक्षों के पल्लवों (ग्रावारा लोगों) के साथ मटरगस्ती की और अब ज्योंही कमलों के सौरभरूपी धन को चुराकर भागना चाहता है कि इतने में सवेरा हो गया और कही पकड़ा न जाऊँ, इसी भय से जहाँ स्थान मिलता है वहाँ वायु भागा जा रहा है।

## सूर्यास्त और चन्द्रोदय

८३

सन्ध्याशोणाम्बरजवनिका, कामिनोः प्रेम नाट्यं,  
नान्दी भ्राम्यद्भ्रमरविरुद्धं, मारिषः कोऽपि काल. ।  
तारापुष्पांजलिभिव किरन्, सूचयन् पुष्पकेतो-  
र्नृत्यारंभं, प्रविशति सुधादीधितिः सूत्रधारः ॥

भावार्थः—इस श्लोक में कवि ने सन्ध्या के वर्णन में नाटक का बड़ा मुन्दर रूपक बौद्धा है—

सन्ध्याकालीन लाल आकाश इस नाटक का पर्दा है, कामी पुरुष और कामिनी स्त्रियों का जो परस्पर प्रेम है वही इस नाटक का प्लाट (कथानक) है, इधर-उधर उड़ते हुए भौंरो का गुंजन ही इस नाटक का नान्दो पाठ है, कोई ऐसा सोहावना जो सध्या काल है वही मारिष (सहायक सूत्रधार) है; और चन्द्रमा ही इस नाटक का सूत्रधार है, जो तारारूपी पुष्पों को विशेरता हुआ और इस बात को सूचित करता हुआ कि अब कामदेव का नृत्य आरम्भ होने वाला है, आकाशरूपी स्टेज (रगमच) पर देखो प्रवेश कर रहा है ।

८४

व्यसनिन इव विद्या क्षीयते पंकजश्रीः  
गुणिन इव कुदेशो दैन्यमायान्ति भृंगाः ।

कुनृपतिरिव लोकान् पीड्यत्यन्धकारो

धनमिव कृपणानां व्यर्थतां याति चक्षुः ॥

**भावार्थः—** सायकाल में कमलों की शोभा वैसे ही क्षीण हो जाती है जैसे कि दुव्यंसन में पड़े हुए विद्यार्थी को विद्या क्षीण हो जाती है। कमलों के मुंद जाने से भीरे वैसे ही दीनता को प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि खराब देश में पहुँचकर, गुणों की कदर न होने से, गुणी मनुष्य दीन हा जाते हैं। अन्धकार लोगों को वैसे ही पीड़ा दे रहा है जैसे कि दुष्ट अत्याचारी राजा अपनी प्रजा को पीड़ा देता है। अन्धरार के कारण आँखों की ज्योति वैसे ही व्यर्थ हो रही है जैसे कि सूम का धन व्यर्थ ही जाता है जो न दिया जाता है, न भोगा जाता है।

८५

प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ।  
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि ॥

**भावार्थः—** हूबते हुए सूर्य को उसकी हजार किरणें भी न बचा सकी। इस पर माघ कवि की सुन्दर उक्ति है—जब भाग्य प्रतिकूल हो जाता है तो कितने ही साधन क्यों न हो और कितने ही उपाय क्यों न किये जाय, सब विफल हो जाते हैं। सूर्य को ही देखो, जब वह गिरने लगता है—अस्त होने लगता है—तो उसके हजार किरणरूपी हाथ भी उसको महारा देकर उठा नहीं सकते। ‘कर’ में उत्तम श्लेष है—कर का अर्थ ‘किरण’ और ‘हाथ’ दोनों हैं।

८६

अनुरागवन्तमपि लोचनघोर्दधतं वषुः सुखमतापकरम् ।  
निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिगगणिका ॥

**भावार्थः—** संध्या समय सूर्य पश्चिम दिशा में प्रभारहित होकर अस्ति हो गया इस पर माघ कवि की अनोखी उक्ति है—जिस प्रकार वेश्या उस पुरुष को, जो कितना ही सुन्दर क्यों न हो, कितना ही प्रेम क्यों न करता हो, पर निर्धन हो जाने पर, अपने घर से निकाल देती है। उसी प्रकार पश्चिम दिशा रूपी वेश्या ने अनुराग (ललाई) रखते हुए भी, नेत्रों की सुख देते हुए भी, सुन्दर दर्शनीय शरीर वाला होते हुए भी सूर्य को—क्योंकि अब उसके पास वसु (किरणरूपी धन) नहीं रह गया था—ग्राकाशरूपी घर से निकाल बाहर किया। ‘अनुराग’ और ‘वसु’ में अच्छा द्वेष है। अनुराग का अर्थ ‘प्रेम’ और ‘ललाई’ तथा वसु का अर्थ ‘किरणें’ तथा ‘धन’ दोनों हैं।

८७

महद्विरोधंस्तमसामभिद्वुतो

भयेऽप्यसमूढमतिर्भ्वमन् क्षितौ ।

प्रदीपवेपेण गृहे गृहे स्थितो

विखण्डय देहं बहुधेव भास्करः ॥

**भावार्थः—** यद्यपि सूर्य अन्धकार के समूह से पराजित किया और भगाया गया, तथापि वह घबड़ाया नहीं, बल्कि उसने

अपने शशु अन्धकार का सामना करने के लिए एक दूसरी तर-  
कीव ढूँढ निकाली अर्थात् दिन में वह केवल एक था, पर अब वह  
अपने शरीर के बहुत से टुकड़े करके प्रदीप तथा लैम्प के बेश  
में, घर-घर में विराजमान हो गया है।

८८

कृत्वा प्रबुद्धकमलामखिलां त्रिलोकी-  
मस्भोनिधेविशति गर्भमसाविदानीम् ।  
आन्तःप्रसुप्तहरिनाभिसरोजयोध-  
कौतूहलोव भगवानरविन्दवन्धुः ॥

**भावार्थः—**अरविन्दवन्धु भगवान् सूर्य समस्त लोक में कमलों  
को प्रफुल्लित करके, अब सायकाल होने पर, समुद्र के गर्भ में  
लीन हो रहे हैं, मानो वहाँ क्षीर सागर के अन्दर सोये हुए विष्णु  
भगवान् की नाभि में जो कगल है, उसको विकसित करना  
चाहते हैं। समस्त सार के कमलों को तो विकसित कर चुके  
हैं, केवल भगवान् विष्णु की नाभि से उगा हुआ कमल  
प्रफुल्लित होना बच गया है, वस उसी को प्रफुल्लित करने के  
लिए, अब वह समुद्र के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं।

८९

ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधवला विभ्रती तारकास्थी-  
न्यन्तर्धनिव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीषम् ।

द्वीपाद्द्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रमुद्राकपाले  
न्यस्तं सिद्धांजनपरिमलं लांछनस्य च्छ्वलेन ॥

**भावार्थः—**रात्रि एक कापाली है। वह चाँदनीरूपी भस्म को रमाये हुए, तारारूपो अस्त्ययो को धारण किये हुए, चन्द्रमारूपी खण्डर में कलकरूपी भभूत को रखे हुए, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भ्रमण कर रही है। जैसे कापाली कभी-कभी अन्तर्धान हो जाती है, उसी तरह रात्रि भी दिन में द्विप जाती है।

६०

कोऽत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति संपदम् ।  
वेदयन्निति दिनेन भानुमानाससाद् चरमाचलं तत् ॥

**भावार्थः—**इस ससार में व्यर्थं लोगो को सताकर कीन अधिक समय तक सपत्ति का भोग कर सकता है—इसी वात को सूचित करता हुआ, सूर्य मानो अस्त को प्राप्त हो रहा है। दिन भर सूर्य ससार को अपनी खरतर किरणो से तपाता रहता है—इसी मृत्याचार का फल भोगने के लिए ही उसको दिवस के अवसान में पतन देखना पड़ता है।

६१

अयं मन्दद्युतिर्भास्वानस्तं प्रति यिषासति ।  
उदयः पतनायेति श्रीमतो वोधयन् नरान् ॥

**भावार्थ—**सायकाल में प्रकाश-रहित और तेजोहीन होकर सूर्य धनवान् श्रीर भाग्यवान् मनुष्यो को यह शिक्षा देता

हुआ अस्तावल की ओर जा रहा है कि “जिसका एक बार उदय हुआ है उसका पतन भी अवश्य होगा, इसलिए धन का घमण्ड करना विलकुल व्यर्थ है।”

## ६२

अबाप्तः प्रागलभ्यं परिणातरुचः शैलतनये  
कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि ।  
अमृष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्दशिशिरे  
रतिशान्ता शीते रजनिरमणी गाढमुरसि ॥

**भावार्थ**—शिव पार्वती से कहते हैं—“हे शैल-ननये, यह जो पूर्णमासी के चन्द्रमा मे बड़ासा काला धब्बा दिखाई पड़ता है, वह कलक नहीं है। तो फिर है क्या? वास्तव मे यह निशारूपी नायिका है, जो रति से थककर अपने प्रियतम चन्द्रमा की, अमृत के प्रवाह से शीतल गोद मे, गाढ़ निद्रा मे सो रही है।

## ६३

अंकं केऽपि शशांकिरे जलनिधेः पंकं परे मेनिरे  
सारंगं कतिचिच्च संजगदिरे भूमेश्च विवं परे ।  
इन्द्री यद्विलितेन्द्रनीलशकलश्याम दरीहश्यते  
तन्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमालक्ष्यते ॥

**भावार्थ**.—चन्द्रमा मे जो यह काला धब्बा है उसे कोई समझते हैं कि यह कलक है, कोई यह मानते हैं कि चन्द्रमा समुद्र से मध्यवर निकाला गया है, अतएव यह काला धब्बा समुद्र का

कीचड़ है, जो उसमे लगा रह गया है। कोई उसे मृग समझते हैं, इसी से चन्द्रमा 'मृगलाघ्न' कहा गया है। कोई उसे चन्द्रमा पर पड़ी हर्इ पृथ्वी की छाया मानते हैं। पर मैं तो यह समझता हूँ कि चन्द्रमा मे जो यह नीलम के टुकडे के समान काला धब्बा दिखाई देता है वह अन्धकार है, जो सूर्य के डरके मारे चन्द्रमा की गोद मे शरण लेकर जा दिपा है। इसी भाव को लेकर हिन्दी के स्वर्गीय कवि श्री गोपाल शरण सिंह ने यह पद्य लिखा है:—

है मयक-ग्रक मे कलक कहता है कोई ,  
 कोई बतलाता उसे भेदिनी की छाया है ।  
 कोई कहता है वह पक है पयोनिधिका ,  
 उसे मृग-शावक किसी ने छहराया है ॥  
 मेरी जान मन मे विरचि ने विचारा जब ,  
 कंसा कमनीय मैंने विधु को बनाया है ।  
 लग जाय डीठ न किसी को यह भय मान ,  
 रुचिर डिठीना चन्द्रभाल मे लगाया है ॥

६४

लक्ष्मीकोड़ातड़ागो रतिघवलगृहं दर्पणो दिग्बधूनां  
 पुर्णं श्यामालतायास्त्रभुवनजयिनो मन्मथस्यातपत्रम् ।  
 पिण्डोभूतं हरस्य स्मितमरसरित्पुण्डरीकं मृगांको  
 ज्योत्स्नापीयूषवापी जयति सितवृपस्तारकागोकुलस्य ॥

**भावार्थः—**इस दलोक मे चन्द्रमा के बारे मे कई भनूठी

पत्तनाएँ हैं—यह चन्द्रमा लक्ष्मी का क्रीड़ा सरोवर है, या कामदेव की स्त्री, रति का सफेद घर है, या दिशा रूपी वधुटियों के मुख देखने का दर्पण है, या रात्रि रूपी लता का सफेद पूल है, या तीनों लोकों द्वारा विजय करने वाले वामदेव सम्राट् का द्वेत द्युत्र है, या महादेव जी ने अट्टाहस किया है वही हास्य पिण्डीभूत होकर चन्द्रमा बन गया है, या आकाश-गगा मन्दा-किनी में खिला हुआ सफेद कमल है, या चान्दनी रूपी अमृत का सरोवर है अथवा तारा रूपी गोवों के बीच यह सफेद बैल है।

## ६५

दिग्वालाकरफन्दुकः स्मरवधूसीमन्तमुक्तामणिः  
 कामक्षोणिपत्तेविहारवलभीनिर्वृहपारावतः ।  
 हट्टव्योम्नि विकीर्णतारकमणिः श्यामावणिक् सुभ्रुवः  
 स्फारः स्फाटिकसंपुटः फुमुदनीकान्तोऽयमुन्मीलति ॥

**भावार्थ—**देखो, उदय होता हुआ वुमुदनीवान्त चन्द्रमा ऐसा लगता है मानो दिशा रूपी नायिका वे हाथ में खेलने का गेन्द हो, या कामदेव दी स्त्री रति वे केशों में गुंथा हुया मुफना-मणि हो, या वामदेव रूपी राजा वे महल के छज्जे पर वैठा हुया सफेद क्वातर हो, या आकाश रूपी बाजार में असल्य तारा रूपी मणियों को विसेर कर देचने वे तिए वैठा हुया कोई जोहरी हो, या रात्रिरूपी नायिका का शृंगार वा सामान रखने के लिए स्फटिक की बनी हुई पिटारी हो।

६६

कपाले माजारः पर्य इति कर्त्तुलेदि शशिन—  
 स्तरुच्छद्रप्रोतान् विसमिति कस्ये संकलयति । ।  
 रतान्ते तत्पस्थान्हरति वनिताप्यंशुकमिति  
 प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदिमह्ये विभ्रमयति ॥

**भावार्थ**—कटोरे पर पडते हुई चन्द्रमा की चांदनी को बिलार यह समझकर कि दूध है, जीभ से चाट रहा है । पेड के पत्तों से छन-छन कर आती हुई किरणों को हाथी, यह समझकर कि कमल की नाल है, सूँड से उखाड रहा है । रति के अन्त में पलग पर पड़ी हुई चन्द्रमा की चांदनी को स्त्री यह समझकर कि भाड़ी है, उसे समटने के लिए पलग पर हाथ फेर रही है । इस प्रकार प्रभा के मद में मतवाला होकर चन्द्रमा समस्त जगत् को चक्कर में डाल रहा है ।

६७

स्वर्वमिमृतपानचारुचपकं किं कामदेवागना—  
 क्रीडाकन्दुक एष किं सुरनदीडिण्डीरपिण्डः किमु ।  
 किं छत्र स्मरभूपते किमु यशः पुजं पुरस्त्तादिदं  
 चेतः संशयकारक समुदितं श्रोतद्युतेर्मण्डलम् ॥

**भावार्थ**—सामने आकाश में उदित हुआ यह चन्द्रमा चित्त में ऐसा सन्देह पैदा करता है कि यह स्वर्ग की अप्सराओं के अमृत पीने का प्याला है क्या ? कामदेव की स्त्री रति के खेलने

का गेन्द है क्या ? सुरजदी गंगा के फेनों का समूह है क्या ?  
कामदेव रूपी राजा का छत्र है क्या ? अथवा उस के यश का  
समूह है क्या ?

६८

नेदं नभोमण्डलमम्बुराशि-

नैताइच ताराः नवफेनभंगाः ।

नायं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो

नासौ कलंकः शयितो मुरारिः ॥

**भाषार्थः**—चन्द्रमा के वर्णन में एक कवि कहता है—यह  
आपता नहीं, बल्कि धीर सागर है ; ये तारे नहीं, बल्कि धीर  
सागर के केन हैं ; यह चन्द्रमा नहीं, बल्कि गोडिरो मारे हुए  
शेषनाग है ; प्रीर चन्द्रमा मे यह कलंक नहीं बरन विष्णु भगवान्  
हैं, जो शेषनाग यर सो रहे हैं ।

६९

ग्रिनपनजटावल्लीपुष्पं निशावदनस्मितम्

प्रहकिसलयं सन्ध्यानारीनितम्बनराक्षतिः ।

तिमिरभिदिरं द्योम्नः भृंगं मनोभुयकामुङ्कम्

प्रतिपदि नवस्येन्दोविम्बं सुखोदयमस्तु नः ॥

**भाषार्थः**—इम एकों मे ग्रिनपदा के नये चाँद के गम्बन्ध  
मे कवि ने वह भनोटी बत्तनाएं की हैं—

पड़ीदा (प्रतिपदा) का यह नया चाँद श्रिनेत्र महादेव के जटा रूपी लता का फूल है क्या ? निशा रूपी नायिका के मुख की मुस्कान है क्या ? ग्रह रूपी वृक्ष की नई कोपल है क्या ? सन्ध्या रूपी नायिका के नितम्ब पर पढ़ी हुई नखक्षति है क्या ? अन्धकार को भेदने के लिए आकाश रूपी बैल का नुकीला सीग है क्या ? सप्तार को जीतने के लिए कामदेव का बाण है क्या ? ऐसा प्रतिपदा का नवोदित चन्द्र हम सबों के लिए मुख-दायक हो !

१००

ओँकारो मदनद्विजस्य गगनकोड़कदंष्ट्रांकुर—

स्तारमौक्तिकशुक्तिरन्धतमस्तम्बेरमस्यांकुशः ।

शृंगारांगलकुंचिका विरहिणां मर्मचिछिदा कर्त्तरी

सन्ध्यावारवधूनखक्षतिरियं चान्द्री कला राजते ॥

**भावार्थः**—यह प्रतिपदा का बाका चन्द्रमा ऐसा शोभा देता है कि भानो कामदेव रूपी ब्राह्मण का ओकार रूपी सिद्धमत्र हो, जिसे उसने आकाश रूपी पट्टी पर लिख रखा है, अथवा आकाश रूपी वराह (सूअर) की बाहर निकली हुई एक डाढ़ हो, या तारा रूपी मोतियों की सीपी हो, या अन्धकार रूपो हाथी को वश मे करने के लिये अकुश हो, या शृंगार रूपी कपाट के खोलने की कुजी हो, या विरहिणियों के मर्म-स्थान को कतरने के लिये केवी हो, या सन्ध्यारूपी वेद्या के शरीर पर लगा हुआ नखक्षत हो ।

१०१

अद्यापि स्तनशीलदुर्गंविषमे सोमन्तिनीनां हृदि  
 स्थातुं वाऽन्धति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः ।  
 प्रोद्यहृत्तरप्रसारितकरः कर्यंत्यसौ तत्क्षणात्  
 फुललत्करवकोषनि.सरदलिथेणीकृपारणं शशी ॥

**भावार्थ :**—“मानवती स्त्रियो के उस हृदय में जो कुचरूपी पहाड़ों किसी से सुरक्षित है, मान अब भी टिका रहना चाहता है, धिकार है उसे ।” ऐसा सोचकर सध्याकालीन चन्द्रमा क्रोध के मारे लाल हो गया और उसी समय दूर दूर तक फैले हुए अपने विरण रूपी हाथों से, फूली हुई कुई बी कलियों से निकलती हुई भ्रमरों की पक्षित रूपी तलवार को, सहसा सोच लेता है, मानो इस अपनी तलवार से मान का काम तमाम बरना चाहता है । दूर तक फैली हुई विरणों चन्द्रमा का हाथ है और यिली हुई कुई बी फूलों से निकलती हुई भ्रमरों की बतार हो तलवार है । सध्याकाल में चन्द्रमा लाल लाल उदय होता है वही उसका गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा है । सध्या बाल बी बाद चन्द्रमा बी उदय होने पर, मानवती स्त्रियों का मान दूर हो जाता है, इस बात को कवि ने वडे सुन्दर ठग से बहा है ।

## जल-विहार

१०२

नेघं ते मुखमण्डलप्रतिकृतिश्छाया न हारोद्भवा  
वक्षोजौ प्रतिविम्बितौ न सलिले जाने हि तथ्यं प्रिये ।  
अप्राप्याननसौभगं तव शशी मुक्तांचित्तर्दमिभिः  
कण्ठे हेमघटद्वयं परिदधत् पानीयमध्यं गतः ॥

भावार्थ — एक रसिक कवि अपनी प्रियतमा के साथ नदी में जलकीड़ा करता हुआ, उसके मुख और वक्ष स्थल की छाया जल में पड़ी हुई देखकर, कहता है — हे प्रिये ! यह जो तुम जल में छाया देख रही हो वह तुम्हारे मुख की छाया नहीं है, और यह जो हार तुम पहने हुए हो उसकी भी परछाई नहीं है, और न तुम्हारे दोनों उरोजो का प्रतिविम्ब ही यह दिखाई पड़ रहा है । तो फिर है क्या ? वास्तव में यह चन्द्रमा है जो तुम्हारे मुख की सुन्दरता अपने में पाकर, मोती से गुंथी हुई ढोरी से दो सोने के घडों को अपने गले में बाधकर, लज्जा के मारे पानी में फूब मरा है । अर्थात् मुख की छाया नहो बल्कि शशी है, हार की परछाई नहीं बल्कि मोती से गुंथी हुई रस्सी है, पीनपयोधरो का प्रतिविम्ब नहीं बल्कि दो घडे हैं, जिन्हें गले के दोनों ओर बाधकर चन्द्रमा पानी में लज्जा के मारे फूब मरा है । इसका हिन्दी पद्यानुवाद किसी ने इस प्रकार किया है —

नाही या प्रतिविव तो वदन की, छाया नहीं हार की ।  
 तेरे द्वी कुच को न भास जल में, जानू भली भाति मैं ॥  
 शोभा तो मुख की न पाय शशि है, मुक्तावली सो वधे ।  
 हूँ भारो लटकाय कुभ गल में, घूड़ी परो नोर मे ॥

## १०३

अजलौ जलमधीरलोचना लोचनप्रतिशरीरलाद्धितम् ।  
 आत्मात्मपि कान्तमुक्षितु कातरा शफरशंकिनी जही ॥

भावार्थ — एक स्त्री और उसका प्रियतम नदी में जल-विहार कर रहे हैं। ज्योही वह चचल नेत्र वाली स्त्री अपनी अजली में पानी भरकर, अपने प्रियतम को भिगोना चाहती है कि उस पानी में अपने नेत्रों की छाया देखकर, यह शका वरके वि छोटी मध्यली पानी में तो नहीं आ गयी है—उस पानी को गिरा देती है। वह बार-बार इसी प्रकार अजली में पानी लेती है और बार बार मध्यली की शका से गिरा देती है। उसके नेत्र मीन के नेत्रों के समान चचल हैं इस बात को पवि ने कैसी मुन्दर कल्पना के साथ कहा है ।

## १०४

निजनयनप्रतिविम्बरम्युनि वहुश प्रतारिता कापि ।  
 नोलोत्पलेऽपि विमृशति करमर्पयितु कुसुमलावी ॥

भावार्थ — योई स्त्री कमलो से भरे हुए सरोवर में स्नान कर रही है। उसके कमल के समान नेत्रों को परद्याई जल में पड़ती है, जिन्हें वह बार-बार कमल समझ कर तोड़ना

चाटतो है, पर बार बार धोखा खातो है। इस प्रकार बार-बार धोखा खायी हुई वह सचमुच के नीलकमलों को तोड़ने में भी हिचकिचाती है।

## १०५

भ्रश्यद्द्विजंलमभि भृपणैवंधूना-  
मङ्गे भ्यो गुरुभिरमज्जि लज्जयेव ।

निमलियैरथ ननृतेऽवधीरिताना-  
मध्युच्चर्चेभंवति लघीयसां हि धार्ढ्र्यम् ॥

**भावार्थ** —नदी में जल-विहार करते समय नायिकाओं के अगो से सोने के आभूषण गिर कर पानी में फूब गए, परन्तु फूलों के हार, जो वह पहने हुए थी, उनके हाथों से फेंके जाने के बाद भी पानी में नाचते रहे—इस पर माघ कवि की कल्पना है कि नायिकाओं के अगो से गिरे हुए सोने के आभूषण इस लिए लज्जा के मारे पानी में फूब गए कि हम ऐसे सुन्दर अगो में स्थान पाने के बाद वहाँ से च्युत हो गए—यह हमारे जैसे गौरवशाली लोगों के लिए फूब मरने की बात है। परन्तु फूलों के हार, उन नायिकाओं के हाथों से तिरस्कृत और फेंके जाने के बाद भी, जल में नाचते रहे, वयोंकि जो हलके और छोटे होते हैं, वे तिरस्कृत होने पर भी निर्लंजज हो जाते हैं।

## १०६

वासासि न्यवसत यानि योषितस्ताः  
शुभ्राभ्रद्युतिभिरहासि तंसु देव ।

अत्याक्षुः स्नपनगलज्जलानि यानि  
स्यूलाश्रुलुतिभिररोदि तैः शुचेव ॥

**भावार्थ :**—नायिकाओं ने जल-विहार करने के बाद गीले कपड़ों को त्याग दिया और शुभ्र चमकीले वस्त्रों को धारण किया—इस पर माघ कवि वी उत्प्रेक्षा है :—उन नायिकाओं ने शुभ्र आकाश के समान जिन श्वेत चमकीले वस्त्रों को धारण किया, वे मानो प्रसन्न होकर हस-सा रहे थे कि हम को ऐसी सुन्दर नारियों ने अपने शरीर पर धारण किया है। तथा जिन गीले वस्त्रों का उन्होंने त्याग किया और जिनमें से पानी टपक रहा था, वे मानो बड़े-बड़े आसू बहाते हुए इस दुख में बातर होकर रो रहे थे कि हमें ऐसी सुन्दरी नायिकाओं ने अपने शरीर से त्याग दिया है, हम कितने अभागे हैं।

१०७

आस्थः पतित इति स्वसंभवोऽपि  
स्वच्छानां परिहरणीयतामुपेति ।  
कर्णेभ्यश्चयुतमसितोत्पलं वधूनां  
बोचीभिस्तटमनु यन्निरासुरापः ॥

**भावार्थ :**—नायिकाएं नदी में स्नान कर रही हैं। वहाँ जल-विहार करते समय उनके पानी से, मलबार के रूप में लगा हुआ कमल का पुष्प, पानी में गिर गया और पानी की लहरों ने उसको नदी के बिनारे फेंक दिया। इस पर माघ

कवि की कल्पना है कि अपने से ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, यदि कोई ऊँचे पद पर पहुँचकर फिर गिर जाय, पतित हो जाय, तो निर्मल चरित्र वाले कलीन लोग अपने पुत्र को भी घर से निकाल देते हैं। उसी प्रकार यह सोचकर कि मेरे से उत्पन्न हुआ कमल इन सुन्दरी नायिकाओं के कानों-जैसे उच्च स्थान पर चढ़कर और वहाँ सुशोभित होने के बाद नीचे गिर गया, धिकार है इसको, अतएव जल ने उसको लहरों के थपेडे मार कर किनारे पर फेंक दिया कि जा घर से निकल जा, तेरा मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है।

१०८

कुर्वद्विभुखरुचिभुज्ज्वलामजस्तं  
 यस्तोयेरसिचत् बल्लभा विलासी ।  
 तत्रेव प्रतिषुवतेरकारि दूरात्  
 कालुष्य शशधरदोधितिच्छटाच्छै ॥

भावार्थ — एक विलासी नायक अपनी दो नायिकाओं के साथ जलविहार कर रहा है। उसने अपनी एक प्रियतमा नायिका के मुख की कान्ति को लगातार जल की छीटे मार कर और भी उज्ज्वल बना दिया। किन्तु जिस जल से उस नायिका का मुख उज्ज्वल हुआ, उसी चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छ जल से, दूर स्नान करती हुई दूसरी नायिका का मुख ईर्ष्या से काला पड़ गया। मेरी अवहेलना करके मेरी सौत के साथ जल-विहार कर रहा है, इससे ईर्ष्या के मारे उसका

मुख काला पड़ गया । एक ही जल से एक का मुख स्वच्छ हो गया और दूसरी का काला हो गया यह विषमालंकार का उत्तम उदाहरण है । यह श्लोक माघ कवि के शिशुपाल-वध में जलविहार के बरेंन में आया है ।

## विरह-वेदना

१०६

अंगानि मे दहतु कान्तवियोगवह्निः  
संरक्षयतां प्रियतमो हृदि वर्तते यः ।  
इत्याश्रया शशिमुखी गलदश्चुदारि-  
धाराभिरुष्णमभिविचति हृतप्रदेशम् ॥

भावार्थ—अपने प्रियतम के वियोग मे कोई स्त्री आसुओ की धारा बहाकर अपने वक्ष स्थल को भिंगो रही है। इस पर कवि की उत्प्रेक्षा है—“प्रियतम के वियोग की अग्नि चाहे मेरे शरीर के अगो को भस्म करदे, जिन्तु मेरे हृदय मे निवास करने वाले मेरे प्रियतम का इस आग की आच भी न लगने पावे।”—बस इसी अभिप्राय से वह चन्द्रमुखी लगातार आसू बहाकर अपने वियोग-तप्त हृदय-स्थान वो सीध रही है। वियोग मे उसके अशु की धारा आँखो से बहकर लगातार छाती पर गिर रही है—इस इतनी सी वात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से कहा है।

११०

पञ्चत्वं तनुरेतु भूतनिवह् स्वं स्वं विशत्वोप्सितं  
याचे त्वां द्रुहिण प्रणम्ये शिरसा भूयोऽपि भूयान्मम ।

तद्वापीषु पथस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयालय-  
व्योम्नि व्योम तदीयवत्सनि धरा तत्तालवृन्तेऽनिलः ॥

**भावार्थ :**—कोई विरहिणी परमेश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है :—मेरा शरीर पत्त्व को प्राप्त हो और शरीर के पृथ्वी आदि पाँचों तत्व यथाक्रम अपने-अपने तत्व में जाकर मिल जाय—इसका मुझे कोई डर नहीं है । किन्तु परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे पाँचों तत्व अपने-अपने तत्व में इस क्रम से मिलें कि मेरे शरीर का जलनत्त्व उस सरोवर में जाकर मिल जाय जिसमें मेरा प्रियतम स्नान करता है, मेरा तेजस्तत्व उस दर्पण में जाकर मिल जाय जिसमें वह अपना मुख देखता है, मेरा आकाश तत्व उस गृह के आकाश में जाकर मिल जाय जहाँ वह रहता है, मेरा पावियतत्व उस मार्ग में जाकर मिल जाय, जहाँ वह चला करता है और मेरा वायुतत्व उस पक्षे में जाकर मिल जाय जिससे वह हवा लेता है । इसों भाव का यह हिन्दी दोहा भी है :—

डर न मरन विषि विनय यह, भूत मिले निजवास ।

प्रियहित वापी मुकुर मग, बोजन अंगन अवास ॥

१११

आपाता भघुपामिनी यदि पुनर्नायात एव प्रभुः  
प्राणा यान्तु विभावसो यदि पुनर्जन्मग्रहं प्रायंपे ।  
त्याघः कोकिलवन्धने हिमकरध्वंसे च राहुग्रहः  
कन्दपे हरनेत्रदीपितिरहं प्राणेश्वरे, मन्मयः ॥

**भावार्थ :**—वसन्त ऋतु के माने पर कोई विरहिणी कहती है —वसन्त ऋतु बी रात आ गयी, पर मेरे स्वामी अभी तक नहीं आये। इस विरह में जीने से क्या लाभ ? अच्छा है कि मेरे प्राण अग्नि के समर्पण हो जाय और उसके बाद मेरा पुनर्जन्म हो तो भगवान् से प्रार्थना है कि अपनी कूक से मेरे विरह-सन्ताप को बढ़ाने वाली कोयल को फसाने के लिए मैं व्याघा होऊ, विरहाग्नि को उद्दीपित करने वाले चन्द्रमा को ग्रसने के लिए मैं राहु होऊ, विरहिणियों को सताने वाले कामदेव को जलाने के लिए भगवान् शिव के तीसरे नेन की अग्नि होऊ और अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कामदेव का अवतार होऊ।

### ११२

विरमत विरमत सख्यो नलिनीदलतालवृन्तपवनेन ।  
हृदयगतोऽयं वह्निर्भूषिति कदाचिज्जबलत्येव ॥

**भावार्थ** —कोई कोमलागी नायिका विरह ज्वर से पीड़ित है। उसकी सखियाँ कमलदल से उसे पखा भल रही हैं। इस पर वह उनसे कहती है :— ‘सखियो, कमल दल से पखा मत भलो ! मत भलो ! अभी तो मेरे हृदय में विरह की आग धीरे-धीरे सुलग रही है, पखा भलने से कही वह एकदम से भड़क न उठे !’

### ११३

कुशलं तस्या जीवति तत्कुशलं पृच्छामि जीवतोत्युक्तम् ।  
पुनरपि तदेव कथयसि मृता नु कथयामि या श्वसिति ॥

**भावार्थः—**कोई प्रेमी अपनी प्रियतमा का कुशल मगल—एक दूती से पूछ रहा है, जो अभी उसकी प्रियतमा का सन्देश लेकर आयी है। इस श्लोक में इन्हीं दोनों की बातचोत है। श्लोक कितना भावपूर्ण है देखिये :—प्रियतम—“उसको कुशल सो है ?” दूती—“हा, जीती है ।” प्रियतम—“अरे, हम उसकी कुशल पूछते हैं ?” दूती—“कह तो दिया कि जीती है ।” प्रियतम, “फिर-फिर उसी बात को कहे जाती हो ।” दूती—“तो क्या कह दू कि वह भर गयी, जो अभी साँस ले रही है ?” अपके वियोग में वह किसी तरह जी रही है—इस इतनी सी बात को कवि ने कंसे व्यग-पूर्ण शब्दों में कहा है ।

## ११४

अस्मत्प्रयाणसमये कुरु मंगलानि  
कि रोदिषि प्रियतमे वद कारणे मे ।  
हे प्रणानाथ विरहानलतीद्रताप-  
धूमेन वारि गलितं मम लोचनान्याम् ॥

**भावार्थः—**पति के परदेश जाने के समय पत्नी रोने लगी। इस पर पति कहता है—“प्रियतमे ! मेरे प्रस्थान बरने के समय तुम्हे मंगलाचार बरना चाहिये, सो न कर तुम रो रही हो । क्या बात है, कारण तो बताओ ?” इस पर वह उत्तर देती है—“हे प्रणानाथ ! तुम्हारे वियोग रूपी भग्नि से उठा हुआ धुमा मेरो घासों में लगा है, उसी धुए से मेरी घासों से भासू बहने लगे हैं, पीर कोई बात नहीं है ।”

११५

तव विरहविधुरवाला सद्यः प्राणान् विमुक्तवती ।  
दुर्लभमीहशमंगं मत्वा न ते तामजहुः ॥

**भावार्थः—**—एक दूती किसी विरह-विधुरा स्त्री की मरणा-सन्न दशा का वर्णन उसके प्रेमपात्र से करती हुई कहती है—  
तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर उस वाला ने तुरन्त ही अपने प्राणों को छोड़ दिया । किन्तु उन प्राणों ने यह सोचा कि ऐसे कोमल अग रहने को कहाँ मिलेंगे, इसलिए उन्होंने उसे नहीं छोड़ा । “वह अब तक जी रहो है और विरह के दिनों को किसी तरह काट रही है” इप इतनी-सी बात को कवि ने कैसे प्रनोखे ढग से कहा है ।

११६

यामोति प्रियपृष्ठायाः प्रियायाः कण्ठवत्सन्नि ।  
वचोजीवितयोरासोद्धिर्निःसरणे रणः ॥

**भावार्थः—**पति के विदा होते समय पली दुख से स्तव्य होकर कुछ बोली नहीं, चुप रही—इस बात को कवि ने कैसी खूबी के साथ इस श्लोक में कहा है । “प्रिये ! मैं जा रहा हूँ, मुझे विदा दो,” पति ये इस प्रकार विदा माँगने पर पली बागला रुध गया और बैचारी कुछ बोल न सकी । इस पर कवि भी सूझ है कि उसपे चुप रहने का असली पारण यह था कि उसपे प्राणों और वचनों पे यीच कण्ठ-रूपी युद्धभूमि में रण लग गया । यचन यहते थे कि पहले हम कण्ठ से निकले और

प्राण कहते थे कि पहले हम निकलें। बस इसी भगडे मे वह  
बेचारी बोल न सकी। इसी भाव का हिन्दी का यह दोहा भी  
है—

आज सखी हीं सुनति हीं, पी फाटत पिय गीन।  
पीमे हियमे होड है, पहिले फाटत कीन॥

### ११७

महिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभग सा अमान्ती।  
अनुदिनमनन्यकर्मा श्रंगं तनुमपि तनूकरोति॥

**भावार्थः**—एक दूती किसी विरह-विषुरा वाला की दशा का  
पर्णन उसके प्रियतम से इस प्रकार बरती है—हे सुभग! तुम्हारे  
उस हृदय मे प्रवेश पाने के लिए, जिसमे सहस्रो स्त्रियाँ भरी  
हुई हैं, भतएय जिसमे अब विलयुल स्थान नहीं रह गया है, वह  
प्रभागिनी घपने शरीर को, जो आप ही कोमल और दुर्बल है,  
दिन-प्रतिदिन और भी दुर्बल बना रही है वि वदाचित् पर  
प्रवेश पा सके, आजकल उसे येवल यही काम रह गया है।  
तुम्हारे विषोग मे वितनी दुर्बल हो गयी है—इस इतनी-सी वात  
पो कवि ने कैसे गुन्दर छग से कहा है।

### ११८

मुथे मुधतयैव नेतुमसितः कातः पिमारम्यते  
मानं धत्स्व पूर्ति यपान ऋजुतां झरे कुरु प्रेयसि।

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भोतानना  
नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥

**भावार्थः**—एक बहुत ही भोली-भाली, पतिप्राणा, नववयस्का, मुग्धा नायिका है, जो जानती भी नहीं कि पति से रुठना या मान करना कैसे होता है। इसका अनुचित लाभ उठाकर उस का धूर्तं पति भनमानी किया करता है। इस पर उसकी एक प्रीढ़ा रखी उसे आनंदात के साथ रहने को सलाह देती हुई कहती है—“ऐ भोली-भाली ! क्या अपनी सारी जवानी इसी तरह ग्रहण भपन मे विताना चाहती है ? तनिक अभिमान किया कर और धैर्य के साथ रहना सीख। अपने प्रियतम के साथ सीधा-सादा व्यवहार करना छोड़ दे।” अपनी सखी से इस प्रकार समझाई गयी उस मुग्धा ने जवाब दिया—“अरे धोरे से बोल, मेरे हृदय मे बैठे हुए मेरे प्राणनाथ कही सुन न लें।” अमरु कवि के इसी इलोक का भाव लेवर विहारी का यह दोहा भी है—

सखी सिखावत मानविधि, संननि वरजति वाल ।  
हरए कहु मो हिय वसत, सदा विहारी लाल ॥

### ११६

यामेद् सुन्दरि याहि पान्थ दयिते शोकं वृथा माऽकृथाः  
शोकस्ते गमने कुतो मम ततो वाष्पं क्यं मुंचसि ।  
शोष्ण न व्रजसीति मा गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा  
भूयानस्ये सह त्वया जिगिमिषोर्जीवस्य मे संभ्रमः ॥

**भावार्थः—**पति परदेश जाने को तैयार है, उस समय पति-पत्नी मे जो बातचीत हुई वही इस इलोक मे है। पति—“प्रिये ! मैं जा रहा हूँ ।” पत्नी—“जाइये नाय ।” पति—“प्रियतमे ! बृथा शोक भत करो ।” पत्नी—“भला तुम्हारे जाने से गुझे शोक क्यो होने लगा ?” पति—“तो किर आँसू क्यो वहा रही हो ?” पत्नी—“इसलिए कि तुम जह्नी क्यो नही चले जाते ।” पति—“प्रिये ! मैं चला जाऊ इसके लिए तुम इतनी उतावली क्यो हो रही हो ?” पत्नी—“मैं उतावलो नही हूँ, मेरे प्राण उतावले हो रहे हैं वि तुम बाहर निकलो तो वे भी तुम्हारा साथ देने के लिए मेरे शरीर से निकलें ।” तुम्हारे चले जाने के बाद मैं जीवित नही रहौगी—इस बात को अमर विने कैसे अनोखे दंग रो वहा है। एक उद्धूं वा शेर भो है—

विया जो यार ने हमसे पयाम रखासत वा ।  
तो दम निकल गया मुनते ही नाम रखासत वा ॥

## १२०

याले नाय विमुंच मानिनि रथं रोपान्मया कि कृतं  
सेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मयि ।  
तत्कि रोदियि गद्गदेन चक्षा कस्याप्रती रथते  
नन्येतन्मम का तथास्मि दपिता नास्मीत्पतो रथते ॥

**भावार्थः—**‘नो स्थी हुई है। पति के भनाने पर जो प्रश्नोत्तर हुए यहो अमर विने दम इनोर मे है। पति—‘प्रिये !’ पत्नी—‘यदा प्राणनाय ?’ पति—‘हे मानिनि, ब्रोप घोट

दो ! पत्नी—‘मैं क्रोध करके कर ही क्या सकती हूँ ?’ पति—‘मेरे ऊपर खेद ।’ पत्नी—‘भला मैं खेद क्यों करने लगी ? क्या आपने कोई अपराध किया है ? अपराध तो सब मैंने ही किये हैं ।’ पति—‘तो फिर गद्यगद् कंठ से रो क्यों रही हो?’ पत्नी—‘किसके आगे रो रही हूँ ?’ पति—‘मेरे आगे तो रो रही हो ।’ पत्नी—‘मैं आपको क्या हूँ जो आपके आगे रोऊँ ?’ पति—‘तुम मेरी प्रियतमा हो !’ पत्नी—‘प्रियतमा नहीं हूँ, इसी से तो रो रही हूँ ।’ इसी भाव का पदमाकर का एक हिन्दी पद्य भी है—

ए बलि कही हो किन का कहत कत ,  
 अरी रोस तज रोस कै कियो मैं का अचाहे को ।  
 कहूँ पदमाकर यहै तो दुख दूरि करौ ,  
 दोष न कछु है तुम्हें नेह निरवाहे को ।  
 तापै इत रोवतो कहा है कहो कौन आगे ,  
 मेरेई जु आगे किये आंसुन उमाहे को ।  
 का ही मैं तिहारी तू तां मेरी प्रानप्यारी ,  
 अजी होती जो पियारी तब रोती कहो काहे को ॥

## १२१

मा याहोत्यपमंगलं वज किल स्लेहेन शून्यं वच-  
 स्तिष्ठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वेदाप्युदासीनता ।  
 नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वा न वा  
 तन्मां शिक्षय नाथ यत्समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्तिथते ॥

**भावार्थ :—**पति के परदेश जाने के समय पत्नी कहती है—

“आप मत जाय” यदि यह कहूँ तो अमगल की बात होगी, “आप जाय” यह कहूँ तो यह स्नेह से शून्य बात समझी जायगी, “ठहरो” यदि यह कहूँ तो प्रभुता समझी जायगी, “आप जैसा चाहे वैसा करें” इससे रुखापन भलकर्ता है, “आपके बिना मैं नहीं जी सकती” यह बात कदाचित् सभव हो या न हो, तो है नाथ ! मुझे बताइये कि आपके प्रस्थान करते समय मैं क्या कहूँ ? भारतेन्दु हरिचन्द्र ने अमर कवि के इस श्लोक का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार किया है—

रोकहि जो तो अमगल होय,  
थो प्रेम नसं जो कही' 'प्रिय जाइये' ।  
जो कहो 'जाहु न' तो प्रभुता,  
जो कहु न कहों तो सनेह न ताइये ।  
जो कहों 'जोही न आप बिना',  
तो वहो हरिचन्द्रजू वयो पतिआइये ।  
तासो प्रयान समय तु मरे,  
हम का कहे आपे हमे समझाइये ॥

## १२२

द्वारादुत्सुकमागते विवलितं संभाविणि स्फारितं  
संक्षिलष्ट्यत्यरणं गृहीतवसने किञ्चिन्नतभूलतम् ।  
मानिन्याइचरणान्तिव्यतिकरे वाष्पांबुपूरणेक्षणं  
चक्षुजर्जतिमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥

भावार्थ :—अमर कवि ये इस श्लोक में विसी मानिनी

नायिका के नेत्रों का अच्छा वर्णन है—मानिनी के नेत्र, जो भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रपञ्च करने में चतुर हैं, अपराधी प्रियतम जब तक न आया था तब तक उत्सुकता से पूर्ण थे, जब प्रियतम आ गया तब कुछ सकोच से भर गये, प्रियतम के बोलने पर विस्तारित हो गये, प्रियतम के आलिगन करने पर लाल हो गये, प्रियतम के द्वारा वस्त्र पकड़ने पर कोध से उनकी भीए कुछ टेढ़ी हो गई और प्रियतम जब उसको मनाने के लिये उसके चरणों पर पड़ गया, तो आसू से भर गये। इस प्रकार उस मानिनी के नेत्रों ने कितनी अवस्थाएं बदली, यह आश्चर्य है। विहारी का एक दोहा भी कुछ इसी भाव का है—

हरि-द्विज-जल जब ते परे, तब ते दग निवरे न।

भरत ढरत बूढ़त तरत, रहत धरीलौ नैन॥

### १२३

प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैरस्त् रजस्त् गतं  
 धृत्या न क्षणमासित व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः।  
 यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता  
 गन्तव्ये सति जीवित प्रियसुहृत्सार्थः किमु त्यज्यते॥

भावार्थ—पति ने परदेश जाने का निश्चय कर लिया है, इस समाचार मात्र के सुनते ही पत्नी की जो दशा हुई, वह इस द्वारा मेरणित है—यह सुनते ही कि प्राणनाथ ने जाने का निश्चय कर लिया है वह इतनी दुर्बल हो गयी कि वहै हाथों से चल पड़े, आसू आखों से बराबर बहने लगे, धैर्य एक क्षण के लिये भी न ठहरा और चित्त तो सबके प्राणे जाने को

दिशायें मेरे लिये विलकुल शून्य न हो जायगी।" पति—"धब-डाने की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज़ब्द लौट आऊगा।" पत्नी—"यदि आप लौटेंगे तो अपने मिश्रो और परिवार के लोगों के भाग्य से लौटेंगे।" पति—"जो तुम कहना चाहती हो कहो! बोलो क्या कहना चाहती हो?" पत्नी—"जब किसी तीर्थ में जाना तो मेरे लिये तिलाजलि दे देना, वस में यही चाहती हूँ।" तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे वियोग में मैं जीवित न रहूंगी, इस बात को कवि ने कैसी यूंबी के साथ कहा है।

## १२५

प्रहरविरतो मध्ये वाह्नस्ततोऽपि परेऽथवा  
किमुत सकले जाते वाह्नि प्रिय त्वमिहेष्यसि ।  
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य पियासतो  
हरति गमनं बालालापै सवाष्पगलज्जलैः ॥

भाषार्थ —एवं भोली भाली स्त्री है, जो एक क्षण के लिए भी अपने प्रियतम का वियोग राहन नहीं कर सकती। उसका पति बहुत दूर की यात्रा करने की तैयारी में है। उसे वह अपने भोले भाले उत्सुकना-भरे वचनों से इस प्रश्न जाने से रोकना चाहती है—प्रियतम, यताप्तो तुम कब यहाँ लौटोगे? एक पहर में या दोपहर में या तीसरे पहर में या पूरा दिन बितावर ही यहाँ आओगे?" ऐसे वचनों से वह भोली-भाली स्त्री, जो संकढ़ो दिनों में पहुँचने योग्य स्थान है वहाँ जाने से, पति को अपनी आँखों से आमूर्ति बहावर रोक देती है। यह इलोक अमर कवि का है,

इसी का अनुवाद पदमाकर ने हिन्दी में, नोचेलिखे पद्म में, बहुत सुन्दर लिया है—

भो दिन को मारग तहीं को वेणि माँगि विदा ,  
प्यारो पदमाकर प्रभात राति बोते पर।  
सो सुनि पियारी पिय गमन घराइवे को ,  
आँमुनि अन्हाई वैठि आसन मुनीते पर।  
बालम विदेसै तुम जात हो तो जाउ ,  
पर सौंधी कहि जाऊ बद ऐहो भौन रीते पर।  
पहर के भीतर के दोपहर के भीतर ही ,  
तीसरे पहर चंघो साँझ ही चितीते पर ॥

## १२६

स्मत्संव्या वयमिन्दुसुन्दरमुसि प्रस्तावतोऽपि त्वया  
सत्यं नाथ यदि प्रदास्थति विधिर्जातिस्मरत्वं यम ।  
एकस्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिस्मरत्वं कर्य  
प्राणाः पान्य समं त्वयैव चलिता. काद्यापि जन्मेकता ॥

भावार्थ.—विदेश जाते हुए पति घोर उसकी पत्नी में जो  
चातचीत हुई थही इस द्वारा मेरे पति ने प्रगट लिया है। पति—  
“चन्द्रमुसि ! मुझे भी कभी-नभी स्मरण कर लेना ।” पत्नी—  
“नाप ! ध्येय स्मरण पर्ना, यदि जन्मान्तर की बात मुझे  
पाद रहेगी तो ।” पति—“प्रियतमे ! यह तुम क्या कहती हो ?  
एक ही जन्म में जन्मान्तर की बात क्योंसी ?” पत्नी—“हे परिक !  
प्राण सो तुम्हारे साथ ही जा रहे हैं, तिर यही जन्म घोर वही

शरीर कैसा ?" तुम्हारे जाने के बाद फिर मेरे प्राण नहीं रहेगी, इस बात को दवि ने कैसे अनोखे ढंग से बहा है।

## १२७

वाच्यं तस्मै सहचरि भवद्भूरिविश्लेषणन्हौ  
स्नेहैरिद्दे भम वपुरिदं काम होता जुहोति ।  
प्राणानस्मै तदहसुचितां दक्षिणां दातुमीहे  
तत्रादेशो भवतु भवतां यत्त्वमेवामधीशः ॥

**भावार्थः**—एक विरहिणी कुलकामिनी अपनी एक सखी के द्वारा पति को यह सन्देशा भेजती है—हे सखि, उनसे जाकर कहना कि कामदेव रूपी होता (यज्ञ करने वाला पुरोहित) मेरे शरीर को स्नेहरूपी धृत से प्रज्वलित, वियोगरूपी अग्नि में, हवन कर रहा है। अब उस पुरोहित को मैं प्राणरूपी दक्षिणा देना चाहती हूँ। किन्तु उसमें आपकी आज्ञा की आवश्यकता है, क्योंकि उन प्राणों के मालिक तो आप ही हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन प्राणों को त्यागकर विरह-तप्त जीवन से छुटकारा पा जाऊँ।

## १२८

वाचो मांगलिकीः प्रयाणसमये जलपत्यनल्पे जने,  
केलीमन्दिरमाहतायनभुखे विन्यस्तवकत्राम्बुजा ।  
निःश्वासग्लपिताधरा परिपतद्वाष्पाद्र्वंवक्षोरुहा  
बाला लोलविलोचना शिव शिव प्राणेशमालोकते ॥

कोमल करो से हटाती है, पर बार-बार तुम रति की साक्षात् मृति उसके अधर का पान कर रहे हो । इस प्रकार तुम तो अपने मनोरथ में सफल और कृतकृत्य हो रहे हो और हम इसके प्रति अनुराग उचित है या अनुचित, इस तत्त्व के अन्वेषण में लगे हुए अपने मनोरथ में असफल होकर, कहीं के न रहे ।

## १३०

गतप्राया रात्रिः कृशतनुशशी शीर्यत इव  
प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो धूर्णत इव ।  
प्रणामान्तः कोपस्तदपि न जहासि कुधमहो  
स्तनप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम् ॥

**भावार्थ :**—इस श्लोक के सम्बन्ध में भयूर कवि और वाण-भट्ट का एक कथानक प्रचलित है—ऐसा कहा जाता है कि वाण-भयूर कवि के वहनोई और परम मित्र थे । किसी दिन भयूर कवि रात के पिछले पहर जागे और उसके बाद कई श्लोक उन्होंने रच डाले । उन्हें बहुत रसीले समझ, मारे उत्सुकता के, अपने मित्र वाण कवि को सुनाने के लिए उनके दरवाजे पर पहुचे । वाण कवि ठीक उसी समय अपनी पत्नी, भयूर कवि की बहिन को, जो मान से रुठी हुई थी, प्रसन्न करने के लिए यह श्लोक रचकर सुना रहे थे । तीन चरण सुनाकर जब तक वे चतुर्थ चरण के शब्द सौच रहे थे, तब तक भयूर कवि वहाँ जा पहुचे और स्वयं चतुर्थ चरण की पूति करते हुए बोले—“स्तनप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्” । यह सुनते ही वाण कवि प्रसन्नता से भरे हुए बाहर निकल आये और

मयूर से भेट की । वाणी की स्त्री ने अपनी कीड़ा में ऐसा रग-भग देता, भाई को शाप दिया कि वह कोड़ी हो जाये । मयूर कोड़ी हो गए प्रोत मूर्यं शतक बनाने पर उस रोग से मुक्त हुए । मूर्यं शतक रचकर भयूर ने अपना बुष्ट दूर विया ऐसा वाद्य-प्रकाश में भी मिलता है । इलोक का भावायं यह है—

रात अब दीतन्सी गयी है, चन्द्रमा भी अब थीरण और प्रकाशहीन होकर दूरने ही याला है; यह दीपा भी जो रात भर मेरे साथ जगा है, अब नीद में आवर औंपाई ने रहा है, प्रणाम पर लेने पर क्रोध का धन्त ही जाना चाहिये, पर मेरे प्रणाम परने भी धाना कोप नहीं दूर पर रही ही; हे बठोर हृदये! मालूम होता है, बठोर न्तनों के पास रहते रहते तुम्हारा हृदय भी बठोर हो गया है। तभी तो मेरे अनुनय कोई अमर उस पर नहीं हो रहा है ।

१३१

यद प्रस्तितासि परभोद घने निशीये  
प्राणाधिषो यसति यथ जनः प्रियो मे ।  
एकाकिनी यद यदं न विभेषि याते  
नन्यस्ति पुंतितदरो मदनः सहायः ॥

अकेली कहा हू, घनुपवाण लिये हुए कामदेव जो मेरे साथ  
जा रहा है, फिर डर कौसा ? इसी भाव को लेकर पदमाकर  
कवि का हिन्दी अनुवाद है—

कौन है तू कित जात चली बलि बोती निशा अधराति प्रमानै ।  
हो पदमाकर भावति हो निज भावत पै अबहो मुहि जानै ।  
तो अलदेली अकेली डरे किन क्यो डरी मेरी सहाय के लानै ।  
है सखि सग मनोभवसो भट कानलो वान सरासन तानै ॥

## १३२

हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा ।  
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो द्रुमाः ॥

**भावार्थ :—**एक विरहिणी अपने प्रियतम के वियोग मे  
कहती है—मेरे और प्रियतम के बीच रेखामान का भी अन्तर  
श्रीर अलगाव न हो, इसके लिये मैं पहले अपने कण्ठ मे हार भी  
नही डालती थी, और अब यह दशा है कि हम दोनो के बीच  
हार तो क्या, बडे-बडे पर्वन, बड़ी-बड़ी नदिया और बडे-बडे  
वृक्ष आ गये हैं। इसी भाव का रहीम का यह दोहा भी है—

रहिमन इक दिन बे रहे, बीच न सोहत हार ।  
वायु जो ऐसी वह गयी, बीचन परे पहार ॥

## १३३

प्रियाविरहितस्यास्य हृदि चिन्ता समागता ।  
इति मत्वा गता निद्रा के कृतधनमुपासते ॥

**भावार्थ :—**किसी विरही पुरुष का वर्णन करते हुए कवि

कहता है—अपनी प्रियतमा के विरह में व्याकुल उसके हृदय में चिन्ता समा गयी है, यह जानकर निद्रा जो उसकी चिर-सहचरी थी, उसे छोड़कर चली गयी। सच है कृतधन का कीन साथ देता है। हृदय में जब चिन्ता घर कर लेती है तो नीद कहा आती है? इसी भाव का यह हिन्दी दोहा भी है:—

नीन्द पुरानी गेहिनी, रात न आयी हाय।  
चिन्ता नव वधु देख के, भाकि भाकि चलि जाय॥

### १३४

यदि गर्जति वारिधरो गर्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः ।  
अपि विद्युत्प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥

**भावार्थ :**—वर्षा काल में एक विरहिणी नायिका चमकती हुई मिजली को स्वोघन करके कहती है—यदि वादल गर्जते हैं तो गर्जें, क्योंकि पुरुष तो निदुर होते ही हैं। परन्तु विजली, तू तो स्थीर जाति हैं, वया तू भी स्थीर जानि के दुर दो नहीं समझती? तो फिर क्यों मुझ विरहिणी को चमक कर सना रही है?

### १३५

स्मर्त्तव्याऽहं त्वया फाले न स्मरिष्याम्यहं तय ।

स्मरणं चेतसो धर्मं तच्चेतो भयता हृतम् ॥

**भावार्थ :**—एोई स्त्री परदेश जाने हुए अपने पति से कहती है—परभी-माझी, पापको गमय मिले तो मेरी भी याद कर सेना। मिन्तु मैं तो पापको स्मरण करनी नहीं, क्याकि

स्मरण करना तो चित्त का धर्म है, उस चित्त को आप चुरा कर लिए जा रहे हैं। अतएव मैं आपको कैसे स्मरण करूँगी ? कुछ इसी भाव को लिये हुए एक उद्दृश्य देख भी है—

मैं जाता हूँ दिलको, तेरे पास छोड़े ।

मेरी याद तुझको, दिलाता रहेगा ॥<sup>६</sup>

उद्दृश्य के एक दूसरे कवि ने कहा है—

याद रखना हमारा भूल गये ।

भूल जाना हमारा याद रहा ॥

एक और शेर है—

कोई तो अपने शरीरके हाल मुश्किल में रहे ।

तुम नहीं रहते तुम्हारी याद ही दिल में रहे ॥

### १३६

यावद् यावद् भवति कलया पूर्णकामः शशांक-  
स्तावत्तावद् द्युतिमयवपुः क्षीयते सा भृगाक्षी ।  
मन्ये धाता घटयति विधुं सारमादाय तस्या-  
स्तस्माद्यावन्न भवति सखे पूर्णिमा तावदेहि ॥

**भावार्थः**—इस इलोक में कोई अपने मित्र को उसको विरह-विधुरा प्रियतमा का हाल लिखकर सूचित करता है—जैसे-जैसे चन्द्रमा एक-एक कला बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उस मृगनयनी—आपकी प्रियतमा—का सुन्दर शरीर क्षीण होता जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विधाता उसके शरीर का सारा सार खोचकर चन्द्रमा को गढ़ रहा है। इसलिए मित्र ! जब तक पूर्णिमा न हो, तब तक मैं चले आओ। नहीं तो हाथ मल-मल कर पछनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर पूर्णिमा के बाद उसका अस्तित्व कहाँ ?

१३७

अनुदिनमतितीर्थं रोदिषीति त्वमुच्चैः  
 सखि किल कुरुपे त्वं चाच्यतां मे मुर्धन्ते ।  
 हृदयमिदमनंगांगारसंगाद्विलीय  
 प्रसरति बहिरंभः सुस्थिते नैतदश्रु ॥

**भावार्थ**—सखी के चार-चार समझाने पर कि तू क्यों रोया बरती है, एक विरह-विधुरा स्त्री उत्तर देती है—“तू प्रतिदिन बहुत रोती रहती है” ऐसा कहकर है सखी । तुम मुझे क्यों बदनाम किया करती हो । कामाग्नि (विरहग्नि) से पिघल-पिघल कर यह मेरा हृदय पानी होकर आँखों से वह रहा है । है विरह-पीड़ा से अनभिज्ञ, स्वस्यचित्तबाली सखि । यह आँसू नहीं है । इसी भाव वा विहारी वा दोहा भी है—

तत्त्वयो आच अति विरह की रहो प्रेम रस भोज ।  
 नेननि के मग जल वहै हियो पसोज पसोज ॥

१३८

इतप्यति पश्यति चुम्बति पुनः पुनः पुलकमुकुलितरंगैः ।  
 प्रियसंगाय स्फुरितां वियोगिनो वामदाहृनताम् ॥

**भावार्थ**—किसी विरहिणी वा याया हाथ फरमा है । इस शुभ शब्दनु से यह सुमझार वि प्रियतम आने ही वाला है, वह उत्सुरता पौर प्रेम वे उद्वेक में, यभी अपनी यायो मुजा वा पातिग्नि वरती है, यभी उत्तरो देवती है, पौर यभी उत्तरा शुभ्यन वरती है ।

१३६

स्फुरिते वामाक्षि त्वयि यद्येष्यति स प्रियोऽयं तत्सुचिरम् ।  
सम्मोल्य दक्षिणं त्वयैवंतं प्रेक्षिष्ये ॥

**भावार्थः—**एक विरहिणी नायिका अपनी बाईं आँख को सम्बोधन वरके कहती है—हे बाईं आँख, तुम्हारे फरकने से यदि वह मेरा प्रियतम आज आवेगा, तो मैं तुम्हे विश्वास दिलाती हूँ कि अपनी दाईं आँख को देर तक बन्द रख कर, तुम्हीं से उस को देखूँगी । इसी भाव को लेकर विहारी का यह दोहा है—

वाम वाहु फरकत मिले, जो हरि जीवनमूरि ।  
तौ तोही सो भेटि हीं, राखि दाहिनी दूरि ॥

१४०

आगच्छन्मूचितो येन  
येनातीतो गृहं प्रति ।  
प्रथमः सखि कः पूज्यः  
किं काकः कि क्रमेलकः ।

**भावार्थः—**चिरकाल के विरह के बाद किसी प्रियतमा का पति ऊट पर चढ़कर परदेश से आया है । इस पर उसकी सखियाँ जब उसे बधाई देने के लिए आयी, तो उसने उनसे एक समस्या का समाधान पूछा । उसने कहा—“सखियो ! आज प्रात काल ही कौवे ने मुझे प्रिय के आगमन का सन्देश दिया और ऊट स्वयं उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर तक लाया है । अब

तुम मुझे यह बताओ कि मैं इन दोनों में से पहले विस का सम्मान करूँ, कौए का या ऊँट का ?

१४१

अदृष्टे दर्शनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता ।  
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम् ॥

भावार्थ — एक विरहिणी जिसी दूती के द्वारा अपने प्रिय-  
तम से कहती है—जब तुमको नहीं देखती, तब देखने की उत्कण्ठा  
बनी रहती है और जब तुमको देखती हूँ तो यह भय बना रहता  
है कि किर तुमसे वियोग न हो जाय । इस प्रकार चाहे तुम्हे  
— देखूँ या न देखूँ, तुमसे सुख मुझे बदा नहीं है । इसी भाव को  
लिये हुए यह हिन्दी वा दोहा भी है—

देखे बने न देखते, बिन देखे अबुलाहि  
इन दुयियन यगियान बो, मुग मिरजीहे नाहि ॥  
एव उदूँ वयि वा दोर भी कुछ इसी तरह वा है—  
हिज्ज मे वस्ल वा गम, वस्ल मे मिलने की उमीद ।  
रौन वहता है कि, हिज्जन से विसाल अच्छा है ॥

१४२

पंचत्वं यान्तु वारणा. समयपरिणतस्ते विदीर्णोस्तु चापः  
फूरः फूराहियवर्णं विश्वातु तथं रयो भा भवत्वं दारीरी ।  
कि ते शापेन मादृग्युषतिवधमहापातकिन्मीनवेतो  
शप्यः पायोजयोनिः स एतु रचितवान् पापिनो दीर्घंमापुः ॥

**भावार्थः—**एक विरहिणी विरह के प्रलाप में कामदेव को शाप देती हुई कहती है—तेरे कुसुम के बाण नाश को प्राप्त हों; तेरा धनुष जो बहुत काल से जीर्ण हो गया है, दुकड़े-दुकड़े हो जाय; तेरा रथ कूर सर्प के मुख में चला जाय और तू कभी शरीर को धारण न करे। परन्तु मेरे सहश अनेक युव-तियों के बध से पाप की गठरी ढोने वाले ऐ कामदेव ! तुझे शाप देने से क्या लाभ ? सबसे बड़ा पापी तो कमल से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा है, जिसने तुझ-जैसे पापी की इतनी लम्बी आयु बनायी है।

१४३

जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं  
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम् ।  
इयं भूतिनांगे प्रियविरहजन्मा धवलिमा  
पुरारातिभ्रान्त्या कुसुमशर किं मां व्यथयसि ॥

**भावार्थः—**एक विरहिणी प्रियतम के वियोग में प्रलाप करती हुई कहती है—हे कामदेव ! तुम मुझे अपना पुराना शब्द, पुराराति महादेव, समझ कर सता रहे हो यह उचित नहीं है। मेरे सिर पर वेणी किया हुआ जो यह केशों का जूड़ा बन्धा हुआ है वह महादेव की जटा नहीं है, गले में जो यह कस्तूरी का लेप है वह महादेव जी का हालाहल पीते से नीला हो गया कण्ठ नहीं है; केशों में जो यह सफेद फूलों की कतार खुसी हुई है वह महादेव जी की जटा में स्थित अद्वितीय नहीं

है, मेरे शरीर में प्रियतम के वियोग में, जो यह सफेदी छा गयी है, वह महादेव जी के शरीर पर पुता हुआ भस्म नहीं है। फिर व्यर्थ में मुझे क्यों महादेव के भ्रम में सता रहे हो ?

१४४

हृदयमात्रयसे चत मामकं  
ज्वलयसीत्यमनंग तदेव किम् ।  
स्वयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः  
वद्व भवितासि हताश हुताशवत् ॥

**भावार्थ—**—एक विरहिणी प्रसाप में कामदेव को सम्बोधन करके वहाँ है—हे कामदेव, तुम मेरे हृदय में रहने हो पौर उसी अपने पर को जला रहे हो। जिस प्रकार आग इन्धन को जलाकर फिर स्वय समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पर—मेरे हृदय—को जलाकर फिर वहाँ रहोगे ? जरा सोचो तो सहो ! फिर यदों गगा रहे हो ?

१४५

अनलस्तंभनविद्या सुभग भवान्नियतमेव जानाति ।  
भन्मयशराग्नितप्ते हृदये मे क्यमन्यथा यससि ॥

**भावार्थ—**—योई विरहिणी विरह के प्रसाप में अपने प्रियतम को सबोधन करते रहती है—हे प्रियतम, निश्चय है कि तुम आग को यस में परने की विद्या जानते हो। अन्यथा कामदेव जै बालों की अग्नि से जलते हुए इन मेरे हृदय में

तुम कैसे निवास करते ? निश्चय ही तुमने आग को वश मे कर लिया है ।

१४६

नपुंसकमिति जात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः ।  
तच्च तत्रैव रमते हृताः पाणिना वयम् ॥

**भावार्थः—**—सस्कृत भाषा मे “मन” शब्द नपुंसक लिंग है, इस पर किसी कवि की सूझ है—मैंने यह समझ कर कि “मन” नपुंसक है उसे अपनी प्रिया के पास ढूत बनाकर भेजा । किन्तु वह तो वही रम गया, आने का मन हो नहीं करता । सचमुच पाणिनि ने बड़ा धोखा दिया । न पाणिनि उसे नपुंसक लिंग लिखते, न मैं उसे वहाँ भेजता । इस श्लोक का हिन्दी मे पद्यानुवाद किसी ने इस प्रकार किया है—

मन चचल और नपुंसक है, इस भाँति विचार बसीठ बनाया ।  
वह पास गया जिसके उसने, रस खेल खिलाय वही विरमाया ॥  
निशि बीत चुकी पर भामिनि को, अब लो कवि शकर साथ न  
लाया ।

पढ़ि पाठ महामुनि पाणिनि के, हमने फल हाय ! भयानक पाया ॥

१४७

दृष्टिर्वन्दनमालिका स्तनयुग्मं लावण्यपूणीं घटीं,  
शुभ्राणां प्रकरः स्मितं सुमनसां वक्त्रप्रभा दर्पणः ।  
रोमांचोदगम एव सर्वपकणः पाणी पुनः पल्लवौ,  
स्वांगैरेव गृहं प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृतं मंगलम् ॥

**भावार्थः—**पति के परदेश से आने पर पत्नी दृर्घ से कितनी प्रफुल्लित हो गयी, इसका सुन्दर वर्णन अमह कवि ने इस इलोक मे इस प्रकार किया है—जब प्रियतम धर मे प्रवेश करने लगा, तो द्वार पर ही उसको प्रियतमा ने अपने अगो से ही यथोचित मगलाचार पूरा किया। उसके एकटक देखने ने बन्दनवार का, दोनो पयोधरो ने लावण्यरूपी जल से भरे हुए दो घडो का, मीठी मुस्कान ने सफेद फूलो की वर्षा का, मुख की कान्ति ने दर्पण का, रोमाच ने सर्सो के दामो का तथा करो ने पल्लवो का काम् दिया। इसी भाव का एक हिन्दी पद्म भी है, देखिये—  
इन्दीवरान को वर्जि सुलोचनि दीठिसो बन्दनवार बनाई,  
कुन्द चमेलिन मेलि कछू मुस्क्यान सो दीन प्रसून विद्याई।  
स्वेद चुचात पयोधरसो दियो अर्घं न अभ सुकुंभ मे लाई,  
आवत पीयके अग्निसो निज मगलरीनि सर्वै निवटाई॥

## १४८

सत्यमेव गदितं त्वया प्रभो  
जीव एक इति यत्पुरावयोः ।  
अन्यदारनिहिताः नखद्रणा-  
स्तावके चपुषि पीड़यन्ति माम् ॥

**भावार्थः—**एक लपट पति अपनी पत्नी से प्रतिदिन कहा करता था कि “हम दोनो तो एक मन, दो तन हैं।” एक दिन जब वह किसी अन्य स्त्री के यहाँ से लौटकर आया, तो उसके अगो मे रति-चिन्हो को देखकर पत्नी ताने के साथ कहती है—  
स्वामिन्। आप पहले जो वहा करते थे कि कि “हम दोनो

के प्राण एक है" सो आज सच्चा साधित हुआ । यदि हम दोनों के प्राण एक न होते तो आप के शरीर में अन्य स्त्री के द्वारा दिये गए नखक्षत मुझे क्यों पीड़ा देते ? नखक्षत आप के अग मे है, परन्तु पीड़ा मुझे दे रहे हैं । अतएव सिद्ध हुआ कि हम दोनों के शरीर अलग अलग हैं, पर प्राण एक है ।

## १४६

दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां  
पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये ।  
उद्यत्कठोरपुलकांकुरकण्टकाग्रे-  
र्यदभिद्यते मृदु पदं ननु सा व्यथा मे ॥

**भावार्थः**—किसी प्रगल्भा नायिका का वर्णन इस श्लोक में है । स्त्री के पाद-प्रहार करने पर पति कहता है—मैं तुम्हारा दास और अपराधी हूँ और तुम मेरी प्रभु हो । प्रभुओं का अपराधी सेवक को लात मारना उचित हो है । किन्तु हे सुन्दरि ! तुम्हारे पाद-प्रहार से मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे सुकुमार पैर मेरे शरीर में उठे हुए बठोर पुलकावली रूपी काँटों से बिघ गए होंगे, जिससे तुमको बहुत पीड़ा हुई होगी । मैं अपने इस अपराध की क्षमा चाहता हूँ ।

## अंग—सौन्दर्य

१५०

तस्या मुखस्यातिमनोहस्य

कत्तुं न शवतः सदृशं प्रियायाः ।  
अद्यापि शोतद्युतिरात्मविम्बं  
निर्माय निर्माय पुर्णभिनति ॥

भाषार्थः—चन्द्रमा पूर्णमासी को तिथि मे बार-बार पूरा होकर, बार-बार क्षोण होता रहता है। इस पर एक सुन्दरी के मुख की प्रशसा में कवि की कल्पना है—उस प्रियतमा के मुख की तुलना करने में चन्द्रमा अभी तक असफल रहा है, पर चेष्टा करना नहीं छोड़ता। इसीलिए बार-बार वह अपने को बनाता रहता है और बार-बार मिटाता रहता है कि कदाचित् कभी तो सफल हो जाऊँ और उस सुन्दरी के मुख को बराबरी कर सकूँ।

१५१

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेघसा ।  
कृतमध्यविलं विलोवयते धृतगंभीरखनीखनीलिम ॥

भाषार्थः—नैपधचरित मे महाकवि श्रीहर्ष दमयन्ती के मुख का वर्णन करते हुए, लिखते हैं—ग्रहा ने दमयन्ती का मुख रचने के लिए चन्द्रमा का सार स्त्रीच लिया। सार स्त्रीचने से

उसके बीच आर-पार एक छेद हो गया। उसी छेद के कारण चन्द्रमा के उस पार का नीला आकाश दिखाई पड़ने लगा। उस पार दिखाई पड़ने वाला 'नीला' आकाश ही वह कलक है, जो चन्द्रमा में दिखाई पड़ रहा है।

१५२

द्विघा विधाय शीतांशुं कपोलौ कृतवान् विधिः ।  
तन्त्व्यास्तद्रसनिष्यन्दविन्दवो रदनावली ॥

**भावार्थः**—किसी सुन्दरी के कपोलो और दाँतो की प्रशसा में कवि कहता है—ब्रह्मा ने चन्द्रमा को दो भागों में काट कर उसके कपोलो का निर्माण किया तथा चन्द्रमा की दो फँक करने से जो रस की बूँदे टपकी, वही दाँतो की दो पवित्री बन गयी।

१५३

विलोकितास्या मुखमुन्नमय्य कि वेधसेयं सुषमासमाप्तौ ।  
घृत्युद्भवा यच्चिवुके चकास्ति निम्ने मनागंगुलियंत्रणोव ॥

**भावार्थः**—दमयन्ती के चिवुक (दुड़ी) के वर्णन में महाकवि श्रीहर्ष की कल्पना है कि ब्रह्मा जब उसकी सुन्दरता गढ़ चुका, तब उसका मुख उठाकर आत्मसन्तोष के लिए देखा कि कैसी बनी है। अगुली से दुड़ी को उठाया, इसलिए दुड़ी में हल्का-सा गड्ढा (dimple) पड़ गया, जो मुख को और भी सुन्दर बना रहा है।

## १५४

आकाशात्पतितं पुनर्जलनिधीं मध्ये चिरं संस्थितं  
पश्चाद् : सहदेहरन्द्रजनितवलेशान्वितं मौवितकम् ।  
बाले बालकुरंगलोचनयुगे घोरं तपः संचरत्  
नासा भूपणतामुपैति सखि ते विम्बाधरापेक्षया ॥

**भावार्थः—**—एक सखी किसी नायिका की नासिका और  
अधर की प्रशस्ता में बहती है—हे भूग-छौने के समान नेत्र वाली  
सुन्दरि ! इस मोती ने बड़ो तपस्या की है, तब कही जाकर  
तुम्हारी नासिका तरु पहुँच सका है । पहले वह आकाश से  
स्वाती नक्षत्र के दून्द के रूप में गिरा, फिर बहुत दिनों तक  
समुद्र के गर्भ में पड़ा रहा, वहाँ से फिर भोती के रूप में निकला  
और बाद को उसका शरीर छेदा गया । यह सब असहनीय कष्ट  
उसने इस लिए सहे हैं, कि अन्त में तुम्हारी नासिका का  
आभूपण बनकर, तुम्हारे विम्ब के समान अधर का पान कर  
सके ।

## १५५

पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यात्  
मुक्ताकलं चा स्फुटविद्रुमस्यम् ।  
ततोऽनुकूर्याद्विशदस्य तस्या- . . .  
स्ताम्रोष्ठपर्यस्तश्चः स्मितस्य ॥

**भावार्थः—**—लिदास कुमार सम्भव में पावंती के अधरों पर

मुस्कान का वर्णन करते हुए लिखते हैं—यदि श्वेत खिले हुए पृष्ठ को लाल ~~कलम~~ पर रख दिया जाय यथवा स्वच्छ मोती को पूर्ण विकसित मूँगे पर रख दिया जाय, तभी वह पार्वती के लाल थ्रोंठ पर फैली हुई मुस्कान की शोभा का अनुकरण कर सकता है।

१५६

इन्दीवरं लोचनयोस्तुलायै  
निर्माय यत्नेन विधिः कदाचित् ।  
अतुल्यतां वीक्ष्य ततो रजांसि  
निक्षिप्य चिक्षेप स पंकमध्ये ॥

**भावार्थः**—ब्रह्मा ने सुन्दरी के नेत्रों की तुलना करने के लिए वडे यत्न से कमल को चनाया, पर जब देखा कि वह उसकी तुलना नहीं कर सकता, तो खिन्न होकर उसे तिरस्कृत कर दिया और उस पर पराग के रूप में धूल फैक कर, कीचड़ में फैक दिया। इसलिए कमल कीचड़ में हीने लगा और पंकज कहलाने लगा।

१५७

कस्तूरीतिलकं भाले वाले मा कुरु मा कुरु ।  
अद्य साम्यं भजाभीति जूंभते शशलांघनः ॥

**भावार्थः**—कोई सुन्दरी अपने माथे पर कस्तूरो का तिलक लगा रही है। इस पर कवि उसको सम्बोधन करके कहता है—

“हे बाले, अपने माथे पर वरतूरी का तिलक मत लगाओ ! मत लगाओ ! योकि अभो तक तो चन्द्रमा सकलक था और तुम्हारा मुख सर्वथा निष्कलक था, पर थब कस्तूरी वा बाला तिलक लग जाने से, वह भी सकलक हो गया । अतएव चन्द्रमा यह समझ कर कि अब मैं इसके बराबर हो गया, हर्ष के मारे फूला नहीं समाता ।

## १५८

बद्धते मुलसादृश्यमवाप्तुं हरिणीदृशः ।  
क्षीयते भ्रूतुलायेतुमुभयोरक्षमो विघिः ॥

**भायार्यः**—चन्द्रमा बढ़ता और घटता रहता है, इस पर यिसी वय की प्रनोस्ती यत्नना है कि इस मृगनयनी के मुस की चरावरी पाने के लिए चन्द्रमा बढ़ता है । पर जब देखता है कि मैं उसके मुन वी समता नहीं पा सकता, तो घटने सकता है कि यदायित् उसके भी यी चरावरो पा जाऊँ, विन्तु वह इसमें भी अगफल होता है । इसी भाव का एक फारमी वा शेर भी है—

मह शुद तमाम ताचे रमे ऊरवद न शुद ।  
काहीद वाज तालमे घबर शबद न शुद ॥

## १५९

प्रविद्धा भट्टिति गेहं मा यहिस्तिष्ठ कान्ते  
ग्रहणसमययेता यतंते शोतरदमेः ।  
तय मुद्यमक्त्वं योद्य नूनं स राहृ-  
पंसति तय मुलेन्दुं पूर्णचन्द्रं विहाय ॥

**भावार्थः—**चन्द्रमा को ग्रहण लगने वाला है, उस पर एक कवि किसी सुन्दरी से कहता है—हे सुन्दरी, चन्द्रमा का ग्रहण अब लगने ही वाला है। इसलिए भट्ट से घर के भोतर चली जाग्रो, वाहर मत खड़ी रहो। मुझे डर लगता है कि तुम्हारे निष्कलंक मुख को देय, राहु सकलंक पूर्णिमा के चान्द को छोड़कर, कही तुम्हारे कलंक-रहित मुख-चन्द को न ग्रस ले। कुछ इसी तरह को अतिशयोक्ति एक उद्दृश्ये में भी है—

वाम पर नगे न जाग्रो, तुम शबे महताव मे।  
चान्दनी पढ़ जाएगी, मैला बदन हो जाएगा ॥

### १६०

अनाद्रातं पुष्पं किसलयमज्जूनं कररही-  
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।  
अखण्डं पुष्पानां फलमिव च तद्रूपमनधं  
न जाने भोवतारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥

**भावार्थः—**कालिदास शकुन्तला को सुन्दरता के वरण्णन में कहते हैं—इसका सर्वागमुन्दर रूप एक ऐसा पुष्प है जिसको अभी तक किसी ने सूंधा नहीं है; एक ऐसा कोमल किसलय (क्रोपल) है जो किसी के नय से अभी तक तोड़ा नहीं गया है; एक ऐसा नवीन मधु है जिसको अभी तक किसी ने चसा तक नहीं है; ऐसे पुष्प का फल है जो अस्त्रण्ड है और जिसको 'फोई रीमा' नहीं है—मालूम नहीं वहाँ किसको इसका भोग करने वाला चुनेगा।

१६१

नतांगि त्वद्वक्त्रश्रियमसहमानः कृशत्तु-  
र्जटारण्ये स्थित्वा गलदमलगंगे गुहगुरोः ।  
त्रियामाप्राणेशः शृणु निजकंलकं शमधितुं  
समुद्यत्संकल्पः परिवरति मन्ये तप इति ॥

**भावार्थ.**—महादेव जी की जटा में द्वितीया का चान्द वयो है, इस पर किसी कवि को अनोखी कल्पना है। कोई कवि किसी स्त्री को सम्बोधन करके कहता है—हे सुन्दरी, चन्द्रमा, तुम्हारे मुख को शोभा को न सहकर तथा दुख के मारे दुवला होकर, महादेव जी की जटा रूपी बन में, वहाँ से निकलती हुई पवित्र गगा के किनारे, तुम्हारे मुख की समता पाने की लालसा से, अपने घलक को दूर करने का सकल्प लेकर, मानो कठोर तपस्या कर रहा है।

१६२

सरसिजमनुविद्धं शंवलेनापि रम्यं  
मलिनमपि हिमांशोलंषम् लक्ष्मीं तनोति ।  
इयमधिकमनोज्ञा यल्कलेनापि तन्वी  
किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

**भावार्थ:**—शबुद्धता के स्वर्प की प्रशंसा में वालिदास बहुते हैं—कमल यद्यपि शंवाल (सेवांर) से लिपटा रहता है तथापि उसी से उमरी शोभा और अधिक रमणीय हाती है, चन्द्रमा

यद्यपि मैले कलक से अकित रहना है तथापि उसी से उसकी रमणीयता बढ़ जाती है, इसी प्रकार यह कोमलागी शकुन्तला यद्यपि केवल वल्कल (पेड़ के छाल का बना हुआ वस्त्र) पहने हुए है तथापि उसी में यह और भी मनोहर लग रही है। सच है जो मधुर आकृति वाले हैं, उन्हें कोई भी वस्तु शोभा देने वाली हो जाती है।

## १६३

अभिलषसि यदीन्दो वक्त्रलक्ष्मीं मृगाक्ष्याः  
पुनरपि सकृदघ्नौ भज्ज संक्षालयांकम् ।  
सुविमलमय विम्बं पारिजातस्य गन्धैः  
सुरभय वद नो चेत्त्वं वव तस्या मुखं वव ॥

**भावार्थः**—कोई नायक अपनी प्रियतमा के मुख की प्रशसा में चन्द्रमा को सवोधन करके कहता है—चन्द्रमा, यदि तू उस मृगनविनी के मुख को शोभा प्राप्त करना चाहता है, तो एक बार फिर समुद्र में हूब कर अपने कलक (काले धब्दे) को धो डाल। इस प्रकार अपने गोल विम्ब को स्वच्छ करके वही पारिजात (कल्पवृक्ष) को सुगन्ध से अपने को सुगन्धित कर। तब वही तू इसकी बराबरी कर सके। नहीं तो कहाँ तू और कहाँ उसका मुख।

## १६४

उन्मेयं यो मम न सहते जातिवंरी निशाया-  
मिन्दोरिन्दोवरदलदृशा तस्य सौन्दर्यदर्यः ।

नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्तकान्त्येति हर्ष-  
ललभ्ना मन्ये ललिततत्तु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः ॥

**भावार्थः—** किसी सुन्दरी के चन्द्रमा को भी लजाने वाले  
मुख तथा कमल के समान सुन्दर चरणों की प्रशसा में कवि  
कहता है—“मेरा जन्मजात वैरी चन्द्रमा रात मेरा विकास  
नहीं सह सकता, उसी चन्द्रमा के सौन्दर्य-दर्प को इस कमल-  
नयनी ने अपने मुख की वानि से चूर कर दिया है”—वहस  
इसी प्रशन्नता के मारे, अपनी वृत्तजगता प्रगट करने के लिये,  
हे कोमलाणि ! कमल की शोभा तुम्हारे पैरों में आकर पड़  
गयी है ।

यदि वोई स्वयं अपने वैरी को न जीत सके और दूनरा  
कोई उस वैरों को हरा दे, तो उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक  
ही है और तब वह हराने वाले के प्रति अपनी वृत्तजगता प्रगट  
करने के लिए, अपना सिर उसके चरणों पर रख देता  
है । इसी प्रकार कमल ने भी उस वामिनी के मुख से अपने  
शब्द चन्द्रमा को पराजित देरा कर, अपनी वृत्तजगता प्रगट करने  
के लिये, अपनी कान्ति उसके चरणों में समर्पित पर दी ।  
उसका मुख चन्द्रमा से और उसके चरण कमल से भी अधिक  
सुन्दर है, इस बात पर कवि ने बैसे भनोए छग भी बहु है ।

१६५

अरण्यं सारंगेगिरिकुहरगभार्श्च हरिभि-  
दिशो दिष्मातंगेः सत्तितमुषितं पंकजयनंः ।

प्रियाचक्षुर्मध्यस्तनवदनसौन्दर्यविजितः

सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरगमनम् ॥

**भावार्थः—**एक मनुष्य अपनो प्रियतमा के अंग-सौन्दर्य का वर्णन करता हुआ कहता है— मेरी प्रिया के नेत्रों के सौन्दर्य से पराजित होकर, मृगों ने बन में शरण ले ली है; कटि के सौन्दर्य से पराजित होकर, सिंहों ने पहाड़ की गहरी गुफाओं में निवास ले लिया है; चाल के सौन्दर्य से पराजित होकर, दिग्गज हाथी दिशाधो के छोर में चले गये हैं और मुख के सौन्दर्य से पराजित होकर, कमलों के समूह, इब भरने के लिये, पानी में चले गये हैं। ठीक है, जब अच्छे लोगों का मान-मर्दन होता है, तो उनके लिये या तो मर जाना या दूर भाग जाना ही थेयस्कर है ।

१६६

श्यामं सितं च सुदृशो न दृशोः स्वरूपं  
किञ्चु रुद्रं गरलमेतदथामृतं च ।  
नो चेत्कथं निपततादनयोस्तदैव  
मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥

**भावार्थः—**आँखों की प्रशंसा में किसी कवि की यह कल्पना अनोखी है—मृगनयनी की आँखों में जो यह कालापन और सफेदी है, सो वास्तव में यह कालापन और सफेदी नहीं है, वरन् विष और अमृत है । यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है कि जिन युवाओं पर उसकी नज़र पड़ जाती है, वे एक साथ ही मतवाले

भी हो जाते हैं और आनन्द में विभोर हो उठते हैं। अर्थात् आँखों में जो कानापन है वह जहर है, जिसके असर से युवक-गण मतवाले हो जाते हैं और आँखों में जो सफेदी है वह अमृत है, जिसका असर पड़ते ही वे आनन्द-लहरी में गोता लगाने लगते हैं। इसी भाव का हिन्दी का एक दोहा भी है। दोहा यह है—

अभी हलाहल मद भरे, स्वेत स्याम रतनार।

जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत एक बार ॥

एक दूसरे कवि ने इस इलोक का हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार लिया है—

स्याम सेत यह रग नहीं प्यारी के चरण को,

किन्तु गरल अरु सुधा अहै तिहि सकत न लखवो।

ना तो वैसे परत जाहि के तन पर ता छन,

मोहत घति ही और मुदित मन होत युवागन ॥

एक उद्दूर कवि भा एक दोर भी इसी भाव का है—

मजा वसाति का चाहो तो भा बैठो इन घाँसों में।

सफेदी है, सियाही हैं, शफ़क़ है, भयेवारा है ॥

## १६७

अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रो तु फान्तिप्रदः

शृंगारंकरसः स्वयं नु मदनो मासो तु पुष्पाकरः ।

येदाभ्यासजङ्घः पायं तु यिषयव्यायृत्तकौतूहलो

निर्मातुं प्रभयेन्मनोहरमिदं रथं पुराणो मुनिः ॥

**भावार्थः—**इस नायिका को रचते समय, अनुमान है कि ब्रह्मा या तो मनोहर कान्ति देने वाला चन्द्रमा हो गया था या शृंगाररस के एक-मात्र अधिष्ठाता कामदेव के रूप में हो गया था या पुष्पो से लदे हुए वसन्तऋतु का मनमोहक चैत्रमास हो गया था। अन्यथा वेदाभ्यास करते-करते जो नितान्त जड़ (नीरस) हो गया है और विषयों से जिसका मन हट गया है, ऐसा बूढ़ा नीरस ब्रह्मा, कहाँ से ऐसा सुन्दर मनोहर रूप गढ़ सकना था?

## १६८

अस्याद्वचेद्गतिसौकुमार्यमधुना हंसस्य गर्वेरलं  
संलापो यदि धार्यतां परभृतेवचिंयमत्वव्रतम् ।  
अंगानामकठोरता यदि दृष्टप्रायेव सा मालती  
कान्तिश्चेत्कमला किमत्र वहुना काषायमालभवताम् ॥

**भावार्थः—**यदि यह सुन्दरी अपनी सुकुमार गति से गमन करे, तो उसे देखकर हस अपनी चाल का गर्व सदा के लिए भूल जाय। यदि यह अपनी मधुर वाणी से सलाप करे, तो कोयल सदा के लिए मौनव्रत धारण कर ले। यदि इसके आगे की सुकुमारता को देखा जाय, तो इसकी तुलना में मालती लता भी पत्थर के समान कठोर मालूम पड़े। और यदि इसकी कान्ति को देखे तो लक्ष्मी भी लज्जा के मारे, सन्यास ग्रहण कर, भिक्षुणी बन जाय।

१६६

एव्यन्ति यावदगणनाद्विगत्तान्तृपाः  
स्मरात्ताः शरणे प्रवेष्टुम् ।  
इमे पदाब्जे विधिनापि स्टष्टा-  
स्तावत्य एवांगुलयोऽत्र रेखाः ॥

**भावार्थः**—दोनों पंरों में सब मिलाकर दश अगुलियाँ बयो हैं, इस पर दमयन्ती के बण्णन में महाकवि श्रीहर्ष वहते हैं—  
दशों दिशाओं से कामात्त राजा लोग इसके चरण-कम्बल में  
शरण पाने के लिए आयेंगे—इसी बात को बताने के लिए ही,  
मानो ग्रह्या ने इसके पंरों में अगुलियों के रूप में दश रेखाएं  
रोच दी हैं ।

१७०

सूचीमुखेन सकृदेव फृत्यग्णस्त्वं  
मुष्टाकलाप लुठसि स्तनयोः प्रियायाः ।  
वाणीः स्मरस्य शतत्रौ विनिफृत्तमर्मा  
स्वन्नेऽपि तां कथमहं न विलोकयामि ॥

**भावार्थः**—कोई वर्षि मरणों प्रियतमा के यथास्थल पर  
सउष्टते हुए मोतियों के हार को सम्बोधन वरणे रहा है—  
ऐ मुखाहार, तुम सिंह एक धार ही तुर्ई को जोन से छेदे पथे हो

और उसी के फलस्वरूप मेरी प्रियतमा के स्तनों पर लोट रहे हो। अरे ! हम तो सेकड़ों बार कामदेव के वाणों से मर्मस्थान में छेदे गये हैं, पर हमें तो वह स्वप्न में भी दिखाई नहीं देती ! ।

## यश और प्रताप

१७१

संग्रामाङ्गुणमागतेन भवता चापे समारोपिते  
देवाकरण्य येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् ।  
कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं  
तेन त्वं भवता च कीर्तिरतुला कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥

भावार्थ—किसी राजा की प्रशस्ता मे एक कवि कहता है—  
“हे राजन्, जब आप युद्ध के मैदान मे धनुपवाण लेकर आये  
और धनुप को आपने चढ़ाया तो सुनिये किस-किसने किसको-  
किसको पाया । धनुप ने बाणो को पाया, बाणो ने शशु के  
शिर को पाया, शिर ने पृथ्वी तल को पाया, पृथ्वी-मण्डल ने  
आपको पाया, आपने अतुल कीर्ति को पाया और कीर्ति ने तीनो  
लोको को पाया । सग्राम मे विजय पाने से आपकी कीर्ति तीनो  
लोको मे फैल गयी—इस बात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से  
वहा है ।”

१७२

हिमशिशिरवसन्तघ्रीष्मवर्षशिरत्सु  
स्तनतपनवनांभोहम्यंगोक्षीरपानैः ।

सुखमनुभव राजन् शत्रवो यान्तु नाशं  
दिवसकमललज्जाशर्वरोरेणुपंकः ॥

**भावार्थ** — किसी राजा को आशीर्वाद देना हुआ कवि कहता है—हे राजन् (१) हेमन्त, (२) शिशिर, (३) वसन्त, (४) ग्रीष्म, (५) वर्षा तथा (६) शरत् इन छहों क्रृतुओं से आप ब्रह्म से (१) स्त्रियों के स्तन, (२) सूर्य का धाम, (३) घन तथा वाग, (४) नदी तथा सरोवर का जल (५) ऊचे-ऊचे महल और (६) गौ का दुग्ध, इन वस्तुओं से क्रृतुओं के अनुसार सुख का अनुभव करें और आपके शत्रु क्रृतुओं के अनुसार यथाक्रम (१) दिन, (२) कमल, (३) लज्जा, (४) रात, (५) घूल तथा (६) पक के साथ-साथ नाश को प्राप्त हो ।

१७३

यथा यथा ते सुयशो विवर्द्धते  
सितां त्रिलोकीभिव कर्त्तुमुद्यतम् ।  
तथा तथा मे हृदयं विद्ययते  
प्रियालकालीधवलत्वर्णक्या ॥

**भावार्थः**—विसो राजा की प्रशारा में दोई कवि कहता है—हे राजन्, तीनों लोकों द्वारा देवता हुआ आपका यश जैसे-जैसे फेलता जा रहा है, वैसे-वैसे मेरे हृदय में शका बढ़ती जा जा रही है। शका यह है कि जब समस्त जगत् देवत हो जायेगा, तो वही मेरी प्रियतमा की अलवाङ्गी भी सफेद न हो जाय । तब मैं पर्या पर्हेणा, पर्ही मेरी चिन्ता है ।

१७४

देव त्वद्यशसि प्रसर्पति जगल्लक्ष्मीसुधोच्चैःश्रव-  
श्चन्द्रैरावतकौस्तुभाः स्थितिमिवामन्यन्त दुर्घाम्बुधौ ।  
किन्त्वेकः पुनरस्ति दूपणकणो यन्नोपयाति भ्रमा-  
त्कृष्णं श्रीः शितिकण्ठमद्रितनया नीलाम्बरं रोहिणी ॥

**भावार्थः**—किसी राजा को प्रशंसा में एक कवि कहता है—  
हे राजन्, आपका यश जगत् में फैलते हो चारों ओर श्वेत ही  
श्वेत हो गया और लक्ष्मी, सुवा, उच्चैःश्रवा घोडा, चन्द्रमा,  
ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि इत्यादि जितने पदार्थ समुद्रमन्थन  
से निकले थे, सब के सब फिर से अपना निवास क्षीर-सागर में  
समझने लगे । लेकिन इससे एक बात बड़ी खटकने वाली हो  
गयी—वह कि समस्त जगत् में श्वेत ही श्वेत हो जाने से,  
लक्ष्मी भ्रम से कृष्ण के पास, पार्वती जी नीलकण्ठ महादेव के  
पास और रोहिणी नीलबहस्त्रधारी बलदेव के पास नहीं जाती,  
क्योंकि आप के यश के प्रभाव से कृष्ण का शरीर, महादेव का  
कण्ठ और बलदेव का नीला वस्त्र सब का सब सफेद हो गया ।  
इससे लक्ष्मी इत्यादि को कृष्ण इत्यादि के बारे में भ्रम हो रहा  
है कि वे हमारे पति हैं या और कोई ।

१७५

त्वद्यशोजलधौ राजन् निमज्जनभयादिव ।  
सूर्येन्दुविम्बमिषतो धत्ते कुभद्वयं , नभः ॥

**भावार्थः—**किसी राजा को प्रशंसा में एक कवि कहता है—  
हे राजन्, तुम्हारे यश रूपी समुद्र मे कही दूब न जाऊँ, इस डर  
से आकाश, तरने के लिए, सूर्य-विष्व और चन्द्र-विष्व इन दो  
घड़ों को धारण किये हुए हैं। एक और सूर्य और दूसरी और  
चन्द्रमा ये दो घड़े हैं, जिन्हे आकाश, दूबने से बचने के लिए,  
अपने गले मे लटकाये हुए हैं।

१७६

राजस्त्वत्कोर्तिचन्द्रेण तिथयः पूर्णिमाः कृताः ।  
मद्गोहान्न बहिर्याति तिथिरेकादशी भयात् ॥

**भावार्थः—**एक भूख का सताया हुआ, कोई निर्धन कवि,  
किसी राजा से याचना करता हुआ कहता है—हे राजन्,  
आपके यश रूपी चन्द्रमा का प्रकाश चारो ओर फैलने से कही  
अन्धकार नही रहा और जितनी तिथियाँ थीं सब पूर्णिमा हो  
गयीं। परन्तु मेरे घर से एकादशी डर के मारे नही जाती अर्थात्  
मेरे घर में तो सदा एकादशी ही बनी रहती है। अन्न न होने से  
मेरे घर मे सब को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए कुछ दीजिए—  
इस बात को कवि ने कैसे व्यंगात्मक रूप से कहा है।

१७७

सरस्वती स्थिता वयत्रे लक्ष्मीवैश्मनि ते स्थिता ।  
कीर्तिः कि कुपिता राजन्येन देशान्तरं गता ॥

**भावार्थः—**किसी राजा की कीर्ति दिग्दिगान्तर में फैली

हुई है, इस बात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से कहा है—हे राजन्, सरम्बती आपके मुख में वसी हुई है और लक्ष्मी आपके घर में ठहरी हुई है। पर क्या कारण है कि आपकी कीर्ति आपसे रुठ कर दूर-दूर के देशों में चली गयी है ?

## १७८

**त्वत्कीर्तिराजहंस्या वैरिवधूवदनभाजनस्थमपि ।**

**पोतं हासक्षोरं व्यवतीकृतमश्रुनोरं च ॥**

**भावार्थ—**—विसी राजा की प्रशसा में कवि कहता है—हे राजन्, राजहस का नीरक्षीर विवेक आपके, सम्बन्ध में पुणरूप से चरितार्थ होता है। आपकी कीर्ति रूपी राजहसी ने, आपके शशुष्रो की रानियों के मुख रूपी पात्र में रखे हुए, हास रूपी दूध को तो पी लिया और याँसू रूपी नीर को छोड़ दिया। आपके द्वारा जीते गए शशुष्रो की रानियाँ रो रही हैं और उनका हँसना-बोलना सब लोद हो गया है, इस बात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से कहा है।

## १७९

**कीर्तिस्वर्गंतरगणोभिरभितो वैकुण्ठमाप्लावितं**

**क्षोणीनाथ तव प्रतापतपनेः सन्तापितः क्षोरधिः ।**

**इत्येवं दयितायुगेन हरिणा त्वं याचितः स्वाश्रयं**

**हृत्पद्मं हरये श्रिये स्वभवनं कण्ठं गिरे दत्तवान् ॥**

**भावार्थः**—एक कवि किसी राजा की प्रशस्ता में कहता है—पृथ्वीनाथ, आपकी कीर्ति रूपी स्वर्गगगा की बाढ़ में, वैकुण्ठ विलकुल झूब गया और क्षीरसागर भी आपके प्रताप रूपी सूर्य के ताप से सन्तापित हो गया। अतएव विष्णु भगवान् के लिए, जो या तो वैकुण्ठ में रहते थे या क्षीरसागर में, अब रहने के लिए कोई ठोर न रह गया। तब उन्होंने अपनी दोनों स्त्री, लक्ष्मी और सरस्वती, सहित आपसे रहने के लिए स्थान मागा। जिस पर आपने विष्णु भगवान् को अपना हृदय रूपी कमल, लक्ष्मी को अपना भवन और सरस्वती को अपना कण्ठ रहने के लिए दे दिया। आपके हृदय में विष्णु भगवान् का, आपके घर में लक्ष्मी का और आपके मुख में सरस्वती का वास है—इस बात को कवि ने कौसे अनोखे छग से कहा है।

१८०

किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किन्तु नाहं समर्थ-  
स्तूष्णैः स्थातुं प्रकृतिमुखरो सत्कृतीनां स्वभावः ।  
गेहे गेहे विषणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ट्या-  
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतो बल्लभा देव कीर्तिः ॥

**भावार्थः**—एक कवि किसी राजा के पास जाता है और उस के यश का वर्णन करता हुआ कहता है—महाराज, किसी के घर का छिद्र कहने से मेरा कोई मतलब नहीं है। पर मैं क्या करूँ, कवियों का यह स्वभाव होता है कि वह चुप नहीं रह सकते, अतएव बहना पड़ता है कि आपकी कीर्ति कैसी उच्चतरता

हो गयी है कि घर मे नहीं बैठती। घर-घर मे, बाजारो मे, चौराहो पर, यहाँ तक कि मधुशालाओ (मदिरालयो) मे भी, जहाँ लोग शराब पीते हैं, उन्मत होकर धूम रही है। आप की कीति चारो ओर फँलो हुई है, इस बात को कवि ने कैसे अनोखे ढग से कहा है।

### १८१

अत्युन्नतेस्ते यशसां प्ररोहैर्जतिं सितं विश्वमिदं समस्तम् ।  
नोचेत्करंगाः सितदेहरंगा द्वीपान्तरे द्वृहि कथं विभान्ति ॥

**भावार्थः—**एक राजा के यश की प्रशंसा मे कवि कहता है—हे राजन्, आपके उन्नत और निरन्तर बढ़ते हुए यश का जैसे-जैसे विस्तार होता गया, वैमे-वैसे समस्त सकार श्वेत होता गया। यदि यह बात नहीं है तो आप ही बताइये, इगलैण्ड, योरप, अमेरिका आदि देशो मे जो ये सफेद रंग के लोग दिखाई पड़ते हैं, वे वहाँ कैसे दिखाई पड़ते। आप ही के यश की कृपा से वे सफेद हो गए हैं।

### १८२

महाराज श्रीमन् जगति यशसा ते घबलिते

पयःपारावारं परमपुरुषोऽयं मृगयते ।

कपर्दी कैलाशं सुरपतरपि स्वं करिवरं

कलानाथं राहुः कमलभवनो हंसमधुना ॥

**भावार्थः—**जोई कवि किसी राजा के यश का वरण करता

हुआ कहता है—महाराज, आपके निमंल, श्वेत यश के प्रभाव से समस्त संसार श्वेत-ही-श्वेत हो गया। उस अवस्था में जितनी श्वेत वस्तुएँ थीं वह श्वेत रग में ढक गयीं। श्वेत और श्वेत में कोई अन्तर नहीं रहा। अतएव भ्रम में पढ़कर भगवान् विष्णु अपने क्षीर-सागर को, महादेव जी अपने कैलाश को, इन्द्र अपने श्वेत ऐरावत को, राहु चन्द्रमा को, ब्रह्मा जी अपने श्वेत हस को ढूँढ रहे हैं कि कहाँ गया।

## १८३

मेघो भाति जलेन गौस्तु पयसा विद्वन्मुखं भापया  
तारुण्येन च कामिनो मधुरया वाण्या पिकः खं जलात् ।  
मालिन्यान्नयनं श्रिया च सदनं ताम्बूलरागान्मुखं  
ब्रह्माण्डं सकलं त्वया नरपते भाति स्म चित्रं महत् ॥

**भावार्थः—**किमी राजा की प्रशंसा में एक कवि कहता है— हे राजन्, मेघ की शोभा वर्षा से होती है, गाय की शोभा उसके दूध से होती है, विद्वान् के मुख की शोभा उसकी वाणी से होती है, स्त्री की शोभा उसकी तरहाई से होती है, कोयल की शोभा उसकी मधुर वोली से होती है, आकाश की शोभा जल से होती है, नेत्रों की शोभा काजल से होती है, सदन की शोभा धन से होती है, अधर की शोभा पान की लाली से होती है, पर समस्त जगत् की शोभा केवल आप से होती है।

## १८४

आपुवृद्धिमुपेतु ते नरपते हेमन्तरात्रियथा  
 लोकानां प्रियवर्धनो भव सदा हेमन्तसूर्यो यथा ।  
 लोकानां भयवर्धनो भव सदा हेमन्तसोयं यथा  
 नाशं यान्तु तवारयोऽपि सततं हेमन्तपद्मं यथा ॥

**भावार्थः—**हेमन्त ऋतु में कोई विकासी राजा के पास जाकर, हेमन्त ऋतु का चरणन करता हुआ, राजा को अशोर्वाद देता है—हे राजन्, आपकी आयु उसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती है, आप लोगों को वैसे ही प्रिय हो जैसे कि हेमन्त का सूर्य (धाम) लोगों को प्रिय होता है, आप का प्रताप लोगों को वैसा ही भयदायक हो, जैसा कि हेमन्त ऋतु में जल लोगों को भयदायक होता है, और आपके दानु उसी तरह नाश को प्राप्त हों, जिस तरह कि हेमन्त ऋतु में कमल नाश को प्राप्त होता है ।

## १८५

अर्धं दानववैरिणा गिरिजयाऽप्यर्धं हरस्याहृतं  
 देवेत्यं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति ।  
 गंगा सागरमस्यरं दाशिकला शोपहच पृथ्वीतलं  
 सर्वज्ञत्वमघोशवरत्वमगमस्वां मां च भिक्षाटनम् ॥

**भावार्थः—**विसी राजा के पास जाकर एव विकृद्धि पाने-

की लालसा से उमकी प्रशंसा में कहता है—हे राजन्, भगवान् महादेव का आधा भाग तो विष्णु भगवान् ने ले लिया और आधा भाग पावती नै। इस प्रकार जब महादेव जी विलकुल लोप हो गये, उनका अस्तित्व ही न रहा, तो जो जो उन पर निर्भर थे, वे निराधार हो कर अन्यन चले गये। जैसे कि उनको जटा में रहने वाली गगा समुद्र में चली गयी और चन्द्रमा की कला आकाश में चली गयी। शेषनाग जो उनके गले का हार था, पाताल में चला गया। उनकी सर्वज्ञता और अधीश्वरता आपके पास आ गयी। परन्तु जो उनका मिक्षाटन (दर दर भीख मारना) था वह मेरे पास आ गया। अर्थात् मैं याचक होकर आया हूँ, मुझे कुछ दीजिये, इस बात को कवि ने कौसे अच्छे ढंग से कहा है।

### १८६

एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र  
देव द्विषां च विदुषां च सृगोदृशां च ।  
तापं च संमदरसं च र्ति च पुष्णन्  
शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलधा च ॥

**भावार्थः—**कोई कवि नहीं राजा की प्रशंसा में कहता है—हे राजन्, आप हैं तो एक, पर तीन जगह अर्थात् शत्रुघ्नों के हृदय में, विद्वानों के हृदय में तथा मृगनयनी स्त्रियों के हृदय में, अलग-अलग निवास करते हैं, यह एक बड़ी विचित्र बात है। शत्रुघ्नों के हृदय में आप अपनी दीरता की गर्भ से ताप, विद्वानों के हृदय में आप अपने विनयगुण से हृपं प्रीर युवतियों के हृदय

मेरा प्राप्त अपनी रतिलीला से शुगार रस, एक साथ उत्पन्न करते हैं—यह एक अनोखी घटना है।

### १८७

तुलाधारो धाता यहति वसुधा शूर्पपदवीं  
फणीशः स्यात्सूत्रं कनकशिखरो मानपत्तिका ।  
तुलादण्डः सत्यं यदि भवति दामोदरगदा  
तथाप्येषोऽशब्दयस्त्व गुणसमूहस्तुलयितुम् ॥

**भावार्थ—**—किसी राजा की प्रशस्ता मेरे एक कवि कहता है—  
हे राजन्, यद्युपा यदि तीलने वाला हो, समस्त पृथ्वी यदि उस  
तराजू का पलडा हो, शेषनाग यदि उस तराजू की ढोरी हो,  
सुमेरु पर्वत उस तराजू का बटखरा हो और भगवान् विष्णु की  
गदा उस तराजू की डडी हो—तब भी म्राप्ते गुणों के समूह  
को तीलना असम्भव है।

### १८८

निजानपि गजान् भोजं ददानं प्रेक्ष्य पावंती ।  
गजेन्द्रवदनं पुनं रक्षत्यद्य पुनः पुनः ॥

**भावार्थ—**—राजा भोज की उदारता की प्रशस्ता मेरे एक कवि  
कहता है—राजन्, मन्य हायियो वो तो वात ही क्या है, राजा  
भोज को स्वयं अपने ही हायियो वो दान मे देते देख बर  
पावंती जो अपने हाथों के मुस वाले पुन गणेश की रक्षा वहे  
च्छान से बर रहो हैं, यदोकि उन्हे बर है कि राजा भोज वही

उसे भी किसी याचक को न दे डालें। इसी भाव को लेकर पद्माकर ने नीचे दिया पद्य राजा रघुनाथ राव पेशवा को प्रशंसा में लिखा था—

सम्पति सुमेर की कुवेर की जो पावै कहौं  
तुरत लुटावत विलम्ब उर धारै ना ।  
कहे पद्माकर सुहेम हाय हाथिन के  
हलके हजारन को वितर विचारै ना ॥  
गज गज वक्स महीप रघुनाथ राउ  
याही गज धोखे कहौं तोहि दई ढारै ना ।  
यातें गोरि गिरिजा गजानन को गोय रही  
गिरि ते गरे ते निज गोद ते उतारै ना ॥

### १८८

तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमी  
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा ।  
तनोति भानोः परिवेषकं तवातदा  
विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥

**भावार्थ** —नल के यश और प्रताप का वर्णन करते हुए महाकवि श्री हर्यं अपने नैषध-चरित में लिखते हैं—“नल के यश और प्रताप के रहते हुए, फिर सूर्य और चन्द्रमा की क्या आवश्यकता है, उनका रहना व्यर्थ है, इनको मैंने व्यर्थ ही बनाया है”—इस प्रकार ब्रह्मा जी जब-जब अपने मन में सोचते हैं, तब-तब वे सूर्य के चारों ओर तथा चन्द्रमा के चारों ओर

एक परिधि या मण्डल रेखा खीच देते हैं। इसीलिए कभी सूर्य और कभी चन्द्रमा के चारों ओर एक परिधि या गोल रेखा खिची हुई दिखाई देती है। ऐसा कभी-कभी ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा के मन में जब-जब ऐसा विचार उठता है, तभी-तभी यह बात दिखाई देती है, सदा नहीं। प्राचीन परिपाटी के अनुसार जब भूल से कोई अक्षर अनावश्यक या व्यर्थ लिख दिया जाता था, तो लिखने वाला यह दिखाने के लिए कि यह व्यर्थ है, उस अक्षर के चारों ओर एक गोल रेखा खीच देता था। इसी प्रकार ब्रह्मा भी सूर्य और चन्द्रमा के चारों ओर गोल रेखा कभी-कभी खीच देते हैं।

## कवि और काव्य

१६०

जपन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ।  
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणं भयम् ॥

**भावार्थः**—नवो रस जिनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ऐसे रसिक, सुकृती महाकवियों को जय हो, जिनका भौतिक शरीर तो नाश हो जाता है, पर यश स्पी शरीर सदा अजर और अमर बना रहता है। इसी भाव का एक उद्दृश्य शेर भी है—  
रहता सखुन से नाम कथामत तलक है जौक ।  
ओलाद से बस यही दो पुश्त चार पुश्त ॥

१६१

जानीते यन्न चन्द्राकाँ जानन्ते यन्न योगिनः ।

जानाते यन्न भर्गोऽपि तज्जानाति कविः स्वयम् ॥

**भावार्थः**—जिसको सूर्य और चन्द्रमा भी नहीं जानते, जिस को योगी लोग भी नहीं जानते, जिसको स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते, उसको कवि साक्षात् जान लेता है ।

१६२

नान्द्रीपयोधर इवातितरां निगूढो  
नो गुर्जरीस्तन इवातितरां प्रकाशः ।

अर्थो गिरामविहितः पिहितश्च कश्चित्  
सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः ॥

**भावार्थः** — व विता का भाव न बहुत गूढ होना चाहिए और न बहुत प्रगट, इसी भाव को कवि ने इस श्लोक में घडे सुन्दर ढग से प्रगट किया है— काव्य का अर्थ न तो आनंद प्रदेश की स्थियों के पयोधर वे समान, विलकुल गूढ या छिपा हुआ होना चाहिए और न गुजंर प्रदेश की स्थियों के स्तनों के समान, विलकुल प्रगट ही होना चाहिए। चल्क महाराष्ट्र प्रदेश की स्थियों के कुचों के समान, कुछ गूढ और कुछ प्रगट होकर, व विता का अर्थ शोभा देता है। इसी भाव का एक दूसरा श्लोक भी नीचे देखिए।

१६३

कूर्पासकेनाधर्तिरोहितो कुचौ  
रम्यो रमण्याः कविताक्षराणि च ।  
श्रद्धं निगृदानि सुशोभितान्यलं  
नात्पन्नत्यगृदानि न वा स्फुटान्यपि ॥

**भावार्थः**—चोलों से ढवे हुए वामिनी के कुच और विता के ग्रस्तर तभी शोभा देते हैं, जब वे कुछ छिपे और कुछ खुले रहते हैं। विलकुल ढवे अथवा विलकुल मुले शोभा नहीं देते। इसी श्लोक का, हिन्दी के विसी ववि ने, मन्द्या अनुवाद इस दोहे में विया है—

कवि आखर अरु तिय सुकुच, अध उधरे सुख देत ।  
अधिक ढकेहू सुखद नहिं, उधरे महा अहेत ॥

## १६४

सत्कविरसनाशूपीनिस्तुपतरशब्दशालिपाकेन ।  
तृप्तो दयिताधरमपि नोद्रियते का सुधा दासी ॥

**भावार्थः—**अच्छे कवियों की वाणी रूपी सूप से पछोडे गए (चुन-चुन कर कविता मे रखे गए) शब्द रूपी चावल के पाक (पुलाव) से जिनकी तृप्ति हो गई है, ऐसे रसिक पाठक दयिता (प्रियतमा) के अधर का भी आदर नहीं करते, फिर बेचारी सुधा (अमृत) की तो बात ही क्या है । अमृत भी सरस कविता के आगे हेच है ।

## १६५

कविता वनिता चैव स्वयमेवागता वरम् ।  
बलादानीयमाना तु सरसा विरसा भवेत् ॥

**भावार्थः—**कविता तथा वनिता (स्त्री) स्वय आ जाय, खीचा-तानो न करनी पडे, तभी अच्छी है । और यदि बलपूर्वक जबर्दस्ती लायी जाए, ताहे वह कविता हो या वनिता, तो सरस भी होगी तो नीरस हो जाएगी । कविता वही अच्छी है जो स्वाभाविक और प्रसादमुण-विशिष्ट हो । बलपूर्वक शब्दों को जोड़-जाड कर बनायी गई कविता मन को हरने वाली नहीं होती ।

१६६

तथा कवितया कि वा तथा वनितया च किम् ।  
पदविन्यासमात्रेण यथा नापहृयते मनः ॥

**भावार्थ :**—उस वनिता (कामिनी) से वया जो अपने पदविन्यास (अठखेली चाल) से ही देखने वालों का मन न हर ले। उसी प्रकार उस कविता से वया जो पदविन्यास (शब्दों की रचना) मात्र से ही सुनने या पढ़ने वाले का मन न हर ले। “पद” शब्द में उत्तम इलेप है। पद का अर्थ “चरण” तथा “शब्द” दोनों है।

१६७

कान् पृच्छामः सुराः स्वर्गे निवसामो वर्यं भुवि ।  
कि वा काव्यरसः स्वादुः कि वा स्वादीयसी सुधा ॥

**भावार्थः**—देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं और हम पृथ्वी पर रहते हैं। फिर किससे पूछे कि काव्य का रस अधिक स्वादिष्ट है या अमृत अधिक स्वादिष्ट है?

१६८

सुभाषितं हारि विशत्यधोगलान्न दुर्जनस्यार्करिषो  
त्रिवामृतम् ।  
तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्नमिवत्तिनिमंलम् ॥

**भावार्थः—**सुभाषित (सुन्दर काव्य) दुर्जन के गले के नीचे उसी तरह नहीं उतरता, जिस तरह कि समुद्र-मन्थन के बाद निकला हुआ अमृत राहु के गले के नीचे नहीं उतरा था। उसी सुभाषित को सुनकर सज्जन लोग इस प्रकार अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, जिस प्रकार कि विष्णु भगवान् ने कौस्तुभ मणि को अपने हृदय पर धारण कर लिया था। जिस सुन्दर काव्य की प्रशस्ता करने में दुष्टजन ईर्षा या द्वेष वदा मौन रहते हैं, मानो उनको जोभ पर लकड़ा लग गया हो, उसी की प्रशस्ता रसिक सज्जन जी खोलकर करते हैं।

१६६

दुर्जनहुताशादग्धं काव्यसुवर्णं विशुद्धिमुपयाति ।  
दर्शयितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयत्नेन ॥

**भावार्थः—**काव्यस्पी सोना दूर्जन और ईर्षालु समालोचकों को ईर्षालिपों प्रग्नि से तपवर, और भी शुद्ध हो जाता है तथा चमकने लगता है। इसलिए अपने रचे हुए काव्य को प्रयत्न-पूर्वक ईर्षालु लोगों के सम्मान रसना चाहिए।

२००

अतिरमणीये काव्येऽपि पिशुनो दूषणमन्वेष्यति ।

अतिरमणीये वयुषि द्रग्मेव हि मक्षिकानिकारः ॥

**भावार्थः—**काव्य किनना ही सुन्दर क्यों न हो, किन्तु दिक्षान्वेषी दुष्ट मनुष्य उसमें वेवल दोष हो देंदता है, जिस

प्रकार कि शरोर कितना ही सुन्दर क्यों न हो, किन्तु मविषयाँ  
वही बेठती हैं, जहाँ धाव होता है ।

## २०१

स एव रसिको लोके श्रुत्वा काव्यं परः कृतम् ।  
उत्पद्यते च युगपद्वदनेऽक्षणोऽच यस्य “वाः” ॥

**भावार्थः**—ससार में वही असली रसिक है, जो दूसरों के  
द्वारा रचे गए सुन्दर काव्य को सुनकर, आनन्द से विभीर हो  
जठे और सुनते ही जिसके मुख से “वाह्” और आँखों से आनन्द  
के आँसू एक साथ निकल पड़े । “वा” शब्द में दलेष है—“वाः”  
माने “वाह्” और “जल” दोनों हैं ।

## २०२

हठादाकृष्टानां कर्तिपयपदानां रचयिता  
जनः स्पधलिश्चेदहह फविना वश्यवचसा ।  
भवेदद्य इवो वा किमिह वहुना पापिनि कलो  
घटानां निमत्तिस्त्रभुवनविधातुऽच कलहः ॥

**भाषार्थः**—यही योचातानी के बाद युद्ध पदों की रचना करने  
याता मनुष्य, यदि ऐसे नवियों के साथ चरावरी वा दावा करे,  
जिनके सामने याणी हमेशा हाथ जोड़े रही रहती है, तो इस  
पापी पति यात मे सब कुछ भम्भव है । ऐसी होड में, आज हो  
या गल, किसी दिन पढ़ो के यनाने याता बुभवार भी तीनों  
सोसो के यनाने याते ग्रहुआ यी चरावरी वा दावा कर नवना

है। वयोकि निर्माण दोनो ही करते हैं। ब्रह्मा तोनो लोको की रचना करता है तो वया हुआ, कुंभकार भी तो घड़े का निर्माण करता है।

## २०३

यस्याश्चोरश्चिकुरनिकरः कण्ठपूरो मयूरो  
 भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ।  
 हर्षो हर्षो हृदयवसर्तिः पञ्चवाणस्तु वाणः  
 केषां नैषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय ॥

**भावार्थ**—चोर नामक कवि जिसका वेशभार है, मयूर कवि जिसका कण्ठपूर (इयररिग) हैं, भास कवि जिसकी मृदु मुस्कान है, कविकुलगुरु (कवियो में थ्रेट) कालिदास जिसके विलास (हाव-भाव) है, श्रीहर्ष कवि जिसका हर्ष है, वाण कवि जिसके हृदय में बसने वाला कामदेव है—ऐसी कविता रूपी कामिनी वताथो, कौन ऐसा है जिसको आनन्द न देगी।

## २०४

नैव व्याकरणज्ञमेति पितरं न भ्रातरं तार्किकं  
 द्वरात्संकुचितेव गच्छति पुनश्चाण्डालवच्छान्दसम् ।  
 भीमांसानिपुणं नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादरा  
 काव्यालंकरणमेत्य कविताकान्ता वृणीते स्वयम् ॥

**भावार्थ**—कवितारूपी कामिनी वेयाकरण (व्याकरण के

पण्डित) को पिता के समान समझकर, उसके पास आती ही नहीं, नैथायिक (न्याय के विद्वान्) को अपना भाई समझतो हैं, उसके पास भी आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, छान्दस (कोरेवेदपाठी विद्वान्) को चाण्डाल के समान दूर से ही बकृतो हैं, मीमांसक (मीमांसा शास्त्र के विद्वान्) को नपुंसक समझकर निरादर बरतो हैं, परन्तु वाय्य के मर्मज्ञ, अलकार शास्त्र के पण्डित को स्वयं आकर बरण करती है।

## २०५

सरसो विपरीतश्चेत् सरसत्वं न मुच्चति ।  
साक्षरा विपरीताश्चेद्राक्षसा एव केवलम् ॥

भावार्थ—‘सरस’ को यदि उलट दो तो ‘सरस’ ही बना रहता है, अपनी सरसता नहीं छोड़ता। परन्तु कोरे ‘साक्षर’ की, जिसमें रसिकता छू भी नहीं गयी है, यदि पलट दो तो वह केवल ‘राक्षस’ हो जाता है।

## कवियों की गर्वोक्ति

२०६

विद्वांसो वसुधातले परवचःश्लाधासु वाचयमाः  
भूपालाः कमलाविलासमदिरोन्मीलन्मदाधूर्णिताः ।  
आस्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालस-  
स्त्रवर्माधरमाधुरीमधरयन् वाचां विलासो मम ॥

**भावार्थः**—इस पृथ्वीतल पर जो कवि और विद्वान् हैं, उनका हाल यह है कि जब किसी दूसरे कवि के काव्य की प्रशंसा का समय आता है तो मौन धारण कर लेते हैं, उनके मुख से किसी की प्रशंसा निकलती ही नहीं। जो धनी और राजा लोग हैं, उनकी आँखें लक्ष्मी के विलास की मदिरा पोने से मतवाली हो रही हैं, उनको कविता का मानन्द नेने और उसका रसास्वादन करने को योग्यता और फुर्सत ही कहा ? तब वदाओ, स्वर्ग की अप्सराओं के अधर की मिठास को भी मात करने वाली मेरी वाणी (कविता) का विलास किसके मुख में नर्तन करेगा ? कौन मेरी कविता को कदर करेगा ? यह गर्वोक्ति पण्डितराज जगन्नाथ की है। इसका हिन्दी पदानुवाद एक कवि ने इस प्रकार किया है—

ऐसे भूमि भण्डल मे पण्डित अनेक हैं जो ,  
दूजे की प्रशंसा करिवे में दुख पावे महा ।

भूप हैं कितेक जाको लच्छमी विलासवती ,  
मद्य के नशे तै सदा दोऊ नैन धूमि रहा ।  
हाय ! अब कौन धन्य जन है जगत बीच ,  
जाके मुख मन्दिर मे करिहें उजास जहाँ ।  
काम अलसानी देवतानी की सुमाधुरी को ,  
नोच करि वानी मम करिहे विलास कहाँ ॥

## २०७

यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणो  
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नैव कुरुते ।  
मदुकितश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः  
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरः ॥

**भावार्थः**—कितनी ही सुन्दर स्त्रो क्यो न हो, वह जिस प्रकार युवा के हृदय को अपनी ओर खोच लेती है, उसो प्रकार कुमारो (वालको) के हृदय को आवर्दित नही करनी । इसी तरह मेरी कविता। यदि सहृदय विद्वानो के हृदय मे सुधा के समान आङ्गाद उत्पन्न करती है, तो फिर नीरस पुरुष उसका अनादर भो करे, तो उससे क्या ? यह एक कवि की गार्दीकित है ।

## २०८

दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डाः करटिनः  
करिष्यः कारुण्यास्पदमस्मशीलाः खलु मृगाः ।

इदानीं लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं  
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन् मृगपतिः ॥

**भावार्थ** —अपनी बराबरी का कोई कवि इस समय नहीं है, जो हैं भी वे एकाध कही पढ़े होंगे, इस भाव को प्रकट करती हुई यह पण्डितराज जगन्नाथ की गर्वोवित है—ऐसा सुना जाता है कि जिनके गण्डस्थल से मद चूँ रहा है, ऐसे मतवाले दिग्गज हाथी दिशाओं के द्वारा मे वही निवास करते हैं। रह गयो हथनिया, उनसे क्या बराबरी ? वे तो बरुणा की पात्र हैं। मृगों से भी क्या तुलना ? वे अपनी बराबरी के नहीं हैं। ऐसी दशा मे बताओ, मृगराज सिह इस समय ससार मे अपने अनोखे और नोसीले नखों का पाण्डित्य (तीखापन) किस पर प्रगट करे ? इसका हिन्दी मे पद्यानुवाद किसी कवि ने इस प्रकार बिया है—

भाजि दिग्न्त गये डरिक वर दीर गयन्द सर्व मतवारे,  
दीन बड़ी हरणी वरणी तिनको मुविलोऽि दया उर धारे।  
“विप्रमुच्नद” भली उपमा तिनकी दिसरात नहो जगसारे,  
तीखनता अपने नख को प्रगटावं वहा मृगराज विचारे ॥

## २०६

निन्द्यन्ते यदिनाम मन्दमतिभिर्वक्षाः कवोनां गिरः  
स्तूपन्ते न च नीरसंमृगदृशां वक्षाः कटाक्षच्छटाः ।  
तद्वैदर्व्यविदां सतामपि मनः कि नेहते वक्रतां  
घत्ते कि न हरः विरोटशिखरे वक्षां कलामन्दवीम् ॥

**भावार्थः—**यदि मन्दमति मूर्खं लोग विद्यो की वक्र वाणी (ध्वन्यात्मक सरस अनोखे काव्य) की निन्दा करें अथवा नीरस (अरसिक) जन मुग्नयनियों के वक्र (तिरछे) और अनोखे वटाशों को छड़ा वी प्रशंसा में बाहु बाहु न चरें, तो इससे क्या ? परन्तु जो रसिक और गुणग्राही हैं, क्या उनका मन इस वक्रना (व्यग्रात्मक काव्य) से मोहित नहीं होता ? पर्यामहादेव जी स्वयं वक्र (टेढ़े) चन्द्रमा वी वसा को अपने शिर पर धारण नहीं भरते ? “वक्र” शब्द में इलेष है—वक्र वा अर्थ देवा और व्यग्रपूर्ण (ध्वन्यात्मक) दोनों हैं ।

## २१०

ये केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां  
जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः ।  
उत्पत्त्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा  
कालो ह्यपं निरवधिविपुला च पृथ्यो ॥

**भावार्थः—**यदि इम सायार में कोई ऐसे हैं, जो मेरी प्रवज्ञा परते हैं—मेरी विद्या या प्रनादर परते हैं और मुझे तुच्छ समझने हैं, तो ये जान सें कि नाटक या विद्या निश्चय ना मेरा यह प्रयास उन्हें लिए नहीं है । यह पृथ्यो यदी विमृत है और यात या भी कोई पोर-द्योर नहीं है । कहीं न कहीं और अभी न पभी, तो मेरे समान शोल और स्वभाव याना मनुष्य पैदा होगा और मेरी नादर परेगा । यह गर्वोक्ति महाविभव-भूति को है ।

## कामदेव की विचित्र महिमा

२११

स जयति संकल्पप्रभवो रतिमुखशतपत्रचुम्बनभ्रमरः ।  
यस्यानुरक्तललनानयनान्तविलोकने वसतिः ॥

**भावार्थः**—उस कामदेव की जय हो, जिसका जन्म ही अद्भुत है अर्थात् जो व्रह्मा के सकल्पमात्र से उत्पन्न हुआ है, जो रति के मुख-रूपी कमल का चुम्बन करने वाला भ्रमर है और जिसका निवासस्थान भी विलकुल अनोखा है, अर्थात् जो मद से मतवाली कामिनी स्त्रियों की तिरछी चितवन में निवास करता है ।

२१२

शंभुस्वयंभुहरयो हरिणेकणानां  
येनाक्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः ।  
वाचामगोचरचरित्रविचित्रताय  
तस्मै नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥

**भावार्थः**—जिसने महादेव, व्रह्मा और विष्णु को भी मृग-नयनियों के घर का निरन्तर दास बना दिया है और जिसके चरित्र की विचित्रता वाणी के वर्णन से परे हैं, उस भगवान्-कुसुमायुध कामदेव को नमस्कार है !

२१३

अवलानां दृश्वाशु यो निहन्ति बलोयसः ।  
तस्मं कुसुमवाणाय नमो लोकोत्तरौजसे ॥

**भावार्थः—**“अवला” कही जाने वाली मृगनयनियों की एक तिरछो हृषि से ही, जो बड़े से बड़े बली लोगों को तत्काल मार सकता है, उस कुसुम-वाण, लोकोत्तर वलशाली, कामदेव को नमस्कार है !

२१४

प्रज्ञां विनाशयत्यादौ प्रविष्टो हृदि मन्मथः ।  
दक्षो गेहं समायाति दीपं निवर्ण्य तस्करः ॥

**भावार्थः—**जब कामदेव किसी के हृदय में अपना घर करने लगता है, तो सबसे पहले उसको बुद्धि को हरकेना है । ठीक है, चोर जब किसी के घर में घुसता है तो पहले उस घर के दीपक को बुझा देता है । इसी भाव का फारसी का एक शेर भी है—

इश्क चू दरसीना आमद अल्करा अब्बल रखूद ।  
दुजदे दाना वर कुनद अब्बल चिरागे खानेरा ॥

२१५

नासौ जयी जितो येन नक्रव्यालमृगाधिपाः ।  
जितं तेनैव येनेह दान्तो मारस्त्रोकजित् ॥

**भावार्थः—**वास्तव में विजयी वह नहीं है, जिसने घड़ियाल,

सर्वं अथवा सिंह को जीत लिया है। सच्चा विजेता तो वही है जिसने तीनों लोकों को जीतने वाले कामदेव को अपने वश में बर लिया है। इसी भाव का उद्दृश्य का एक शेर भी है—

नेहगो अजदहामो शेरेनर मारा तो वया मारा ।

बड़े मूँजी को मारा नफ्से अम्मारा को गर मारा ॥

### २१६

तावदेव कृतिना हृदि स्फुरत्येष निर्मलविवेकदीपकः ।  
यावदेव न कुरुंगचक्षुषां ताङ्घते चपललोचनाचलैः ॥

**भावार्थ**.—बड़े-बड़े गम्भीर, यशस्वी, विद्वानों के हृदय में निर्मल विवेक का दीपक तभी तक जलता रहता है, जबतक कि वह मृगनयनी स्त्रियों के चंचल नेत्र रूपी आँचल से बुझाया नहीं जाता।

### २१७

एकं वस्तु द्विधाकर्त्तुं बहवोऽन्येऽपि धन्विनः ।  
तादृशः पुनरेको यो द्वयोरेक्यविधायकः ॥

**भावार्थ**—ऐसे तो बहुत से धनुधर्ती हीं, जो एक के दो टुकड़े कर देते हैं। पर कामदेव रूपी कोई अनोखा धनुधर्ती है, जो दो (प्रियतम और प्रियतमा) को एक (प्रेम) में जोड़ देता है।

### २१८

अबला इत्यवज्ञेया न कदापि विवेकिभिः ।  
त्रैलोक्यं यददृशा दासः स्थात्तन्निर्बंलता कुत् ॥

**भावार्थः—**विवेको पुरुषो को स्त्रियों की अवज्ञा “प्रदला” समझकर कभी नहीं करनी चाहिए। अरे! जिन्होंने तीनों लोकों को अपने कटाक्ष मात्र से अपना दास बना लिया है, वे “अवला” (बलहीन) कैसे कहीं जा सकती हैं?

२१६

हारो जलाद्र्वसनं नलिनीदलानि  
प्रालेयसीकरमुचस्तुहिनांशुभासः ।  
यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि  
निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवाग्निः ॥

**भावार्थः—**फूलों का हार, जल से भीगा हुआ कपड़ा, कमल के पत्ते, हिम की वर्षा करने वाली शीतल चन्द्रमा की चान्दनी और सरस चन्दन जिसके ईन्धन है, वह कामदेव की अग्नि कैसे बुझ सकती है? अन्य दूसरी अग्नि तो गीले ईन्धन से बुझ जाती है, पर कामदेव की आग विचित्र है, जो इन गीली और सरस चीजों से और भी प्रज्वलित होती है।

२२०

हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मरागनो  
उचितमनुचितं वा वेत्ति नो पण्डितोऽपि ।  
किमु कुवलयनेत्राः ; सन्ति नो नाकनार्य-  
स्त्रिदशपतिरहल्यां, तापसीं यः सियेवे ॥

**भावार्थः—**जब हृदय रूपी फूस की झोपड़ी में कामदेव को

अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो क्या उचित है क्या अनुचित, यह बड़े से बड़े पण्डित भी नहीं समझ सकते। देखो, स्वर्ग में कमलनेत्र वाली सुन्दर से सुन्दर अप्सरायें क्या नहीं थीं, तब भी इन्द्र ने तपस्त्रिनी ऋषि-पत्नी अहल्या को नहीं छोड़ा?

## २२१

मत्तेभकुम्भदलने बहु सन्ति सूराः  
केचित् प्रचण्डमृगराजवधेऽपि दक्षाः ।  
किन्तु ब्रवीमि वलिनां पुरतः प्रसहा  
कन्दर्पदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥

**भावार्थः**—न जाने कितने ऐसे महान् शूरवीर हैं, जो मतवाले हाथी के गण्डस्थल का दलन कर, उसको अपने वश में कर लेते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं, जो प्रचण्ड मृगराज सिंह का भी वध करने में दक्ष हैं। किन्तु मैं बड़े-से-बड़े बलों लोगों के सामने कहता हूँ, कि कामदेव के दर्पणों द्वारा द्वारा करने में समर्थ कोई विरले ही मनुष्य होते हैं।

## २२२

कृशः काणः खंजः श्रवणरहितः पुच्छविकलो  
वरणी पूयविलन्नः कृमिकुलशतैराचिततनुः ।  
क्षुधाक्षामो जीर्णः पिठरककपालावृतगलः  
शुनीमन्वेति इवा हृतमपि निहन्त्येव मदनः ॥  
**भावार्थः**—गहा दुबला-पतला, काना, लूला, कान से वहरा,

पूछ भी जिसके नहीं है, धायो से जिसका शरीर भरा हुआ है, मवाद जिसमें से वह रहा है, कोडे जिसमें विलविला रहे हैं, भूख से पीड़ित, महाजीण, गले से जिसके धेघे लटक रहे हैं—ऐसा भृता भी कुतिया के पीछे-पीछे लगा रहता है, यह शामदेव की ही वृपा है। कामदेव मरे हुए को भी मार रहा है। धन्य है शामदेव को !

२२३

विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णशिना-  
स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ।  
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं ये भुंजते मानवा-  
स्तेषामिन्द्रियनिप्रहो यदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरम् ॥

**भावार्थः**—यायु भथण कर, जल पीनार तथा पत्ते आदि राशार जीने याने विश्वामित्र, पराशर आदि मूनि भी मुन्दर और मनोहर स्थियो ये कमल के गमान मुग वो देखार मोहित हो गये, तो पिर उनका पया यज्ञना जो निन्य धी, दूध और दही से युक्त शामोत्तेजन पदार्थों पा भोजन करते हैं। यदि ऐसे गोग भी इन्द्रियों पा दमन करने, तो पिर निन्य है ति विन्ध्य पर्वत भी नमुद्र मे तैर सकता है ।

२२४

मनः फुरोद्योगः सपदि वद मे गम्यपदवीं  
नरे चा नार्दा चा गमनमुभयश्राप्यनुचितम् ।

यतस्ते वलीवत्वं सकृदपि गतो हास्यपदवीं  
जनस्तोमे मागास्त्वमनुसर हि व्रह्मपदवीम् ॥

**भावार्थः—**मन ! तुम्हारा क्या विचार है ? जरा बताओ तो, कहाँ चले ? किसी पुरुष के पास जाना चाहते हो या स्त्री के ? दोनों में से किसी के पास भी जाना तुम्हारे लिये अनुचिन है, क्योंकि तुम नपुंसक हो और वहाँ तुम्हारी श्रवश्य हँसी होगी । इसलिए तुम मनुष्यों के पास न जाकर “व्रह्म” के पास जाओ । क्योंकि तुम्हारा उसका जोड़ है । तुम भी नपुंसक लिंग हो और वह भी नपुंसक लिंग है । इस लिए तुम्हारी उसकी पट जायगी ।

## २२५

हारोऽयं हरिणाक्षोणां लुठति स्तनमण्डले ।  
मुक्तानामप्यवस्थेयं के वर्यं स्मर्त्तकराः ॥

**भावार्थः—**यह श्लोक “अमर शतक” का है और अभग इलेप का बहुत उत्तम उदाहरण है । इसमें “मुक्तानां” इस पद में इलेप है, जिसका प्रथं “मोती” और “मोक्षपद-प्राप्त” दोनों हैं । श्लोक का भावार्थ यह है —मूगनयनियों के स्तनमण्डल पर यह मोतियों का हार लोट रहा है । जब निर्जीव “मोतियों” का अथवा जो “मोक्ष पद प्राप्त कर चुके हैं” ऐसे क्रृपि-मुनियों का यह हाल है, तब हमारा क्या कहना, जो काम के दास हो रहे हैं !

## निर्धन-गृहस्थ

२२६

वृद्धोऽन्धं पतिरेप मंचकागतः स्थूणावशेषं गृहं  
कालोऽभ्यर्णं जलागम कुशलिनी वत्सस्म चाताऽपि नो ।  
यत्नात्संचिततंलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला  
दृष्ट्वा गर्भं भरतलसा सुतवधूं इवश्रूदिचरं रोदिति ॥

भावार्थ—इस दलोव मे एक निधन, दरिद्र, कुदुम्य वा चिन्त  
खोचा गया है—पति वृद्ध, अन्धा तथा रोगी होकर खाट से लग  
रहा है। पर सब ओर से जोएं हो रहा है, वेष्टल एक छूठ मात्र  
दब गया है। बरसात भी घब घारभ होने ही थाली है। सट्टवा  
परदेश गया हुम्हा है, उसका भी थोई कुदाल-समाचार नहीं  
मिला। यहे यत्न से एक-एक धून्द परें घोटी-सी हाँडी में तेत  
जमा किया था, हाय ! वह हाँडी भी टूट गयी। सट्टवे की बहू  
गर्भवती है, उसके बच्चा होने ही बाता है। यह दुर्दशा देखकर  
पर को पुरस्ति साम, भुजार ढोड कर, यहे जोर से रो  
रही है।

२२७

वास-लण्डमिद प्रयच्छ यदिवा स्वांके गृहाणार्भकं  
रितं भूतलमत्र नाप भवतः पृष्ठे पत्तालोच्चयः ।

दम्पत्योरिति जलितं निशि यदा चौरः प्रविष्टस्तदा  
लब्धं कर्पटमन्यतस्तदुपरि क्षिप्त्वा रुदन्तिर्गतः ॥

**भावार्थः—**सदियो में रात को एक चोर किसी निष्पिकचन दरिद्र के घर में चोरी करने के लिए धुसा, तो उस समय घर के स्वामी और उसकी घरवाली के बीच यह बातचीत हो रही थी। घरवाली कह रही थी—“स्वामी, या तो जो बस्त्र का टुकड़ा तुम पहने हुए हो, उसे मुझे दे दो तो उस पर बच्चे को सुला दूं, या बच्चे को तुम अपनी गोद में ले लो। यहाँ मेरे नीचे तो खाली जमीन है, बच्चे को किस पर सुलाऊँ ? तुम्हारी पीठ के नीचे तो पुआल भी है”—पति और पत्नी की इस बातचीत को सुनकर, रात के समय चोरी करने के लिए धुसा हुआ चोर इतना प्रभावित और द्रवित हुआ कि और जगह से चुराए हुए बस्त्र को उसके ऊपर डालकर, रोता हुआ वहाँ से चुपचाप लौट गया।

## २२८

पञ्चो वन्द्यस्त्वमसि न गृहं यासि योऽर्थो परेषां  
धन्योऽन्ध त्वं धनमदवतां नेक्षसे यन्मुखानि ।  
इत्ताद्यो मूक त्वमसि कृपणं स्तौषिपि नाथशिया यः  
स्तोत्रव्यस्त्वं बधिर न गिरं यः खलानां शृणोपि ॥

**भावार्थः—**कोई निर्धन मनुष्य कहता है—“हे लगडे मनुष्य, तुम धन्य हो कि पगुता के कारण तुम याचक होकर दूसरो के दरवाजे पर नहीं जाते। हे अन्धे मनुष्य, तुम भी धन्य हो कि

धन के मद मे मतवाले धनियो के मुख को नही देख सकते । हे गूगे मनुष्य, तुम भी प्रशासा के योग्य हो कि धन की आशा से, तुम वृपण धनी की स्तुति नही करते । हे वहरे मनुष्य, तुम भी धन्य हो कि तुम्हारे बानो मे नीच धनियो की दुत्कार नही सुनाई पडती ॥

## २२६

वासश्चर्म विभूपणं शवशिरो भस्मांगलेपः सदा  
ह्येको गोः स च लांगलाद्यकुशलः संदत्तिरेताहशी ।  
इत्यालोच्य घिमुच्य शंकरमग्रदत्ताकरं जाह्नवी  
फट्टं निर्धनिकस्य जीवितमहो दारेरपि त्यज्यते ॥

**भावार्थः**—निर्धन मनुष्य को, और तो श्री उसकी मगी स्त्री भी छेड़ देतो है, इस बात को कवि ने महादेव जी वा उदाहरण देवर बढ़ी गूबी से कहा है—महादेव जी के वस्त्र के नाम पर केवल मृगचर्म है, भूपण उनका और धूम नही केवल मृत मनुष्य वा वपाल है, भस्म ही उनके शरीर वा अगलेप (पाउडर) है, एक ही नान्दी बंल उनके पास है, सो भी सेती के लिये हस्त धादि मे जोनने के सायक नहीं है; इसलिए सेतो भी नही कर सकते । बग यही उनकी सम्पत्ति है—यह देवत्वर उनकी स्त्री गगा जो उन्हें छोड़ कर, रत्नों के धावर समुद्र के पास चली गयी । सब है, निर्धनना बटी दुगदायी होती है । निर्धन मनुष्य को उसकी स्त्री भी छोड़ देती है, और वी तो बान ही यदा है ?

२३०

तावत् विद्याऽनवद्या गुणगणगरिमा रूपसंपत्तिशीर्यं  
 स्वस्थाने सर्वशोभा परगुणकथने वाक् प्रयुस्तावदेव ।  
 यावत् पाकाकुलाभिः स्वगृहयुवतिभिः प्रेषितापत्यवक्त्राद्  
 हे बाबा नास्ति तैलं न च लवणमपीत्यादि वाचां प्रचारः ॥

**भावार्थः**—तभी तक विद्या की प्रशस्ता है, तभी तक गुणों  
 का महत्व है, तभी तक रूप, धन और शूरवीरता की बडाई है,  
 तभी तक अपने घर में अपनी पूछ और आदर है और तभी तक  
 दूसरे के गुणों का खाना करने में पदुता है, जब तक कि घर की  
 स्त्रियाँ लड़कों को भेजकर, नाक में दम नहीं कर देती कि “हे  
 बाबा, रसोई में न तो आज तैल है न नोन, बताओ खाना कैसे  
 पके ?”

२३१

उत्तिष्ठ क्षणमेकमुद्धृह सखे दारिद्र्यभारं भम  
 श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम् ।  
 इत्युक्तं धनवर्जितस्य वचनं श्रुत्वा इमशाने शबो  
 दारिद्र्यचन्मरणं वरं वरमिति ज्ञात्वैव तूष्णीं स्थितः ॥

**भावार्थः**—एक निर्धन दरिद्र मनुष्य इमशाने में पड़े हुए  
 किसी मृत मनुष्य के शब को सम्बोधन करके कहता है—“हे  
 मिन, दरिद्रता के भार को चिरकाल से ढोते-ढोते मैं बहुत थक  
 गया हूँ, थोड़ी देर के लिए जरा उठ जाओ और मेरे इस भार  
 को अपने सिर पर रख लो, जिसमें कि मृत्यु का जो सुख, तुम

भोग रहे हो, उसे मैं भी कुछ समय के लिये भोग लूँ "—निर्धन मनुष्य के इस वचन को सुनकर भी, मृत मनुष्य के शव ने अनुसुनी कर दी और यह समझ कर कि निर्धनता की अपेक्षा मृत्यु अधिक श्रेष्ठस्कर है, वह बंसा हो चुपचाप पड़ा रहा, जरा भी न सनका ।

२३२

क्रोशन्तः शिशवः सदारि सदन पंकावृतं चांगणं  
शथ्या दंशवती च रूक्षमशनं धूमेन पूर्णं गृहम् ।  
भार्या निष्ठुरभाविणी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा ।  
स्नानं शीतलवारिणा हि सततं धिगिधगृहस्याथम् ॥

**भावार्थः**—बच्चे रो और चीख रहे हैं, दूटा भकान वर्षा के कारण चू रहा है, आगन मे कोचड छाया हुआ है; दूटो खाट उसमे भी सो मन खटमल भरे हुए हैं, रुखा-सूखा भोजन खाने को है; धुए से घर भरा हुआ है, स्त्री वर्कशा और निदुर बात बोलने वाली है, जिस मालिक के यहाँ नीकरी है वह भी सहानुभूति से रहित और सदा क्रोधा से भरा रहता है, जाडे मे ठड़े पानी से स्नान करना पढ़ता है—यदि इसी को गृहस्याथम कहते हैं, तो उसे धिकार है ।

२३३

मौनान्मूकः प्रवचनपटुर्वतुलो जल्पको वा  
घृष्टः पाश्वे यस्ति च सदा दूरतस्त्वप्रगल्भः ।

**क्षान्त्या भीरुयदि न सहते प्रायशो नाभिजातः  
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ॥**

**भावार्थ** —इस श्लोक मे निर्धन सेवक का चिन खीचा गया है—यदि सेवक चुप रहता है, वहुत वक-वक नहीं करता, तो मालिक समझता है कि वह गूगा है। यदि बोलने मे चतुर है, तो यह समझा जाता है कि वह वहुत वक-वक करने वाला, वाचाल है। यदि पास रहता है तो कहा जाता है कि वह वहुत ढीठ, मुँह लगा है। यदि दूर रहता है तो कहते हैं कि वह होशियार नहीं है। यदि क्षमाशील है और सब महन कर लेता है, तो यह समझा जाता है कि वह डरपोक है। यदि नहीं सहता और कुडमुडाता है, तो मालिक समझता है कि वह अच्छे कुल का नहीं है, दूसरे के साथ कंसे वरतना चाहिये उसको नहीं मालूम। इस प्रकार सेवा करना एक ऐसा गहन धर्म है कि जिसका पार योगी लोग भी नहीं पा सकते, तो साधारण मनुष्य की क्या बात है ?

२३४

**जातिर्यातु रसातले गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता-  
च्छीलं शौलतटात्पत्त्वभिजनः सन्दह्यतां वह्निना ।  
शौर्ये वैरिणि चञ्चमाशु निपत्त्वर्थोस्तु नः केवलं  
येनेकेन विना गुणास्तुरालवप्रायाः समस्ता इमे ॥**

**भावार्थ** :—इस श्लोक मे किसी वृपण धनी का चिन खीचा गया है—जाति रसातल दो चली जाय तो चली जाय,

कोई परवाह नहीं ! जितने भी गुण हैं वे सब पाताल से भी नीचे चले जाय, कोई चिन्ता नहीं ! शील और सदाचार पहाड़ पर से गिरे और चकनाखूर हो जाय, हमें मजूर हैं ! कुटुम्ब का कुटुम्ब आग में जल मरे, स्वीकार है ! बोरता जो हमारी शक्ति है, उस पर राम परे बज गिरे ! हमें तो बेबल धन चाहिए, जिस एक वे विना ये सारे गुण निनके के समान हैं ।

## २३५

हे दारिद्र्य नमस्तुम्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः ।  
पश्यान्यहं जगत्सर्वं न मां पश्यति कश्चन ॥

**भावार्थः—**—हे दरिद्रते ! मैं तुमसो नमस्तार बरता हूँ, यदोऽि मैं तुम्हारी वृपा से सिद्ध हो गया हूँ । सिद्धि मुझे यह मिल गयी है कि मैं सबको देखता हूँ, पर मुझे कोई नहीं देखता—पेरो ओर किसी की नजर भी नहीं जाता ।

## २३६

वारिद्र्य शोचामि भवन्तमेवमस्मच्छ्रोरे सुहृदित्पुणित्वा ।  
विष्णवेहे मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता यव गमिष्य-  
सित्वम् ॥

**भावार्थः—**—एक घमागा दरिद्र मनुष्य परनी दखिता को गम्भीरन परवे पहा है—“हे दरिद्रते ! मुझे परनी चिन्ता नहीं है, जिन्हा तुम्हारे लिए है कि इनने दिनों तक मिथ की तरह मेरे दारोर में नियाम परवे, मुझ परमाणे के भरने में यद तुम यही जापोगो ? ऐसा रहने पा स्पान तुम्हें कहाँ मिलेगा ?

एकः स एव जीवति हृदयविहीनोऽपि सहृदयो राहुः ।  
यः सकललघ्यमकारणमुदरं न विभर्ति दुष्पूरम् ॥

**भावार्थ** —राहु के केवल गिर है, पेट नहीं है। इस पर कवि कहता है—हृदय से रहित होने पर भी, सहृदय राहु केवल अकेला ऐसा जीव है, जो वास्तव में जीता है। क्योंकि उसे उस पेट को नहीं भरना पड़ता, जिस पेट के कारण मनुष्य को कितना अपमान और कितना अनादर सहना पड़ता है और तब भी वह कितनी कठिनाई से भरा जाता है।

इयमुदरवरी दुरन्तपूरा यदि न भवेदभिमान-  
भंगभूमिः ।  
क्षणमपि न सहे भवादृशानां कुटिलकटाक्षनिरीक्षणं  
नृपाणाम् ॥

**भावार्थ** —कोई निर्धन कवि किसी राजा या धनी से कहता है—सारे स्वाभिमान की जड़ को उखाड़ कर फेंक देने वाला और मान वा मर्दन करने वाला, यह पेट रूपी गड्ढा, जिसवा पाठना असभव है, यदि मेरे न होता तो वथा मे आप-जैसे राजा और श्रीमन्तों के नेत्र के कुटिल कटाक्ष को कभी सहन करता?

२३६

नदीनदीनभावस्य याचकस्यातिमानिनः ।

वचोजीवितयोरासीत् पुरो निःसरणे रणः ॥

**भावार्थ :**—कोई आत्माभिमानी दीन मनुष्य किसी धनी के पास कुछ माँगने के लिए गया। उसने कभी पहले किसी से माँगा नहीं था। माँगने के लिए चला तो गया, पर माँगने का साहस न हुआ, चुप खड़ा रहा, मुख से दीनता के शब्द नहीं निकले। इस पर कवि की कल्पना है कि उसके बचन और प्राण में द्वन्द्व युद्ध ठन गया कि पहले कौन निकले—बचन या प्राण। बस इसी द्वन्द्व में वह चुप रह गया। किसी से माँगने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है, इस बात को कवि ने कैसे अनोखे ढंग से कहा है।

२४०

तृणगदपि लघुस्तूलस्तूलादपि हि याचकः ।

वायुना कि न नीतोऽसौ प्रार्थयिष्यति मामिति ॥

**भावार्थ :**—तिनके से भी हलकी रुई है और रुई से भी हलका याचक (माँगने वाला) है। परन्तु यदि इतना हलका है, तो किर हवा उसको क्यों नहीं अपने साथ उड़ा ले जाती? इस लिए कि हवा भी डरती है कि कही मुझसे भी कुछ माँग न ले।

२४१

याचना हि पुरुपस्य महत्त्वं

नाशयत्यखिलमेव तथा हि ।

सद्य एव भगवानपि विष्णु  
र्वामनो भवति याचितुमिच्छन् ॥

**भावार्थः—**माँगने से मनुष्य की सब प्रतिष्ठा भग हो जाती है, यह भगवान् विष्णु के उदाहरण से भी प्रगट है। देखो भगवान् विष्णु ने राजा वलि से माँगना चाहा, तो उनको भी छोटा (बीना) होना पड़ा। माँगने से हरेक को छोटा होना पड़ता है। इसी भाव का रहीम का यह दोहा भी है—

रहिमन याचकता गहे, वडो छोट हूँ जात ।  
नारायण हूँ को भयो, बामन आगुर गात ॥

## २४२

यदि रामा यदि च रमा यदि तनय विनयगुणोपेतः ।  
यदि तनये तनयोत्पत्तिः सुरवरनगरे किमाधिक्यम् ॥

**भावार्थः—**इस श्लोक मे सब प्रकार से सफल सन्तुष्ट गृहस्थ का चित्र खीचा है—यदि सुशीला पतिषरायणा पत्नी हो, उस पर लक्ष्मी भी हो, उस पर नम्र, श्राज्ञाकारी और विनयी पुत्र हो, उस पर पुत्र के पुत्र (पोता) हो जाय, तो वताओ स्वर्ग मे क्या इससे कुछ अधिक मुख रखेंगा है ?

## २४३

कालिदास-कविता नवं वयो भाहिपं दधि सशर्करं पयः ।  
शारदेन्दुवदना विलासिनो प्राप्यते सुकृतिनैव भूतले ॥

**भावार्थः—**कालिदास की कविता पढने को मिले, नई जगही हो, भैस के दूध की दही खाने को और चीती मिला हुआ दूध पीने को मिले, शरत्काल के पूर्ण चन्द्रमा के समान मुख वाली सुन्दर पत्नी हो—यह सब मुख ससार में केवल सुकृती भाग्यवान् मनुष्य को ही मिलता है।

## सज्जन और दुर्जन

२४४

हृदयानि सतामेव कठिनानोति मे मतिः ।  
खलवाग्विशिखैस्तीक्षणैभिद्यन्ते न मनाग्यतः ॥

भाषार्थः—लोग कहते हैं, कि खलो का हृदय कठोर होता है । पर मेरा तो ऐसा विचार है कि खलो का हृदय नहीं, बल्कि सज्जनो का हृदय कठोर होता है । यदि सज्जनो का हृदय कठोर न होता, तो वह खलो के वचन वाणो से छिद्र कर्यो नहीं जाता । छिदना तो दूर रहा उसमें रेखा-मात्र भी नहीं लगती । इस श्लोक का भाव कुछ-कुछ तुलसीदास के इस दोहे से मिलता है—

दुर्जन-बदन कमान सम, वचन विमुचत तीर ।  
सज्जन उर वेघत नहीं, क्षमा-सनाह शरीर ॥

२४५

लोको मद्युगजन्मा कृतकृतकर्मा न मद्मर्मा ।  
इति हेतोरिव कलिना बलिना संपोड्यते साधु ॥

भाषार्थः—इस कलि काल में सज्जन क्यों दुख पाते हैं इस का कारण किसी ने अस्त्रादिया है—“सज्जन लोग पैदा तो हुए हैं मेरे युग में और काम करते हैं सत्ययुग का । मेरे युग के अनुसार

आचरण नहीं करते”—वस इसी कारण कोध में आकर महावली कलि साधु पुरुषों को सदा सताया करता है।

२४६

अमररंभमृतं न पीतमव्येनं न च हलाहलमुलवणं हरेण ।  
विधिना निहितं खलस्य वाचि द्वयमेतद्विरेक-  
मन्त्ररन्यत् ॥

**भावार्थः—**ऐसा वहा जाता है कि समुद्र-मन्थन से निकला कुप्ता अमृत देवताओं ने भीर भयकर हलाहल (विष) भगवान् शिव ने पी लिया था। परन्तु यह ठीक नहीं है। असली बात तो यह है कि अहा ने दोनों में से एक अर्थात् अमृत को तो दुर्जन की वाणी में रख दिया भीर हलाहल को उनके हृदय में रख दिया। इसी से तो ये ऊपर से मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें बहते हैं, पर हृदय में उनके विष भरा रहता है।

२४७

नन्दाश्रयस्थितिरियं तव कालकूट  
केनेत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ।  
प्रागरण्यस्य हृदये वृपलक्ष्मणोऽय  
कण्ठेऽप्युना घससि याचि पुनः खलानाम् ॥

**भावार्थः—**सतों के याग्याणों से मनाया गया ऐसी विकासकूट विष को सम्बोधन परके रहता है—हे कालकूट, एक द्रूमरे के उपरान्त उत्तम से उत्तम प्रयत्ना पात्रय स्थान चुनने पी

शिक्षा तुमने किस से पायी है ? पहले तुम खारे समुद्र के भीतर रहे, फिर नीलकण्ठ महादेव के कण्ठ मे बसने लगे और अब तुम खलो की वाणी मे निवास करते हो । तुम्हारी अद्भुत माया है ।

## २४८

अहमेव गुरुः सुदारणानां  
इति हलाहलं तात मास्मद्यथः ।  
ननु सन्ति भवादृशानि भूयो  
भुवनेऽस्मिन् वचनानि दुर्जनानाम् ॥

**भावार्थः**—हे हलाहल (विष), मत घमण्ड करो कि मैं हो जितने कदु और पीड़ा देने वाले पदार्थ दुनिया मे है, उन सबो मे श्रेष्ठ हैं, मेरे बराबर कोई नहीं है । अरे ! तुझे नहीं मालूम कि तेरे समान इस ससार मे दुर्जनो के वचन भी हैं, जिनके लगते ही मनुष्य एक बार प्राण रहने भी निष्प्राण हो जाता है । इसी भाव का एक उद्दृ शेर भी है—

छुरी का तीर वा तलवार का तो धाव भरा ।  
लगा जो जट्ट जुवा वा रहा हमेशा हरा ॥

## २४९

परदारपरद्रव्यपरद्रोह - पराढ़मुख ।

गंगा धूते कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥

**भावार्थः**—जो दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन और दूसरे के

द्रोह से विमुख रहता है, उनकी ओर ताकता भी नहीं—ऐसे १ मनुष्य के बारे में स्वयं पतित-पावनी गगा जी भी कहती हैं कि वह कब आयेगा, मेरे में स्नान करेगा और मुझे पवित्र करेगा ।

२५०

विकृति नैव गच्छन्ति संगदोपेण साधवः ।  
प्रवेष्टिं महासप्तश्चन्दनं न विपायते ॥

**भावार्थः**—सज्जन लोग दुर्जनों के साथ से अपनी स्वाभाविक उत्तम प्रकृति को नहीं छोड़ते । देखो, चन्दन के वृक्ष पर कितने ही सर्व कथों न लिपटे रहे, किन्तु उस पर विष का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता । इसी दलोक के भाव को लेकर ही रहीम का यह दोहा है—

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकन कुसग ।  
चन्दन विष व्यापे नहीं, लपटे रहत भुजग ॥

२५१

दुर्वृत्तसंगतिरनर्थपरंपरायाः  
हेतुः सतां भवति कि वचनोयम्भ्रत्र ।  
लंकेश्वरो हरति दाशरथे कलत्रे  
प्राप्नोति वन्धनमसौ किल सिन्धुराजः ॥

**भावार्थः**—दुर्जन और दुराचारी का साथ करने से सज्जनों को कितना अनर्थ और कितनी विपत्ति सहनी पड़ती है—यह

एक सर्व-प्रसिद्ध बात है। देखो, राम की स्त्री को हरा तो लंकाधिपति रावण ने, पर बन्धना पड़ा समुद्र को, जो रावण के पढ़ोस में बसता था। प्रसिद्ध है कि लंका तक पहुँचने के लिए, राम को समुद्र पर पुल बांधना पड़ा था। इसी श्लोक के भाव को रहीम ने अपने पद्य में इस प्रकार प्रकट किया है—

करि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोस ।  
महिमा घटी समुद्र की, रावन बसो परोस ॥

## २५२

शारदि न वर्षति, गर्जति वर्षति वर्षासु निःस्वनो मेघः ।  
नीचो वदति न कुरुते, न वदति सुजनः करोत्येव ॥

**भावार्थः**—शारत्काल में मेघ गर्जते खूब हैं, पर वरसते एक बून्द भी नहीं। वर्षा काल में मेघ गर्जते कम हैं, पर वरसते अधिक हैं। इसी प्रकार नीच लोग कहते बहुत हैं, पर करते कुछ भी नहीं। परन्तु अच्छे, सज्जन लोग बोलते कम हैं, जो कुछ करना होता है, कर देते हैं।

## २५३

<b>बोधितोऽपि</b>	<b>बहुसूवितविस्तरैः</b>
कि खलो जगति सज्जनो भवेत् ।	स्नापितोऽपि बहुशो नदीजले-
र्गदंभः किमु हयो भवेत्वचित् ॥	भावार्थः—बहुत-सी सुन्दर ओर उपदेशमयी वाणी से

समझाया गया दुर्जन, ससार मे क्या सज्जन हो सकता है ?  
युगा-जैसी पवित्र नदी के पानी से बार-बार नहलाया गया गर्दभ,  
कभी घोड़ा हो सकता है क्या ?

२५४

परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्राक्षः ।  
सद्वृत्तवित्तहरणे बाहुसहस्रार्जुनः पिशुनः ॥

**भावार्थः—**नीच, दुर्जन मनुष्य दूसरे को निन्दा करने मे  
दशमुख वाला रावण हो जाता है, दूसरे का धिद्र देखने मे  
सहस्र-नेन वाला इन्द्र हो जाता है और दूसरे के चरित्ररूपी  
घन को हरने मे सहस्रवाहु अर्जुन हो जाता है ।

२५५

दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत् ।  
उष्णो दहति चांगारः शीतः कृष्णायते करम् ॥

**भावार्थः—**दुर्जन के साथ मित्रता अथवा प्रीति नहीं करनी  
चाहिए । दुर्जन अगार के समान होता है, जो उष्ण (गरम)  
होने पर जला देता है और शीतल (छंडा) होने पर हाथ को  
काला कर देता है । रहीम ने इसका अनुवाद इस प्रकार किया  
है—

खोटे को सग साथ, हे मन तजो अगार ज्यो ।  
सातो जारे हाथ, शीतलहू कारो करै ॥

२५६

दृश्यन्ते भुवि भूरिनिम्बतरवः कुत्रापि ते चन्दनाः  
पापाणेः परिष्पूरिता वसुमती वज्रो मणिर्दुर्लभः ।  
श्रूयन्ते करटारवाइव सततं चैत्रे कुहकूजितं  
तन्मन्ये खलसंकुलं जगदिदं द्वित्राः क्षितौ सज्जनाः ॥

**भावार्थः**—संसार में नीम के पेड़ तो बहुत से दिलाई पड़ते हैं, परन्तु चन्दन के पेड़ तो कही-कही ही पाए जाते हैं। पृथ्वी पत्थरों से भरी हुई है, परन्तु बहुमूल्य पत्थर हीरा आदि तो कठिनाई से मिलते हैं। कोबो को काँव-काँव तो सदा सुनाई पड़ती है, परन्तु कोयल को कूक तो केवल चेत में ही सुनने को मिलती है। इसी प्रकार संसार कुर्जनों से भरा पड़ा है, परन्तु सज्जन तो पृथ्वी में दो-चार ही कही-कही दिलाई पड़ते हैं।

२५७

घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनश्चन्दनं चारुगन्धं  
छिन्नशिशुनः पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षुदण्डः ।  
तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कान्तवरणं  
प्राणान्तेऽपि प्रकृतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम् ॥

**भावार्थः**—चन्दन बार-बार छिसे जाने पर भी, अपनी सुगन्ध नहीं छोड़ता। गन्ना बार-बार चूसे जाने पर भी, अपनी मिठास नहीं त्यागता। सोना बार-बार तपाये जाने पर भी, अपनी सुन्दर

चमक को नहीं तजता । सच है, उत्तमपुरुष प्राणों के जाने पर  
- भी, अपना उत्तम स्वभाव नहीं छोड़ते ।

## २५८

कस्यादेशात्क्षण्यति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां  
द्यायाहेतोः पथि विटपिनामंजलिः केन वद्धः ।  
अभ्यर्थ्यन्ते जललवमुच्चः केन वा चृष्टिहेतो-  
जत्यैयंते परहितविधौ साधवो वद्धकक्ष्याः ॥

भावार्थः—सूर्य विसके आदेश से लोगों के लिए उदय हो कर, अन्धकार वा नाश करता है ? कौन पथिको को द्याया देने के लिए, पेड़ों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है ? वौन वर्षा देने के लिए, मेघों से याचना करता है । यह वे स्वय करते हैं । क्योंकि सज्जनों वा स्वभाव ही परोपकार करना है और उस के लिए वे सदा वमर वसे तैयार रहते हैं ।

## २५९

उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे  
प्रचलति यदि मेरः शीततां याति वह्निः ।  
विकसति यदि पद्मं पर्वताप्ने शिलायां  
न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम् ॥

भावार्थः—सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है, मेर

पर्वत अपने स्थान से हट सकता है, अग्नि अपना स्वभाव छोड़ कर शीतल्य ग्रहण कर सकती है, कमल पर्वत की शिला पर खिल सकता है—किन्तु सज्जन लोग अपनी बात से नहीं डिगते। जो वे एक बार कह देते हैं, वह पत्थर की लकीर बन जाता है।

## पौरुष और भाग्य

२६०

यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्थ गतिर्भवेत् ।  
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥

**भावार्थः—**जिस प्रकार रथ के दो पहिए होते हैं, वह केवल एक पहिए से नहीं चलता । उसी प्रकार सफलता के लिए पौरुष और भाग्य दोनों आवश्यक होते हैं, विना पौरुष के भाग्य कभी सिद्ध नहीं होता ।

२६१

दैवं फलति सर्वंत्र न विद्या न च पौरुषम् ।  
समुद्रमन्यनाल्लेभे हरिलंक्ष्मो हरो विपम् ॥

**भावार्थः—**भाग्य ही सर्वंत्र फल देता है, विद्या और पौरुष नहीं । देखो, यह भाग्य वा ही खेल या कि समुद्रमन्यन से एक और विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई और दूसरी ओर महादेव के पल्ले बेवल विष हो पड़ा ।

२६२

भाग्यवन्तं प्रसूयेया मा शूरं मा च पण्डितम् ।  
शूराद्वच कृतविद्याद्वच घने सीदन्ति पाण्डवाः ॥

**भावार्थः—** कोई किसी स्त्री को आशीर्वाद देता है कि तू भाग्यवान् पुत्र को पैदा कर, शूरवीर और पण्डित को नहीं। देखो, पाण्डव लोग कितने शूरवीर और कितने विद्वान् थे, पर भाग्य ने साथ नहीं दिया, इसलिए बनवास में तरह-तरह के दुख भेलते रहे।

२६३

एकः स एव तेजस्वी संहिकेयोऽसुरद्विपाम् ।  
शिरोमात्रावशेषेण जीघन्ते येन शत्रवः ॥

**भावार्थः—** दैत्यो मे राहु अकेला ही ऐसा तेजस्वी पौरुषवान् है, जो अपने पौरुष के बल पर, केवल शिरमात्र शेष रहने पर भी, अपने शशुद्धो को जीतता रहता है और देवताओं के दान्त खट्टे करता रहता है।

२६४

अंगरणवेदो वसुधा फुल्या जलधिः स्थली च पातालम् ।  
वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य ॥

**भावार्थः—** जो धीरज को नहीं छोड़ता और अपने हठ निश्चय पर डटा रहता है, उसके लिए विस्तृत पृथ्वी धर के आगन के समान, अपार सागर छोटी-सी नदी के समान और— पाताल स्थली के समान हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी कठि- नाइयों को सहज मे पार कर लेता है।

२६५

सिंहः शिशुरपि निपतति मदमलिनकपोलभित्तिषु गजेषु ।  
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः ॥

**भावार्थः—**सिंह वच्चा भी हो, तो भी मद के चूने से जिनके गण्डस्थल मलिन हो गये हैं, ऐसे मतवाले हाथियों पर आक्रमण कर, उन्हे पट्टाड देता है। पराक्रमी लोगों का यह स्वभाव होता है। तेज और पराक्रम के लिए आयु वारण नहीं है।

२६६

भवतो यस्य धनेशः सिद्धे शृङ्खेश्च यत्सुतोऽधिष्ठितः ।  
तस्य कुमारोऽनूढः स्वर्णं च नगतो नमो विघ्ये ॥

**भावार्थः—**जिन महादेव जी के भवत धन के स्वामी साधात् युद्धेर हैं, जिनके एक पुत्र गणेश जी शृङ्खि और सिद्धि दोनों के अधिष्ठित हैं—उन्ही महादेव जी का एक पुत्र स्वामि-दात्तिवेय सदा के लिए शुंवारा रह गया और स्वयं महादेव जी भी नन्हा रहे, लगोटी भी पास नहीं थी—यह वेवल भाग्य वा ही खेल है। अतएव भाग्य वो नमस्वार है।

२६७

भूषिष्ठं द्रविष्णात्मजं जनपितुं तिष्ठावता चेतसा  
नामः पञ्च मया घमेण कुलजाः काले समुद्वाहिताः ॥

सद्विद्या कविता विदेशवसतिः सेवा तथाऽभ्यर्थना  
दैवेन प्रतिबन्धकेन युगपद्वन्ध्याः, समस्ताः कृताः ॥

**भावार्थः**—इस लालसा से कि मेरे धनरूपी पुत्र उत्पन्न हो, मैंने एक के बाद दूसरी, इस क्रम से पाँच कुलीन स्त्रियों के साथ विवाह किया, जो ये हैं—एक विद्या, दूसरी कविता, तीसरी विदेश में वसति (निवास), चौथों सेवा और पाँचवीं धनियों के सामने प्रार्थना (हाथ फेलाना)। परन्तु दैव का दुर्विपाक तो देखो—ये पाँचों ही वन्ध्या निकली और इनमें से एक ने भी धनरूपी पुत्र मुझे नहीं दिया। मेरी विद्या, कविता, विदेश में दर-दर फिरना, सेवा और धनियों की चापलूमी, सब बेकार हुईं।

## २६८

अवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि ।

नगन्त्वं नीलकण्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥

**भावार्थः**—भाग्य में जो बदा होता है, वह बड़े से बड़े लोगों को भी मिलता है। देखो, महादेव जो के भाग्य में नगा होना बदा था, सो इतने बड़े देवता होकर भी उन्हें नंगा रहना पड़ा और विष्णु भगवान् के भाग्य में महा विष्णु सर्प पर सोनालिखा था, सो उनको शेषनाग पर ही शयन करना पड़ा। भाग्य का विचित्र स्त्रेल है!

२६६

स्वयं महेशः इवशुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणेशः ।  
तथापि भिक्षाटनमेव शंभोर्बलीयसी केवलमौश्वरेच्छा ॥

**भावार्थः—**महादेव जो स्वयं महेश (वडो के भी वडे) हैं, उनके समुर नगेश (पदंतो के राजा हिमालय) है, उनके मित्र धनेश (धन के मालिक कुवेर) हैं, उनके पुत्र गणों के ईश “गणेश” जो है—इतने पर भी उनको भीख माँग कर अपना गुजारा करना पड़ा, यह वेवल विधि की विडम्बना के मिवा और क्या कहा जाय ?

२७०

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापितो मस्तके  
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः ।  
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दो शिरः  
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तथापदां भाजनम् ॥

**भावार्थः—**कोई गंजा मनुष्य दोपहर की गर्मी में मूर्य की सरतार किरणों से सताया हुआ, छाया की रोज में, दुर्भाग्य से एक ताड़ के पेड़ के नीचे गया कि वहाँ कुछ देर धारण लेकर, अपनी होड़डी को पाप में तपने से बचाऊँगा । परन्तु जैसे ही वहाँ पहौंचा कि एक यहा ताड़ का पाप उसके सिर पर घटाम जैसे पाकर गिरा और उमड़ी गजी गोड़डी धूर-चूर हो गयी ।

सच है, अभागा मनुष्य जहाँ जाना है, वहाँ विपत्ति सच्चे साथी की तरह उसका साथ नहीं छोड़ती ।

२७१

पत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि  
नोलूकेन विलोबयते यदि दिवा सूर्यस्य कि दूधणम् ।  
धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेघस्य कि दूपणं  
यद्वात्रा निजभालपट्टलिखितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥

**भावार्थ**.—वसन्त के धागमन पर भी, यदि करोल के वृक्ष में पत्ते न आवें, तो इसमें वसन्त का क्या दोष है ? सूर्योदय होने पर भी, यदि दिन में उल्लू को दिखाई न पड़े, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है ? वर्षा होने पर भी, यदि चातक के मुख में एक बूँद भी न टपके, तो इसमें मेघ का क्या दोष है ? बात यह है कि विधाता ने किसी के भाग्य में जो लिख दिया है, उसको कोई टाल नहीं सकता । भाग्य का लेख अमिट है ।

२७२

सदसि चिदुरभीष्मद्वौणशारद्वतानां  
पतिभिरमरकल्पैः पञ्चभिः पालितापि ।  
अहहु परिभवस्य द्रौपदी पात्रमासीद्  
बलवति सति देवे बन्धुभिः कि विधेयम् ॥  
**भावार्थ** —जिस सभा में विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य,

कृपाचार्य जैसे न्यायपरायण, धर्मिष्ट बैठे थे, उसी सभा में देवताओं के तुल्य पाँच पति जिसके पालक और रक्षक थे, ऐसी द्रीपदी का कितना घोर अपमान हुआ यह सर्व-विदित है। सच है, जब विधि विपरीत होता है, तो बन्धु और मित्र भी कुछ नहीं कर सकते।

### २७३

ऐसा कहते हैं कि एक बार महाराज भोज वे दरवार में, चार कवि धन की लालसा से गये। भोज ने चारों को एक समस्या पूर्ति के लिए दी और कहा कि जिसकी समस्या-पूर्ति सर्वोत्तम होगी, उसी को एक लाख रुपया इनाम के तौर पर दिया जायगा। समस्या यह थी—“क्रिया-सिद्धि सत्त्वे वसति महता नोपकरणे”

(१) उनमें से एक ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलनिधि-  
विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः ।  
तथाप्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

भावार्य—एक तो समुद्र के पार जाकर लका को जीतना था, दूसरे समुद्र को पार करने के लिए कोई पुल भी नहीं था, केवल पैर से ही उसे पार करना था। वही रावण-जैसा शूरवीर और बली शक्ति था, जिससे युद्ध करना था और युद्ध में सहायक केवल बन्दर लोग थे। तथापि इन सब कठिनाइयों के

## २७५

(३) तीसरे कवि ने समस्या की पूर्ति अगस्त्य मुनि का उदाहरण देकर की—

घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं  
वने वासः कन्दाशनमपि च दुःस्यं वपुरिदम् ।  
तथाप्येकोऽगस्त्यः सकलमपिवद्वारिधिजलं  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

**भावार्थः**—अगस्त्य ऋषि पैदा हुए थे घडे मे, कोई ऊँचे कुल के भी नहीं थे । मृग उनके परिजन थे । भोजपत्र उनका वसन था । वन मे उनका निवास था । कन्द मूल उनका आहार था । ऐसे सकट मे पला उनका दुर्बल शरीर था । तथापि वह अकेले सारे समुद्र का जल धी गये । इससे सिद्ध होता है कि महान् पुरुषों के कार्यों को सिद्ध बाहरी साधनों पर नहीं, बरन अपने आन्तरिक बल और पौरुष पर अवलम्बित होती है ।

## २७६

(४) चौथे कवि ने कामदेव का उदाहरण देकर समस्या पूर्ति की—

घनुः पौष्पं मौर्वो मधुकरमयी चंचलदृशां  
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः ।  
तथाप्येकोऽनंगस्त्रिभुवनमपि व्याकुलयति  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

**भावार्थः—**कामदेव को देखो । उसका धनुष पुरुषों का हुआ है । उस धनुष की प्रत्यचा भ्रमरों की है । उसके चंचल नेत्र वाली कामिनियों के कटाक्ष है । उसका मित्र सहयोगी जड़ात्मा चन्द्रमा है । फिर भी वह अंगहीन, कामदेव तीनों लोकों को व्याकुल किये रहता है । तो सिद्ध हुए कि वहे और महान् पुरुषों के कार्य की सफलता वाहरी साधनों पर नहीं, बरन उनके साहस और पौरुष पर आधारित होते हैं ।

## नीति के वाक्य

२७७ .

यदा किञ्चिज्जोऽहं द्विप इव मदान्धः समभवं  
तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदलिप्तं भम भनः ।  
यदा किञ्चित्किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगतं  
तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव भदो मे व्यपगतः ॥

**भावार्थः**—जब मैंने थोड़ा जाना, तो मतवाले हाथी की तरह  
मदान्ध हो कर, यह समझने लगा कि मैं सर्वज्ञ हूँ और मेरा मन  
अभिमान से भरकर मदमत्त हो गया । परन्तु आगे चलकर,  
जब मैं बुधजनों से थोड़ा-थोड़ा जानने लगा और अपनी मूर्खता  
का वास्तविक ज्ञान मुझे हुआ, तब मैंने समझा कि मैं तो महा-  
मूर्ख हूँ और मेरा अभिमान उसी तरह उत्तर गया जिस तरह  
कि ज्वर से पीड़ित मनुष्य का ज्वर उपचार से उत्तर जाता है ।  
इसी भाव का एक उद्दृश्य भी है—

मैंने जाना या कि इल्म से कुछ जानेंगे ।

जाना तो यह जाना कि न जाना कुछ भी ।

एक अप्रेजी कविता भी इसी भाव की है—

A little learning is a dangerous thing ;  
Drink deep or taste not the Pierian spring ;  
Their shallow draughts intoxicate the brain,

होते हुए भी, अकेले राम ने अपने पौरुष के बल पर, समूण्डं राक्षस-कुल का विनाश किया। इससे सिद्ध हुआ कि महान् पुरुषों की क्रिया की सिद्धि बाहरी साधनों पर नहीं, वरन् उनके अपने निजी पौरुष पर निर्भर होती है।

## २७४

(२) दूसरे कवि ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

रथस्त्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त तुरगाः  
निरालबो मार्गश्चरणरहितः सारथिरपि ।  
रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

**भावार्थः**—सूर्य ऐसे रथ पर सवार है, जो केवल एक पहिये पर चलता है। उसमें सात धोडे जुते हुए हैं और उन धोडों को काढ़ू में रखने के लिए जो तगाम है, वह भयानक विर्यें सर्पों की बनी हुई है। रथ भी जिस मार्ग पर चलता है, वह शून्य आकाश में है, जिसका कोई अवलम्बन नहीं है। अरुण जो उसका सारथि है, वह विना चरण के है। तो भी, इन सब कठिनाइयों के होते हुए, सूर्य प्रतिदिन अनन्त आकाश के इस पार से उस पार तक चक्कर लगाता रहता है। तो सिद्ध हुआ कि महान् पुरुषों के कार्य यी सिद्धि बाहरी साधनों पर नहीं, बल्कि उनके अपने आन्तरिक साहस और बल पर निर्भर होती है।

## २७५

(३) तीसरे कवि ने समस्या को पूर्ति अगस्त्य मुनि का उदाहरण देकर की—

घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं  
बने वासः कल्पाशनमपि च दुःस्यं वपुरिदम् ।  
तथाप्येकोऽगस्त्यः सकलमपिवदारिधिजतं  
क्रियात्सिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

**भावार्थः**—अगस्त्य ऋषि पैदा हुए थे घड़े में, कोई ऊंचे कुल के भी नहीं थे। मृग उनके परिजन थे। भौजपत्र उनका वसन था। वन में उनका निवास था। कल्प मूल उनका आहार था। ऐसे संकट में पला उनका दुर्बल शरीर था। तथापि वह शक्तें सारे समुद्र का जल पी गये। इससे सिद्ध होता है कि महान् पुरुषों के कार्यों की सिद्धि बाहरी साधनों पर नहीं, बरन अपने आन्तरिक बल प्रीरण पर अवश्यित होती है।

## २७६

(४) चौथे कवि ने कामदेव का उदाहरण देकर समस्या पूर्ति की—

घनुः पौष्टं मौर्वो मधुकरमयो चंचलदृशां  
दृशां कोणो वाणः सुहृष्पि जड़ात्मा हिमकरः ।  
तथाप्येकोऽनंगस्त्रभुवनमपि व्याकुलयति  
क्रियात्सिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

होते हुए भी, अकेले राम ने अपने पौरुष के बल पर, समूण्ड राक्षस-कुल का विनाश किया। इससे सिद्ध हुआ कि महाद्व पुरुषों की क्रिया की सिद्धि बाहरी साधनों पर नहीं, वरन् उनके अपने निजी पौरुष पर निर्भर होती है।

## २७४

(२) दूसरे कवि ने समस्या की पूर्ति इस प्रकार की—

रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्त तुरगाः  
निरालबो मार्गश्चरणरहितः सारथिरपि ।  
रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्थ नभसः  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महता नोपकरणे ॥

भावार्थ—सूर्य ऐसे रथ पर सवार है, जो केवल एक पहिये पर चलता है। उसमें सात घोड़े जुते हुए हैं और उन घोड़ों को काढ़ू में रखने के लिए जो लगाम है, वह भयानक विषये सर्पों को बनी हुई है। रथ भी जिस मार्ग पर चलता है, वह शून्य आकाश में है, जिसका कोई अवलम्बन नहीं है। अरुण जो उसका सारथि है, वह विना चरण के है। तो भी, इन सब कठिनाइयों के होते हुए, सूर्य प्रतिदिन अनन्त आकाश के इस पार से उस पार तक चक्कर लगाता रहता है। तो सिद्ध हुआ कि महान् पुरुषों के कार्य की सिद्धि बाहरी साधनों पर नहीं, बल्कि उनके अपने आन्तरिक साहस और बल पर निर्भर होती है।

## २७५

(३) तीसरे कवि ने समस्या की पूर्ति अगस्त्य मुनि का उदाहरण देकर की—

घटो जन्मस्यानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं  
बने वासः कन्दाशनमपि च दुःस्थं वपुरिदम् ।  
तथाप्येकोऽगस्त्यः सकलमपिवद्वारिधिजलं  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

**भावार्थः**—अगस्त्य ऋषि पैदा हुए थे घडे मे, कोई कंचे कुल के भी नहीं थे । मृग उनके परिजन थे । भोजपत्र उनका वसन था । बन मे उनका निवास था । कन्द मूल उनका आहार था । ऐसे सकट मे पला उनका दुर्बल शरीर था । तथापि वह अकेले सारे समुद्र का जल पी गये । इससे सिद्ध होता है कि महान् पुरुषों के कार्यों को सिद्ध बाहरी साधनों पर नहीं, बरन अपने आन्तरिक धर्म और पीछ्य पर अवलम्बित होती है ।

## २७६

(४) चौथे कवि ने कामदेव का उदाहरण देकर समस्या पूर्ति की—

धनुः पौष्णं भौर्वीं भधुकरमयी चंचलदृशां  
दृशां कोणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः ।  
तथाप्येकोऽनंगस्त्रभुवनमपि व्याकुलपति  
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे ॥

And drinking largely sobers us again.  
—Pope

## २७८

शिरःशावं स्वर्गात्पशुपतिशिरस्तः क्षितिघरं  
महोद्ध्रादुत्तुंगादवनिमवनेश्चापि जलधिम् ।  
अधोऽधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमधुना  
विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥

**भावार्थः**—गगा पहले आकाश से महादेव जी के सिर पर गिरी, महादेव जो के सिर से हिमालय जैसे ऊचे पर्वत पर गिरी, पर्वत से पृथ्वी पर गिरी, पृथ्वी से समुद्र मे गिरी—इस तरह लगातार गिरती ही गयी और अब वह एक छोटे-से प्रवाह के रूप मे बहने लगी । सच है, जो सोग विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं—जिनमे प्रच्छे-बुरे तथा छोटे-बड़े का विवेक नहीं रह जाता—उनका संकड़ो प्रकार से पतन होने लगता है ।

## २७९

पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विजातवान्  
रामेणापि कथं न हेमहरिणस्यासंभवो लक्षितः ।  
अक्षंश्चापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो ह्यनर्थः कथं  
प्रत्यासन्नविपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥

**भावार्थ**—रावण जैसा विद्वान् और नीतिनिपुण मनुष्य, पराई स्त्री वा हरण परने मे कोई दोष न देख सका, राम

जैसे महापुरुष सोने का भी कही मृग होता है इस बात को न समझ सके तथा युधिष्ठिर जैसे धर्मराज जुए के कारण अनर्थ को प्राप्त हुए। सच है जब किसी के ऊपर विपत्ति आने को होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुलसीदास ने भी कहा है—

“जाको प्रभु दासण दुख देही ।  
ताकी मति पहले हर लेही ॥”

२६०

सिंहश्चुणकरोन्द्रकुंभगलितं रवतावतमुवताफलं  
कान्तारे धदरीधिया द्रुतमगादभिलस्य पत्नो मुदा ।  
पाणिभ्यामवगुह्या शुबलकठिनं तद्वीक्ष्य दूरे जहा-  
वस्थाने पततामतोव महतामेतादृशी स्याद् गतिः ॥

**भावार्थः**—बन मे किसी भिलिनी ने, सिंह के पैने नखो से विदारित हाथी के गण्डस्थल से, गिरे हए तथा रुधिर से सने हुए लाल मोती को देखा और यह समझकर कि वह बेर का फल है, उसे हर्ष के मारे उठाने के लिए दौड़ी। परन्तु जब हाथ मे उसको लिया तो यह देखकर कि यह तो कोई सफेद और कढ़ी वस्तु है, उसको दूर फेंक दिया। ठीक है, यथोऽप्य स्यान मे जब कोई महान् पुरुष आ पड़ता है, तो उसकी यही दुर्गति होती है।

२६१

तस्याग्निर्जलमर्णवः स्थलमर्मित्रं सुराः किकराः  
कान्तारं नगरं गिरिर्गृहमहिमल्यं भूगर्भिर्मूर्गः ।

पातालं विलमस्त्रयुत्पलदलं व्यातः शृगालो विषं  
पोयुषं विषमं समं च वचनं यः सत्यमाभावते ॥

**भावार्थः**—जो सदा सत्य का पालन और सत्य का भाषण करता है, उसके लिए आग शीतल जल के समान बन जाती है, समुद्र स्थल बन जाता है, शत्रु मित्र हो जाता है, देवता लोग सेवक बन जाते हैं, वन नगर बन जाता है, सर्व पुण्यों की माला बन जाता है, सिंह मृग के समान वश में हो जाता है, पाताल विल बन जाता है, भयंकर अस्त्र कमल के समान कीमल हो जाता है, व्याल (मस्त हाथी) शृगाल (सियार) हो जाता है, विष अमृत हो जाता है और कठिन से कठिन वस्तु सरल हो जाती है। सत्य की अपार महिमा है !

## २८२

आरप्यरुदितं कृतं शवशारीरमुद्वर्त्तितं  
स्थलेऽव्यमवरोपितं सुचिरमूयरे विषतम् ।  
इवपुच्छमवनामितं बधिरकर्णजापः कृतो  
घृतोऽन्धमुखदपंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥

**भावार्थः**—मूर्ख मनुष्य की सेवा यैसे ही निरर्थक और निष्कल है, जैसे कि निर्जन वन में रोना, जहाँ कोई मुनने वाला नहीं, या मुद्दे के शरीर में बटना लगाना, या स्थल में कमल के पीछे को बोना, या कुत्ते को पूछ को सोधी करने का प्रयत्न करना, या बहिरे के कान में कहना, या घन्थे के मुख के सामने दर्पण का रखना ।

## २८३

सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न जायते ।  
मुखताकारतया तदेव नलिनोपत्रस्थितं राजते ।  
स्वातौ सागरशुभित्कुक्षिपतितं लज्जायते मौवितकं  
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संगात्सतो जायते ॥

**भावार्थः**—खूब गरम लोहे पर पड़े हुए जिस जल का नाम  
भी नहीं रहता, वही जल कमल-पत्र पर मोती की तरह चम-  
कता है। वही जल स्वाति नक्षत्र में, समुद्र के अन्दर, सौप में  
पड़कर मोती बन जाता है। अतएव सिद्ध हुआ कि सगति के  
अनुसार ही मनुष्य में प्रायः नीच, मध्यम और उत्तम गुण  
उत्पन्न होते हैं।

## २८४

शशो दिवसधूसरो गलितयोवना कामिनी  
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः ।  
प्रभुर्धनपरायणः सततदुर्गतः सज्जनो  
नृपांगणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥

**भावार्थः**—दिन के समय कुम्हलाया हुआ चन्द्रमा, जवानी  
खलो जाने पर मुर्झायी हुई सुन्दरी स्त्री, कमल-सूख जाने पर सूना  
सरोवर, निरक्षर मनुष्य का सुन्दर मुख, धन का लोभी मालिक,  
सदा दुर्गति में पड़ा हुआ सज्जन, राजा के दरबार में भैँड़-

भारने वाला दुष्ट मनुष्य—ये सात मन में कौटे की तरह खटकते हैं।

## २८५

कि कोकिलस्य विरुतेन गते वसन्ते  
 कि कातरस्य बहुशस्त्रपरिग्रहेण ।  
 मित्रेण कि व्यसनकालपराङ्मुखेन  
 कि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरेण ॥

**भावार्थः**—वसन्त ऋतु बोत जाने पर कोयल की क़ूक से क्या लाभ ? कायर मनुष्य को बहुत-से शस्त्रों से सुराजित कर देने से क्या लाभ ? विपत्ति पड़ने पर साथ छोड़ देने वाले मित्र से क्या लाभ ? मनुष्य निरक्षर होकर जिये, तो उससे क्या लाभ ?

## २८६

हंसो विभाति नलिनोदलपुंजमध्ये  
 सिहो विभाति गिरिगद्वरकन्दरासु ।  
 जात्यो विभाति तुरगो रणयुद्धमध्ये  
 विद्वान्विभाति पुरुषेषु विचक्षणेषु ॥

**भावार्थः**—जिस प्रकार हंस कमलो के समूह के बीच में शोभा पाता है, सिंह पहाड़ की गहरी गुफाओं के बीच में शोभा पाता है, अच्छी नस्ल का देग वाला घोड़ा रणभूमि में शोभा

पाता है, उसी प्रकार विद्वान् पुरुष पण्डितों के बीच में ही शोभा  
पाता है ।

## २८७

सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते  
घनान्धकारेष्वव दीपदर्शनम् ।  
सुखाच्च यो याति नरो दरिद्रतां  
धृतः शरीरेण मृतः स जीवति ॥

**भावार्थः**—दुख अनुभव करने के बाद, यदि सुख मिलता है तो वह वैसा ही शोभा देता है, जैसे कि घनधोर अन्धकार के बाद, दीपक जल जाने पर, उज्ज्वल प्रकाश शोभा देता है। परन्तु सुख अनुभव करने के बाद, जो मनुष्य दरिद्रता को प्राप्त होता है, वह जीता तो है, परन्तु वैसे ही जैसे मृत मनुष्य शरीर धारण किये रहता है ।

## २८८

मक्टस्य सुरापानं तत्य वृश्चकदंशनम् ।  
तन्मध्ये भूतसंचारो यद्वा तद्वा भविष्यति ॥

**भावार्थः**—वन्दर को शराब पिला दी जाय और उसके ऊपर बीच्छी उसको ढस ले और उसके ऊपर भी कोई प्रेत का थास उसके शरीर में हो जाय, तो फिर उसका क्या कहना ? जो न हो जाय सो थोड़ा है ।

दिवा पश्यति नोलूकः काको नवतं न पश्यति ।  
अपूर्वः कोऽपि कामान्धो दिवा नवतं न पश्यति ॥

**भावार्थः—**उल्लू दिन को नहीं देखता और कोआ रात को नहीं देखता । परन्तु कामान्ध मनुष्य उन दोनों से भी अनोखा है, जो न दिन को देखता है और न रात को ।

दन्तिदन्तसमानं हि निःमृतं महतां वचः ।  
कूर्मप्रीवेव नीचानां पुनरायाति याति च ॥

**भावार्थः—**बड़े लोगों के वचन हाथी के दान्त के समान होते हैं—एक बार निकले तो निकले, फिर बापस नहीं जाते । परन्तु नीच लोगों के वचन कछुवे की गर्दन के समान बार-बार निकलते हैं और बार-बार बापस चले जाते हैं । नीच अपनी बात पर टिकते नहीं, किन्तु बड़े लोगों की बात पत्थर की लकीर होती है ।

पतितोऽपि करायातेरुपतत्येव कन्दुकः ।  
प्रायेण ही सुवृत्तानामस्यायिन्यो विपत्तयः ॥

**भावार्थः—**गेन्द को कितना ही दवाओं प्रोत्र हाथ से कितनी ही बार गिराओ, किन्तु वह हर बार उछलकर ऊपर को चला

आता है। इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले पुरुषों को कितना ही दबाया जाय और कितनी ही विपत्तिया उनके ऊपर आ पड़े, पर वे दब नहीं सकते, विपत्तियों को पार करके ऊपर उठ ही आते हैं।

## २६२

**कुसुमस्तवकस्येव द्वयो वृत्तिर्मनस्त्वनः ।  
मूर्धिं वा सर्वलोकस्य शीर्घ्यते वन् एव वा ॥**

**भावार्थः—**पुरुषों के गुच्छों के समान मनस्वों और स्वाभिमानी पुरुषों की दो गति होती है, या तो वे सब लोगों के सिर पर चढ़े-सब लोगों से आदर पायेंगे अथवा एकान्त में रहकर सूख जायेंगे-विना भुके हुए अपना जीवन बिता देंगे। वृन्द कवि ने हिन्दी में इसका अनुवाद इस प्रकार किया है—

द्वे ही गति है वदन की, कुसुम मालती भाय।  
कं सब के सिर पर रहे, कं वन माहि बिलाय ॥

## २६३

**राजा कुलवधूविप्रा मंत्रिणश्च पयोधराः ।  
स्थानभ्रष्टा न शोभन्ते दन्ता. केशा नरा नखाः ॥**

**भावार्थ.—**राजा, कुतीन स्त्री, नाह्यण, मत्री, स्तन, दान्त, केश, नख और योग्य व्यक्ति जब अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं, तो शोभा नहीं देते। उनकी शोभा तभी तक है, जब तब वे अपने उचित और योग्य स्थान पर बने रहते हैं।

२६४

सदयं हृदयं यस्य भावितं सत्यभूपितम् ।

कायः परहितो यस्य कलिस्तस्य करोति किम् ॥

**भावार्थ**—जिसका हृदय दया से परिपूर्ण है, जिसकी वाणी सत्य से अलगृहत है, जिसका शरीर दूसरों के हित में लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य का कलियुग वया विगाढ सकता है ?

२६५

व्यापारान्तरमुत्सृज्य वीक्षमाणो वद्यमुखम् ।

यो गृहेष्वेव निद्राति दरिद्राति स दुर्मतिः ॥

**भावार्थः**—सब काम छोड़कर जो केवल अपनी पत्नी का मुख देखता हुआ, घर में पड़ा सोता रहता है, वह मूर्खमति निस्तन्देह सदा दरिद्र बना रहता है ।

२६६

लोको मधुगजन्मा कृतकृतकर्मा न मद्मर्मा ।

इति रोपादिव कलिना बलिना संपीड्यते साधुः ॥

**भावार्थः**—इस कलियुग में साधु सज्जन लोग यहो दुर्मी रहते हैं, इसका कारण इस लोक में सुनिये—“सज्जन लोग एंदा तो हुए हैं मेरे युग में और काम परते हैं सत्ययुग ना, मेरे घर्म वा पालन नहीं करते”—इस कारण क्रोध में आश्र, बलियुग साधु सज्जन पुरुषों वो सताया करता है ।

२६७

परदारपरद्रव्यपरद्रोहपराङ्गमुखः ।

गंगा ब्रूते कदागत्य मामयं पावयिष्यति ॥

**भावार्थः**—गंगा जो स्वयं सब पतितों को पवित्र करने वाली हैं, कहती है कि जो मनुष्य पराई स्त्री, पराया धन और पराये से द्रोह—इन तीनों से विमुख है, ऐसा मनुष्य कब आयेगा और ऐसे में स्नान करके मुझे पवित्र करेगा । सदाचार की अद्भुत महिमा है !

२६८

विदुषां वदनाद्वाचः सहसा यान्ति नो वहिः ।

याताइचेन्न परांचन्ति द्विरदानां रदा इव ॥

**भावार्थः**—विद्वान् और सज्जनों के मुख से कोई बात, विना विचारे सहसा निकलती ही नहीं और यदि एक बार निकल गयी, तो उसको वह कभी वापस नहीं लेते, अपनी बात पर ढटे रहते हैं । जिस तरह हाथी के दाँत निकले तो निकले, फिर अन्दर नहो जाते । इसी इलोक का भाव लेकर हिन्दी का यह दोहा भी है—

रन सन्मुख पग सूर के, वचन कहे ते सन्त ।

निकस न पाढ़े होत हैं, ज्यो गयनद के दन्त ॥

२६९

अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहासः ।  
इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः ॥

**भावार्थः—** गोवर्धन-सप्तशती का यह लोक सच्चे प्रेम के बारे में है—जो बात दूसरों के मुँह से कही गयी गाली गिनी जायगी, वही बात यदि अपना प्रियतम कहे, तो केवल परिहास (हँसी मजाक) माना जायगा। सच है, सामान्य लकड़ी के जलने से जो धुँपा उठता है उसको तो “धूम” के नाम से पुकारा जाता है, वही यदि अगुरु के जलने से उठे, तो “धूप” कहलाता है। प्रेम का पन्थ निराला है।

३००

अकुले पतितो राजा मूर्खं पुत्रोहि पण्डितः ।  
निर्धनस्य धनी पुत्रस्त्वृणवन्मन्यते जगत् ॥

**भावार्थः—** नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य राजा हो जाय, मूर्ख मनुष्य का पुत्र पण्डित हो जाय, निर्धन पिता का पुत्र धनी हो जाय, तो उसके अभिमान का क्या ठिकाना? वह ससार को तिनके के समान मानने लगता है “प्यादे से फरजी भये कि तिरछे तिरछे जाय।”

३०१

अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनादरो भवति ।  
लोकः प्रयागवासी कूपोदके स्नानमाचरति ॥

**भावार्थः—** अति परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है प्रौढ़ रोज-रोज किसी के घर जाने से आदर नहीं रह जाता। इसी कारण देसो, प्रयाग के रहने वाले लोग, जहाँ गंगा, यमुना जैसी

दो वही नदियाँ वहती हैं, नदी में स्नान न करके कुएँ के पानी से स्नान करते हैं। यह अति परिचय का ही परिणाम है।

### ३०२

प्रमदा मदिरा लक्ष्मीविजया त्रिविधा सुरा । ०  
दृष्टैवदोन्मादयत्येका पीता चान्या तिसंचयात् ॥

**भाषार्थः**—प्रमदा, मदिरा और लक्ष्मी—ये तीन प्रकार की दराव हैं। प्रमदा देखने भाव से, मदिरा पीने से और लक्ष्मी अतिसंचय बनने से, मनुष्य को मतवाला बना देती हैं।

## संसार की असारता

३०३

क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः  
 क्षणं चित्तहीनः क्षणमपि च संपूर्णविभवः ।  
 जराजीर्णं रंगनेट इव वलीमण्डिततनुनेदः  
 संसारांके विशति यमधानीजवनिकाम् ॥

**भावार्थः**—नट जिस तरह नाटक में कभी बालक का प्रौर कभी युवा का, कभी रंग का और कभी राजा का, तथा कभी जप्पल बुड्ढे का पाठं अदा करके, पद्मे के पीछे चला जाता है, वैसे ही मनुष्य इस संसार-रूपी नाटक में, कभी बालक बनता है, उसके बाद कभी रसिक युवा बनता है, फिर कभी धनहीन दरिद्र बनता है और कभी सम्पूर्ण ऐश्वर्य से सुसज्जित होकर संसार का सुख भोगता है, तथा अन्त में जिसके सारे शरीर में झुरिया पड़ गयी हैं ऐसे जराजीर्ण बुड्ढे का स्वाग रचकर, अन्तिम पटाक्षेप के साथ यमपुरी रूपी पद्मे के पीछे द्विप जाता है ।

३०४

ववचिद्विद्वद्गोष्ठी ववचिदपि सुरामत्तकलहः  
 ववचिद्वीणानादः ववचिदपि च हाहेति ददितम् ।

ववचिद्रम्या रामा ववचिदपि जराजर्जरतनुर्न  
जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः ।

**भावार्थः**—कहीं विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ हो रहा है, तो कहीं शराब के नदों में घूर शराबी आपस में तू तू मैं मैं कर रहे हैं, कहीं बीणा की स्वर-लहरी झकार कर रही है तो कहीं हाहाकार और रोना-पीटना मचा हुआ है, कहीं सुन्दर से सुन्दर रूपवती रमणिया विलास कर रही है, तो कहीं बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाला कोई खूसट बुड़ा खास रहा है—पता नहीं यह ससार अमृत से पूर्ण सुन्दर सरोबर है या विष से भरा हुआ घड़ा है ।

३०४

दन्तः प्रस्थितमग्रतस्तद्बु भोः शौकल्यं धृतं मूर्धजैः  
कण्म्यामपि वाग्विलासरचना कष्टात्समाकर्ण्यते ।  
नेत्राम्यामपि चापलं युवतिषु त्ययतं गतं यौवनं  
साथेऽस्मिंश्चलिते कथं पुनरहं यातास्मि तच्चिन्तये ॥

**भावार्थ**—पहले तो दान्त चले गए, उनके पीछे वालों ने भी सफेदों धारण कर ली, उसके बाद कानों ने भी जबाब दे दिया और अब बड़े बष्ट से वारणी के विलास से पूर्ण रचना सुनायी पड़ती है । नेत्रों ने भी युवतियों के प्रति अपनी चचलता को त्याग दिया है—अब नेत्रों में कोई आकर्षण नहीं रह गया है । जवानी भी अब चली गयी है । ये सब साथी एक एक करके

साथ छोड़वर चले गये । अब मैं विना इन साथियों के कैसे जाऊँगा—यही मैं सोच रहा हूँ । एक उद्दूँ के कवि ने भी कुछ इसी ढंग पर कहा है—

“अब तमन्ना वेसदा है, अब निगाहें वेपयाम ।

जिन्दगी एक फर्ज है, जीता चला जाता है मैं ॥”

उद्दूँ का एक और शेर भी है—

वहारे खुसार आरजी है, खिजा घरावर लगी हुई है ।  
जवानी दो दिन की पाहुनी है, सदा किसी की नहीं रही है ॥

### ३०६

आदित्यस्य गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितं  
व्यापारेबंहुकायंभारगुह्यमिः कालोऽपि न ज्ञायते ।  
दृष्ट्वा जन्मजराविष्टिमरणं ब्रासश्च नोत्पद्यते  
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगत् ॥

**भाषार्थः**—प्रतिदिन सूर्य अस्ति होता है और उदय होता है, इस प्रकार जीवन का क्षय होता जा रहा है । अनेक सासारिक कार्यों और व्यापारों में व्यस्त रहते हुए, सभय जीता जा रहा है—इसका भी भाल कभी नहीं होता । प्रतिदिन जन्म, जरा, व्याधि और मरण को देखकर भी यह भय नहीं होता कि एक दिन मेरो भी यही दशा होने वाली है । इस प्रकार सारा ससार, मोह और अज्ञान से भरी हुई प्रमाद छपी मदिरा वो पीनर, भटवाला हो रहा है । ज्ञान कैसे हो ? भर्तुंहरि के इस श्लोक वा हिन्दी पद्धानुवाद किसी ने इस प्रकार किया है :—

उदे अस्त रवि होत श्रायु को क्षीण करत नित ।  
 गृह धन्दे के माहि समय वीतत अजान चित ॥  
 आखिन देखत जन्म जरा अरु विपति मरन नित ।  
 तहूँ ढरत नहि नेक शक हूँ नाहिं करत चित ॥  
 जग जीव भोह मदिरा पिए छाके फिरे प्रमाद मे ।  
 गिरत उठत फिर फिर गिरत विपय वासना स्वाद मे ॥

## ३०७

महाशय्या भूमिर्भूरणमुपधानं भुजलता  
 वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः ।  
 स्फुरन्दीपश्चन्द्रः स्वधृतिवनितासंगभुदितः  
 सुखं शान्तः शेते विगतभवभीतिनृप इव ॥

भावार्थः—विस्तृत भूमि ही जिसका पलग है, चिकनी भुजा ही जिसकी तकिया है, चारों ओर फैला हुआ भावास ही जिसका चन्दोवा है, ठड़ी ओर शरीर को सुग देने वाली हवा ही जिसका परा है, प्रबाशमान चन्द्रमा ही जिसका दीपक है, धूनि (धेय) ही जिसकी पत्नी है—ऐमा भनुष्य राजा के समान सुस ओर शान्ति के साथ, चिन्तारहित होनर, शयन करता है। भनृंहरि ने इस इलोक या हिन्दी भनुयाद जिसी ने इस प्रकार किया है—

पृथिवी परम पुनीत पलग ताको मन मान्यो ।  
 तविया भपनो हाय गगन को तम्बू तान्यो ॥  
 भोहत चन्द गिराग वीजास करत दगो दिशि ।  
 बनिता भपनी वृत्ति गगही रहग दिवम निशि ॥

अतुलित अपार संपत्ति सहित सोबत है सुख में मगन ।  
मुनिराज महा नृपराज ज्यों पौढ़े देखे हम दगन ॥

## ३०५

व्याघ्रोवं तिष्ठति जरा परितज्यन्ती  
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् ।  
आयुः परिस्तवति भिन्नघटादिवांभो  
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम् ॥

**नावाथं**.—वृद्धावस्था शेरनी के समान सामने खड़ी हुई डरा  
रही है, रोग शशु के समान प्रहार कर रहे हैं, आयु का एक  
एक क्षण उसी प्रकार निकलता चला जा रहा है, जिस प्रकार  
कि छेदहे घडे से पानी एक-एक वून्द करके वह जाता है—  
तथापि मनुष्य बुराई करने से नहीं चूकता, यह महान् आश्चर्य  
की बात है। कहाकवि अबद्वर ने भी यही कहा है—

दिन गुजरते ही चले जाते हैं  
लोग मरते ही चले जाते हैं।  
जानते हैं कि यह गफलत के हैं काम  
फिर भी करते ही चले जाते हैं ॥

## ३०६

भेको धावति तं च धावति फणी सर्व शिखो धावति  
ध्याघ्रो धावति केकिनं विधिवशात् व्याघोऽपि तं धावति ।

स्वस्वाहारविहारसाधनविधी सर्वे जना व्याकुलाः  
कालस्तिष्ठति पृष्ठतः कच्चधरः केनापि नो दृश्यते ॥

**भावार्थः**—मेढ़क दोड़ा जा रहा है, उसको खाने के लिए उसके पीछे मोर दोड़ रहा है, साप को खाने के लिए उसके पीछे शेर दोड़ रहा है, और भाग्य का खेल तो देखो कि शेर के पीछे उसका शिकार करने के लिए व्याधा (शिकारी) दोड़ रहा है। इस प्रकार अपने-अपने आहार-विहार का साधन जुटाने में ही सब लोग व्यग्र हैं। कोई नहीं देखता कि महाबलों काल उसका बाल पकड़े हुए, उसके पीछे खड़ा है।

### ३१०

सा रम्या नगरी महान् स नृपतिः सामातचक्रं च तत्  
पाश्वे तस्य च सा विदग्धपरिपत्ताश्चन्द्रविम्बाननाः ।  
उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिवहस्ते वन्दिनस्ताः कथाः  
सर्वं यस्य वशादगात्स्मृतिपर्यं कालय तस्मै नमः ॥

**भावार्थः**—वे भन लुभाने वाली, सर्व-सम्पन्न, सुसज्जित राजधानिया, वे बड़े-बड़े राजे और महाराजे, वे धूरबीर सामन्त और जागीरदार, उनके दरवार में बड़े-बड़े युद्धिमान, विद्वान्, दरवारी और सभासद, वे चन्द्रमुखी रानिया और पटरानिया, वे सत्ता वे मद में भतवाले राजरुमार, वे सुनि और प्रसादा करने वाले चारण और भाट तथा उनकी स्तुति-कथाएं और

कविताए—वे सब जिस काल के चक्कर में आकर अब केवल स्मरणमात्र में थोप रह गये हैं, उनकी अब केवल याद ही बाकी रह गयी है, उस काल को मेरा नमस्कार है !

## ३११

वयमिह परितुष्टा वल्कलेस्त्वं दुकूत्वः  
 । सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः ।  
 स हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला  
 मनसि च परितुष्टे कोऽथंवान् को दरिद्रः ॥

**भावार्थः**—कोई सन्तोषी ज्ञानी पुरुष किसी राजा से कहता हैः—राजद, तू हमे दरिद्र समझता है, पर हम दरिद्र नहीं हैं। तू शाल-दुशालो से सन्तुष्ट होता है, तो हम पेड़ की छाल के बस्त्र पहिनकर सन्तुष्ट हो जाते हैं। जब दोनों प्रकार से सन्तोष हो जाता है, तब फिर अन्तर क्या रहा ? दरिद्र तो वह है जिसकी तृष्णा बड़ी हो। जब मन सन्तुष्ट है, तो फिर कौन धनी और कौन निर्धन ? इसी भाव का कबीर का यह दोहरा भी हैः—

गोधन गजधन याजिधन, और रत्न धन खान ।  
 जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि सभान ॥

## ३१२

यदं येन्यो जाताश्चरपरिगता एव खलु ते  
 समं यं: संवृद्धाः स्मरणपद्मो तेऽपि गमिताः ।

इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना  
गतास्तुल्यावस्थां सिक्तिलनदीतीरतरुभिः ॥

**भावार्थः**—हम जिनसे पैदा हुए, वे हमारे माता-पिता बहुत पहले ही इस ससार से कूच कर गये। जिनके साथ खेले-खाये और बड़े हुए, वे हमारे मित्र और बन्धुगण भी अब केवल स्मरणमात्र में शेष रह गये हैं। यद्य तो हमारी दशा किसी नदी के रेतीले किनारे पर उगे हुए, उस वृक्ष के समान हो गई है, जो किसी क्षण भी नदीके प्रवाह के झोके से लड़खड़ा कर, गिरने ही वाला है।

: ३१३

मातलदिम भजस्व कंचिदपरं मत्कांक्षिणी मास्म भू-  
र्भोगेभ्यः स्पृहयालवो न हि वयं का निःस्पृहाणामसि ।  
सद्यः स्यूतपलाशपत्रपुटके पात्रे पवित्रोकृते  
भिक्षासवतुभिरेव संप्रति वयं वृत्ति समीहामहे ॥

**भावार्थः**—माता लक्ष्मी, किसी दूसरे के पास जाग्रो, मेरी आकाशा भत करो। भोगो की ओर भव मेरी कोई इच्छा नहीं रह गयी है। जिसकी कोई इच्छा नहीं रही है, उसके लिए तुम तिनके के समान हो। भव तो मैं ताजे पत्ते से बनाये हुए पवित्र दोने में, भिक्षा से प्राप्त सत्तू से ही, अपना गुजारा कर लेता हूँ। मुझे भी तुम्ह नहीं चाहिये।

३१४

भोगा न भुवता वयमेव भुवता-  
 स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः ।  
 कालो न यातो वयमेव याता-  
 स्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥

**भावार्थ.**—हम कहते हैं कि भोगो को हमने भोगा है, परन्तु वास्तव में हमने भोगो को नहीं भोगा है, भोगो ने ही हमें भोग डाला है। हम कहते हैं कि तपो को हमने तपा है, परन्तु वास्तव में तपो ने ही हमें तप डाला है। हम कहते हैं कि काल चला गया है, पर वास्तव में काल तो वही का वही है, हमों चले गये हैं। इसी प्रकार तृष्णा और लालसाएं जीर्ण नहीं हुई हैं, परन्तु हमीं जीर्ण हो गये हैं। इसका भावानुवाद हिन्दी में किसी ने इस प्रकार किया है—

भोग रहे भरपूर आयु यह भुगत गई सब ।  
 तपो नाहि तप मूढ अवस्था तपत भई अब ॥  
 काल न कितहौं जात वयस यह चली जात नित ।  
 वृद्ध भई नहि आस वृद्ध वय भई छाडि हित ॥  
 अजहौं अचेत चित चेत वर देह गेह सो नेह तज ।  
 दुख दोप हरण मगल करन श्री हरिहर के चरण भज ॥

३१५

संसार तव निस्तारपदवी न द्वीयसी ।  
 अन्तरा दुस्तरा न स्युर्यदि रे मदिरेक्षणाः ॥

**भावार्थः—**हे ससार ! तुम्हे पार कर जाने का रास्ता दूर  
 न होता, यदि बीच मे विघ्न-हृप ये मतवाले नेत्रवाली स्त्रिया न  
 आ जाती । किसी हिन्दी कवि ने इसका पद्यानुवाद इस प्रकार  
 किया है—

जो होती नहि नार, मदमाती मृगलोचनी ।

जग के परली पार, गमन न दुलंभ कछुक था ॥

इसी भाव को लेकर विहारी का यह दोहा भी है—

या भव पारावार को, उलधि पार को जाय ।

तियछवि छाया ग्राहनी, गहै बोच ही आय ॥

अकबर ने भी अपने हास्य रस मे कहा है—

“चिपकू दुनिया से किस तरह मैं ।

ओरत ने कहा कि गोद मैं हूँ ॥”

### ३१६

**सोकः पृच्छति सद्वात्ती शरीरे कुशलं तथ ।**

**कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने ॥**

**भावार्थः—**जोग पूछते हैं—“भाई, शरीर कुशल से तो है ?” ऐ  
 वहता है “कुशल कहाँ से है, जबकि आयु दिन पर दिन क्षीण  
 होती चली जा रही है ?” इसी भाव का एक उद्भव दोर भी है—

जोग दुआ देते हैं साल-गिरह वी ।

याएक साल और गयी अपने गिरह वी ॥

एक और कवि वहता है—

सुवह होती है नाम होती है ।

उम्र यो ही तमाम होती है ॥

३१७

मृत्योविभेषि कि सूढ़ भीतं भुञ्चति कि यमः ।  
अजातं नैव गृह्णति कुरु यत्नमजन्मनि ॥

**भावार्थः—**—रे मूर्ख ! तू मृत्यु से क्यो डर रहा है ? मृत्यु से डरने वाले को यमराज क्या छोड़ देता है ? हाँ, जो जन्मा ही नहीं है, उसे यमराज नहीं पकड़ता, अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि सदा के लिए मोक्ष ही जाय, फिर जन्म ही न लेना पडे ।

सुवर्णस्य मे मुख्यदुःखं तदेकं  
यतो मां जना गुञ्जया तोलयन्ति ॥

**भावार्थः**—योग्य को अयोग्य के साथ तुलना करने से क्या दुःख होता है, इसी बात को लक्ष्य करके यह अन्योक्ति है। सोना कहता है—मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मुझे लोग आग में तपाते हैं और हथौडे से पीटते हैं, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि लोग मुझे बाजारों में जहाँ-तहाँ बेचते हैं। परन्तु दुःख है तो इस बात का, कि लोग मुझे तुच्छ गुंजा (धूंगची) के साथ तौलते हैं, मेरी बराबरी गुंजा के साथ करते हैं!

३२०

यद्वक्त्रं मुहुरीक्षसे न धनिनां ब्रूषे न चाहून्मृषा  
नैयां गर्वंगिरः शृणोयि न च तान्प्रत्याशया धावसि ।  
काले बालवृणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे  
तन्मे ब्रह्मि कुरंग कुत्र भवता किनाम तप्तं तपः ॥

**भावार्थः**—किसी धनी मनुष्य से अपमानित किया गया कवि, मृग को सबोधन करके, कहता है:—हे मृग, जो तुमको धनियों का मुख बारबार नहीं देखना पड़ता, उनके सामने जाकर व्यर्थ में उनकी चाटुकारी नहीं करनी पड़ती, उनकी गर्व-भरी वाणी सुननी नहीं पड़ती, उनके पास प्राप्ति की श्राशा से बार-बार दौड़ना नहीं पड़ता, भूख लगने पर कोमल धास खाकर अपना पेट भर लेते हो, नीद आने पर निश्चन्त सो लेते हो—तो

हे मृग, मुझे भी बताओ, कौन-मा तप और कहा तुमने किया कि यह सब तुमका प्राप्त है, जो मुझको प्राप्त नहीं है ?

३२१

हेलोल्लासितकल्लोल धिक्ते सागर गजितम् ।  
तव तीरे तृपाक्रान्तः पान्थः पृच्छति कूपिकाम् ॥

**भावार्थ.**—हे समुद्र, बड़ी-बड़ी उत्ताल लहरों के साथ तू गजता है । तेरे गजने को धिक्कार है । क्यों कि तेरे रहते हुए भी, प्यासे परिक को तेरे किनारे पर स्थित किसी कुएं पर, अपनी प्यास चुभाने के लिये, जाना पड़ता है । इसी भाव को रहीम ने इस प्रकार प्रगट किया है—

धनि रहीम जल कूप को, लघु जिय पियत अधाय ।  
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय ॥

३२२

यद्यपि का नो हानिः परकीयां द्राक्षा रासभश्चरति ।  
असमजसमिति भत्वा तथापि नो खिद्यते चेतः ॥

**भावार्थः**—अयोग्य या अपात्र को ऊँचा पद मिल जाय या जिसके योग्य वह नहीं है वह वस्तु उसको मिल जाय, तो देखने वाले विवेकी मनुष्य को खलता है, इसी बात को लक्ष्य करके यह अन्योक्ति है—यद्यपि अगूर की खेती हमारी नहीं है, किसी दूसरे की है । और यदि कोई गदहा उसे चरता है तो उसमें हमारी क्या हानि है ? परन्तु यह एक अत्यन्त अटपटी और

अनुचित वात है कि गदहा अंगूर की खेती चरे, इससे हमारा मन खिन्न हो रहा है।

३२३

धीरध्वनिभिरलं ते नीरद मे मासिको गर्भः ।

उन्मदवारणाद्युद्धया मध्येजठरं समुच्छलति ॥

**भावार्थः**—एक सिंहिनी जिसके केवल एक मास का गर्भ पेट मे है, गर्जते हुए मेघ को सबोधन करके कहती हैः—हे मेघ, मत गरज ! मत गरज ! अपने इस गम्भीर नाद को बन्द कर ! देखता नहीं है कि एक मास का गर्भ मेरे पेट मे है। वह यह समझकर कि कोई मतवाला हाथो चिंधाड रहा है, मेरे पेट में उछल रहा है कि बाहर निकलें और इसे पछाड़ें। यह इलोक वीर रस का भी एक उत्तम उदाहरण है। इसके एक-एक शब्द से वीर रस टपक रहा है। इसका हिन्दी अनुवाद किसी ने इस प्रकार किया हैः—

अहो मेघ मति गरजु अब, मेरो मासिक गर्भ ।

जानि मत्तगज उदरमधि, उद्धलत आज सगर्व ॥

३२४

त्वयि वर्षति पर्जन्ये सर्वे पल्लविता द्रुमाः ।

अस्माकमर्कवृक्षाणां पूर्वपत्रेऽपि संशयः ॥

**भावार्थः**—वर्षा होने पर सब पेड़ पल्लव हरे-भरे हो जाते हैं, परन्तु भदार का पेड़ उलटा सूख जाता है, इस पर भदार का पेड़ मेघ को सम्बोधन करके कहता हैः—हे मेघ, तुम्हारे वरसने पर

सब पेड़तो हरे-भरे हो गये, सबो पर पत्ते ढां गये । परन्तु, हम मदार के पेडो का यह हाल है कि हमारे पत्ते जो पहले थे, उनके भी चले जाने की शका हो रही है । यह भाग्य का खेल है ।

## ३२५

भीतो वाढ़वासतो जलनिधौं शंभोः शिरः स्वीकृतं  
तत्र ऋम्बकमीलिवासुकिविपञ्चालावलोत्रासितः ।  
तस्माल्लोकमगाद्विं निपतितस्तत्रैव राहोमुखं  
प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥

**भावार्थ :**—अभागा मनुष्य कही भी जाय, विपत्ति उसका कभी साथ नहीं छोड़ती-इस पर चन्द्रमा को सद्य करके यह अन्योवित है :—

चन्द्रमा का असली निवास समुद्र है । वहाँ वाढ़वानि से बचने के लिये, उसने भगवान् शिव के शिर में शरण लेकर रहना स्वीकार किया । वहाँ शिव को जटा में रहने वाले नाग वासुकि के विप की ज्वाला से भयभीत होकर, वह आकाश में रहने लगा । परन्तु वहाँ भी उसको चैन नहीं मिला । वहाँ राहु उसको ग्रसने के लिये सदा तैयार रहता है । सच है, भाग्य-रहित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ वहाँ विपत्ति भी उसके साथ साथ लगी रहती है ।

## ३२६

रात्रिर्गमिष्यति	भविष्यति	सुप्रभातं
भास्वानुदेष्यति	हसिष्यति	पंकजधी ।

इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेके  
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ।

**भावार्थ :**—एक भौंरा सन्ध्या समय एक कमल के पुष्प पर, उसका रस पीने के लिये, आकर बैठा । इतने में सूर्य छिप गया और कमल का पुष्प मुन्द जाने से, भौंरा उसी के अन्दर बन्द हो कर सोचने लगा —

“रात बीतेगी, सुन्दर प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों की शोभा खिलेगी” । इस प्रकार जब भौंरा सोच ही रहा था कि एक मस्त हाथों आया और उसने कमल को नाल-सहित उखाड़ कर केक दिया । मनुष्य कितनी आशा लगाता है, पर विद्याता के मन में नहीं होता, वो कोई आशा पूरी नहीं होतो, “अपने मन कुछ और है धाता के कुछ और” । इसी भाव को लेकर यह अन्योक्ति है । हिन्दी पद्म में इसका अनुवाद किसी ने इस प्रकार किया है —

आयो एक भ्रमर प्रफुल्लित सरोज पास,  
मजु मक्खरन्द के सनेह जाल परिके ।  
कहै कुमुमाकर दिवाकर विदा हूँ गये,  
मुदि गो सरोज भीरे रह्यो डरिके ॥  
बीतेगी विभावरी प्रकाश भानु दझै तब,  
जैहो कहू बाहर सपासो हो निकरिके ।  
सोचति ही रहि गो उपाय इमि जों लौ वह,  
तोलो गज तोडो आय पाखुरी पकरिके ॥

३२७

शीत्यं नाम गुणस्तवैव सहजः स्वाभाविकी स्वच्छता  
कि भ्रमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पर्शेन पस्यापरे ।  
कि वातः परमुच्यते स्तुतिपदं यज्जीवनं देहिनां  
त्वं चेन्नीचपयेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोद्धूङ्क्षमः ॥

**भावार्थ :**—सब गुणों से विभूषित होने पर भी यदि कोई  
नीन मार्ग का अवलम्बन करे तो उसको कोन रोक सकता है,  
इसी भाव को लेकर जल के सबन्ध में यह अन्योक्ति है :—हे  
जल, शीतलता तुम्हारा एक सहज गुण है, स्वच्छता तुम्हारा  
स्वभाव है, तुम्हारी पवित्रता के बारे में क्या कहे—तुम इतने  
पवित्र हो कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से दूसरे पवित्र हो जाते हैं ।  
इससे बढ़कर और क्या तुम्हारी स्तुति में वह मरते हैं, कि तुम  
प्राणीमात्र के जीवन हो । इनने पर भी यदि तुम नोच मार्ग पर  
जाते हो, तो तुम्हे कोन रोक सकता है ? जल सदा नीचे की  
ओर बहना है, इसी पर यह अन्योक्ति है ।

३२८

अन्यासु तावदुपमदसहासु भृग्न  
लोलं यिलोलय मनः सुमनोलतासु ।  
मुग्धामजातरजसं फलिकामकाले  
वरलां कदर्यंयसि कि नवमल्लिकायाः ॥

**भावार्थ :**—रे भ्रमर, अभो तू ऐसो पुष्प-लताओ पर, जो तेरा मर्दन और भार सह सकें, जाकर अपना मनो-विनोद कर। इस नवमत्तिलका की नन्ही कली को, जिसके खिलने का अभो समय भी नहीं है और न जिसमें अभो पराग हो आया है; व्यर्थ को क्यों तंग कर रहा है ? इसो भाव का एक दूसरा श्लोक भी नीचे देखिये ।

## ३२६

यावन्न कोषविकासं प्राप्नोतीष्मालती-कलिका ।  
मकरन्दपानलोभयुक्त भ्रमर तावदेव मर्दयसि ॥

**भावार्थ :**—अभी तो वह मालती की कली थोड़ी छिली भी नहीं है। ऐ रस का लोभी भाँरा, तू अभी से ही उसका मर्दन करने लगा !

इन दोनों ऊपर दिये गये श्लोकों का भाव लेकर ही, विहारो ने अपना यह प्रसिद्ध दोहा, जयपुर के प्रसिद्ध महाराज जर्मसिंह को चेतावनी के रूप में लिखा था :—

नहि पराग नहि मधुर मधु, नहि विकास को काल ।  
अली कली ही सो फंस्यों, आगे कौन हवाल ॥

## ३३०

स्थिर्ति रे नो दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण सखे  
गजश्वेणोनाथ त्वमिह जटिलायां वनभुवि ।

असौ कुंभिभ्रान्त्या खरनिखरविद्रावितमहा-  
गुरुग्रावग्रामः स्वपिति गिरिगर्भे हरिपतिः ॥

**भावार्थ :**—किसी कचे पद या स्थान पर कोई मनुष्य तभी तक कब्जा जमाये रहता है, जब तक कि कोई दूसरा योग्य व्यक्ति उस पर अधिकार करने के लिये नहीं आता। योग्य व्यक्ति के आने पर फिर उसको भागना पड़ता है। इसी भाव की यह अन्योक्ति है। कवि किसी मतवाले हाथी को सम्बोधन करके कहता है:—रे गजराज, तेरी आँखें मद से अन्धी हो रही हैं, तुझे सूझ नहीं पड़ता कि जिस गहन वनमें तू प्रभी ठहरा है, वहीं तेरा रहना ठीक नहीं है। हे मिथ, मैं तुम्हे सलाह देता हूँ कि अपना भला चाहते हो, तो यहाँ से तुरन्त चले जाओ। वयोवि मृगराज सिंह, हाथी के भ्रम से, अपने तीकण नसों से, पत्थर की बड़ी शिला बो विदीणं करने के बाद, देसो, पहाड़ परी गुफा में सो रहा है। जागेगा तो तुम्हारा कही पता भी नहीं चलेगा। पण्डितराज जगन्नाथ की इस अन्योक्ति या हिन्दी पद्यानुवाद विसी ने इस प्रकार किया है:—

स्वामी फुजरदृन्द के इस घने पान्तार में भीतर  
रे एव क्षण भी न तू ठहरना उन्माद में पावर।  
हाथी जान शिला विदीणं परके पैने नसी से निरी  
सोता है गिरिगर्भ में यह महाभीमाष्टी बेसरो ॥

३३१

नीरकीरवियेके हंसालस्यं त्वमेव तनुये चेत् ।  
दिश्यस्मिन्लपुनान्यः कुलप्रतं पालयिष्यति षः ॥

**भावार्थः**—ऐसा कहते हैं कि हस नीर और क्षीर (दूध और पानी) को अलग-अलग करके, दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, यही उसका स्वाभाविक धर्म है। इस पर कवि की अन्योक्ति है—हे हस, नीर और क्षीर का विवेक करने में यदि तुम्हीं आलस्य और ढील करोगे, तो बताओ इस सरार में फिर कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा? हिन्दी के किसी कवि ने पण्डितराज जगन्नाथ की इस अन्योक्ति का अनुवाद इस प्रकार किया है:—

नहिं करिहो जब हस तुम, नीर छीर पहचान ।  
रखिहै कुल मरजाद तब, जग मैंह कौन सुजान ॥

## ३३२

समुपागतवति दैवादवहेलां कुटज मधुकरे माङ्गाः ।  
मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः ॥

**भावार्थः**—कोई गुणी, विद्वान्, प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि किसी साधारण मनुष्य के यहाँ दैवात् चला जाय, तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिये। इसी भाव को इस अन्योक्ति में प्रगट किया गया है:—हे कुटज, तेरा अहोभाग्य है जो यह भौंरा तेरे पास भकस्मात् आ गया है। यह तेरे जैसे पुष्पों के पास आता कहाँ है? इसकी प्रतिष्ठा तो चे कमल करते हैं जिनमें मकरन्द दूस ठूस कर भरा हुआ है। इसका पथानुवाद हिन्दी में इस प्रकार है—

बडे भाग आयो मधुप, कुटज न वह अपभान !  
यह धिशेय भकरन्दजुत, यमलन के मेहमान ॥

३३३

तावत् कोकिलं विरसान्  
यापय दिवसान् वनान्तरे निवसन् ।  
यावन् मिलदलिमालः  
कोडपि रसालः समुल्लसति ॥

**भाषार्थः**—जब तक अपनी योग्यता और प्रतिष्ठा के अनुकूल समय न आवे, तब तक भनुष्य को कही बैठकर अपने प्रतिकूल समय को काटते हुए, चुपचाप अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए । इसी भाव को लक्ष्य करके यह अन्योक्ति कही गयी है :—हे कोकिल, तब तक अपने प्रतिकूल इन नीरस दिनों को किसी वन में बस कर चुपचाप काट देना चाहिये, जब तक कि आम के वृक्षों पर फिर मंजरी न आ जाय और भीरे फिर उस पर मढ़राने न लगें । पण्डितराज जगन्नाथ की इस अन्योक्ति का हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार है :—

वितवहु कोकिलं भनत वसि, नीरम दिवस विमाल ।  
नहि जवतों भलिमालजुत, विलसत गरस रमाल ॥

३३४

येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायियत ।  
कुटजे एलु तेनेहा तेने हा मधुकरेण कयम् ॥

**भाषार्थः**—जिस भीरे ने अपनी उम्र के सारे दिन शिले हुए एम्बस के पुर्णों में विनाये थे, यही घब निष्ठा कुटज के

पुण्यों के साथ प्रेमकरने लगा, इससे बढ़ कर खेद की बात और क्या है ? किसी कवि ने इसका हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार किया है :—

बहु दिन विकसित कमल मंह, वितयो मधुकर जीन ।  
हा ! अब कैसे कुटज मंह, परम प्रेम कियो तीन ॥

## ३३५

पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खलत्  
परागसुरभीकृते पयसि यस्य पातं वयः ।  
स पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकमेकाकुले  
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम् ॥

**भावार्थः**—पहले जो अच्छी दशा में रहा हो, बाद में उसकी दशा बिगड़ जाने से कंसी शोचनीय परिस्थिति हो जाती है, इसी भाव को इस अन्योक्ति में दर्शाया गया है :—पहले जिस राजहंस ने अपनी सारी आयु ऐसे मानसरोवर में वितायी हो, जिसका जल सारसों की पंक्ति से विखरे हुए कमल के पराग से सुरभित हो रहा था, वह अब एक गन्दे जलवाले तालाब में, जहाँ मेढ़कों के समूह अपनी टर-टर लगाये हुए हैं, वहाँ ओ अब कैसे अपना दिन वितावे ? पण्डितराज जगन्नाथ की इस अन्योक्ति का किसी कवि ने हिन्दी पद्यानुवाद इस प्रकार किया है :—

जो परागजुत पद्य गन्ध तं नीर सुवासित,  
मानसरोवर माँहि वितायो वय अपनो नित ।

सो अनेक मंडूक-सहित पल्वल में ह वासर ,  
कहो वितावे कस मराल कुलनाथ गुणाकर ॥

३३६

मुंच मुंच सलिलं दयानिधे  
नास्ति नास्ति समयो विलम्बने ।  
अद्य चातककुले मृते पुन-  
वारि वारिधर कि करिष्यति ॥

**भावार्थः**—समय पर दान देने से लाभ होता है, समय बीत जाने पर उस दान से क्या लाभ ? ‘का वर्षा जब वृष्टि सुखाने’—इसी भाव को लेकर यह अन्योक्ति है:—हे दया के सामर मेघ ! शीघ्र-शीघ्र अपने जल की वर्षा करो,- विलम्ब करने का समय अब नहीं रहा । जब चातक सब मर जायेगे; तब फिर तुम्हारे जल का दान देने से क्या लाभ ?

३३७

पाटीर तव पटोयान् कः परिपाटीमिमामुरोकत्तुम् ।  
यत्पिपत्तामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोपि परिमत्तः पुष्टिम् ॥

**भावार्थः**—अपकार करने वाले के प्रति भी जो उपकार वरता है, वह धन्य है । इसी भाव की यह अन्योक्ति है:—हे चन्दन, तुम्हें जो पीसते हैं उनमो तुम अपने परिमत से पुष्टि देते हो—तुम्हारी इस भनोसी परिपाटी का तुम्हारे सिवा और यौन पासन कर सकता है ? पण्डितराज जगन्नाथ की इस

अन्योक्ति का किसी हिन्दी कवि ने पद्यानुवाद इस प्रकार किया हैः—

चन्दन यह तेरो चलनि, चलि को सक जग माहि।  
जऊ तोहि घरसत मनुज, तऊ देत सुख ताहि ॥

## हास्य और व्यंग

३३८

एका भार्या प्रकृतिमुखरा चंचला च द्वितीया  
पुत्रस्त्वेको भुवनविजयी मन्मथो दुर्निवारः ।  
शेषः शश्या शयनमुदधौ वाहनं पन्नगारिः  
स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारिः ॥

**भावार्थः**—जगन्नाथ जी की मूर्ति काठ की बयों है, इसपर  
किसी कवि की भनोखी सूझ हैः—विष्णु की एक स्त्री सरस्वती  
है, जो स्वभाव से ही बड़ी वाचाल है-दिन भर बक बक करती  
रहती है। दूसरी स्त्री लक्ष्मी है जो महा चचला है-एक जगह  
स्थिर होकर नहीं रहती। कामदेव नामका एक ही पुत्र है, जो  
अपने कहने मे नहीं है-ससार को विजय करने मे लगा हुआ  
है। विष्णु भगवान् सोते किस पर हैं? शेषनाग पर। रहने का  
स्थान कहाँ है? समुद्र मे। वाहन व्या है? सर्पों का शशु, गदड़।  
अपने घर का यह सब चरित्र देखते-देखते विष्णु भगवान् काठ  
के हो गये। वही जगन्नाथ जी हैं।

३३९

भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुट्ये किन्तेन मद्यं विना  
मद्यं चापि तय प्रियं प्रियमहो यारांगनाभिः सह ।

वेश्याप्यर्युचिः कुतस्त्व धनं द्यूतेन चौर्येण वा  
चौर्यद्यूतपरिग्रहोऽपि भवतः नष्टस्य कान्या गतिः ॥

**भावार्थः**—एक जैन साधु को मास-भजण करते हुए देखकर कवि उससे पूछता है—“अरे भिक्षु, तू मास खाता है?” साधु—“मास तो खाता हूँ, किन्तु विना शराब के मास का क्या मज्जा?” कवि—“अरे तू शराब भी पीता है?” साधु—“हाँ, शराब भी वेश्याओं के साथ कभी-कभी पी लेता हूँ।” कवि—“अरे वेश्या तो धन की लोभी होती है, तेरे पास धन कहाँ से आता है?” साधु—“जब कभी जुग्मा सेल लेता हूँ या चोरी कर लेता हूँ, तो धन आ जाता है।” कवि—“अरे तू जुग्मा भी सेलता है और चोरी भी करता है?” साधु—“अरे, माप क्या पूछते हैं? जो नष्ट हो गया हो, उसकी ओर गति ही क्या है?”

३४०

अत्तुं वाव्युति वाहनं गणपतेराखुं क्षुधात्तं फणी  
तं च क्रोंचरिषोः शिखो च गिरजासिंहोऽपि नागाननम् ।  
गौरी जन्मुसुतामसूयति कलानाथं कपालाननो  
निविष्णः स पपौ कुटुम्बकलहादीशोऽपि हालाहलम् ॥

**भावार्थः**—भगवान् महादेव ने हालाहल (विष) का पान क्यों किया, इस पर किसी कवि वी अनोखी व्यत्पन्ना है—महादेव जी के एक पुत्र गणेश जी हैं, उनके वाहन चूहे को महादेव जी

की जटा मे लिपटा हुआ सर्प, कुधा-पीडित होकर, खाने को दौड़ रहा है। महादेव जी के एक दूसरे पुत्र स्वामि कातिकेय हैं, उन का वाहन मोर उस सर्प को खाना चाहता है। महादेव जी की स्त्री पार्वती का वाहन सिंह भी गणेश को हाथी समझ कर, उससे लड़ने को तैयार है। महादेव जी की दो पत्नियाँ पार्वती और गगा हैं, जो दोनों परस्पर सीतिया डाह से जला और आपस मे लड़ा करती हैं। महादेव जी का एवं गण कपालानन नाम का है, जो महादेव जी के भाल मे स्थित चन्द्रमा से ईर्ष्या करता है—इस प्रकार अपने पारिवारिक कलह से ऊबकर महादेव जी ने, इस कुफुत से बचने के लिये, हालाहल (जहर) पी लिया। न रहेगा वांस न बजेगी वांसुरी !

३४१

केचिद्वदन्त्यमृतमस्ति सुरालयेषु  
 केचिद्वदन्ति प्रमदाधरपल्लवेषु ।  
 यूमो वथं सकलशास्त्रविचारदक्षाः  
 जंभीरनीरपरिपूरितमत्स्यसण्डे ॥

**भायार्थः—** यहते हैं कि अमृत स्वर्ग मे है और कोई कहते हैं कि अमृत वासिनी स्त्रियो के ग्रथरोष्ठ मे है। किन्तु मैं सब वास्त्रो को विचारपूर्वक अध्ययन और मनन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचा हूँ, कि यदि अमृत पहीं है तो वह जभीरी नीदू के रस से भरे हुए, मदली के टुकड़े मे है, और पहीं भी नहीं है !

कोऽयं द्वारि हरिः प्रयाह्युपवनं शाखाभूगस्यात्र किम्  
कृष्णोऽहं दधिते विभेति सुतरां कृष्णादहं वानरात् ।  
राधेऽहं मधुसूदनो वज लतां तामेवतन्वीमलं  
इत्थं निर्वचनीकृतो दधितया ह्रीणो हरिः पातु वः ॥

**भावार्थ :**—इस श्लोक में राधा और कृष्ण का संवाद  
अत्यन्त विनोदपूर्ण है :—

कृष्ण राधा के यहाँ आकर द्वार खटखटा रहे हैं । इस पर  
राधा पूछती है—“दर्जा कौन खटखटा रहा है ?” कृष्ण—  
“मैं हरि हूँ ।” राधा—“यदि हरि(बन्दर) हो तो वन में जाओ,  
यहाँ तुम्हारा क्या काम है ?” कृष्ण—“प्रियतमे, मैं कृष्ण हूँ”  
राधा—“यदि कृष्ण (काला मुह वाला लगूर) हो तो उससे तो  
मैं और भी डरती हूँ ।” कृष्ण—“राधे ! मैं मधुसूदन हूँ ”  
राधा—“यदि मधुसूदन (मधु के लोभी भौंरा) हो, तो किसी  
सुकुमार लता पर जाओ ।” इस प्रकार प्रियतमा राधा से  
उत्तर-प्रत्युत्तर में हराये गये, हरि आपकी रक्षा करें !

कस्त्वं शूली भूग्य भिषजं नीलकण्ठः प्रियेऽहं  
केकामेकां कुरु पशुपतिर्नेत्र दृश्ये विपाणे ।  
स्याएनुमुर्घे न वदति तर्जीवितेशः शिवायाः  
गच्छाटव्यामिति हत्वचाः पातु वशचन्द्रचूडः ॥

**भावार्थः—**इस इलोक मे प्रश्नोत्तर के रूप मे शिव और पार्वती की व्यगावली बड़ी सुन्दर है :—

पार्वती—“तुम कौन हो ?” शिव—“मैं शूली (प्रिशूल-घारी शिव) है ।” पार्वती—“यदि तुम शूली (शूल रोग से पीड़ित) हो, तो किसी वैद्य के पास जाओ ।” शिव—“प्रिये मैं नीलकण्ठ (महादेव) है ।” पार्वती—“यदि तुम नीलकण्ठ (मोर) हो, तो केका (मोर की बोली) बोलो ।” शिव—“मैं पशुष्टि (महादेव) हूँ ।” पार्वती—“यदि तुम पशुष्टि (वैल) हो तो तुम्हारे सीग कहाँ है ?” शिव—‘मुझे ! मैं स्याणु (महादेव) हूँ ।” पार्वती यदि तुम स्याणु (वृक्ष) हो, तो वृक्ष तो बोल नहीं सकता, परन्तु तुम बोलते हो।” शिव—“मैं शिवा (पार्वती) का पति हूँ ।” पार्वती—“यदि तुम शिवा (शृगाली) के पति शृगाल हो तो बन में जाओ, यहाँ तुम्हारा चया काम है ?” इस पर महादेव जो बनन-रहित होकर, ऊप हो गये और कोई जवाब उन्हें नहीं सूझा । ऐसे हतवचन चन्द्रचूड़ महादेव नगवान् धापकी रथा झरे ।

३४४

सहस्रास्थो नागः प्रभुरपि भतः पंचवदनः  
पडास्थो हन्तैकस्तनय इतरो वाररामुखः ।  
सदा भैक्ष्यं दशवत्प्रभवतु कथं वत्तेनमिति  
श्वसन्त्यां पार्वत्यामय जपति शंभुः स्मितमुखः ॥  
**भावार्थः—**इस इलोक मे महादेवजी के परिवार का वर्णन

बडे विनोदपूर्ण रूप से किया गया है :—एक तो हजारमुखवाला नागराज उनके शरीर के साथ लपटा हुआ है, अतएव उसके खिलाने की समस्या है। फिर महादेव जी स्वयं पंचमुखी (पाँच मुख वाले) है, उनके पाँच मुखों को खिलाना एक दूसरी समस्या है। दो पुत्र हैं—एक घडानन (छ मुखवाले कार्तिकेय), दूसरे गजानन (हाथी के मुख वाले)। जीविका का कोई बन्धा हुआ साधन नहीं, सदा भीख पर गुजारा करना पड़ता है। तो फिर गृहस्थी कैसे चलेगी, इस प्रकार शोच में बैठी हुई पार्वती को देखकर, महादेव जी हंस पड़े। ऐसे हसते हुए महादेव जी सबका मंगल करें !

## ३४५

विष्णोरागमनं निशम्य सहसा कृत्वा फणीन्द्रं गुरुं  
 कौपीनं परिधाय चर्मं करिणः शंभुः पुरो धावति ।  
 दृष्ट्वा विष्णुरथं सकम्पहृदयः सर्पोऽपतद् भूतले  
 कृतिर्विस्त्रिता ह्रिया नतमुखो नग्नो हरः पातु वः ॥

**भावार्थः**—यह सुनकर कि विष्णु भगवान् मिलने के लिए आये हुए हैं, दिग्म्बर महादेवजी जल्दी के मारे सर्पराज को डोरी के रूप में कमर में बाध कर और उस में हाथी के चर्म की कौपीन (लगोटी) कस कर, विष्णु का स्वागत करने के लिए आगे दौड़े। पर इतने में विष्णु के बाहन, गरुड़ को देखकर भय से कम्पित होकर सर्प, जो कमर में बधा था, पृथ्वी पर गिर गया और उसके साथ ही लगोटी भी खसक गयी। शिव भगवान् नान हो गये

ओर लज्जा के मारे उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया । ऐसे दिगम्बर भगवान् आपकी रक्षा करें !

३४६

कि गोत्रं किमु जीवनं किमु धर्तं का जन्मभूः कि वयः  
कि चारित्र्यमसुष्य के सहचराः के वंशजाः प्रावृत्तनाः ।  
का माता जनकः शिवस्य क इति प्रत्वेण पृथ्वीभृता  
पृष्टाः सस्मितनम्रमूकवदनाः सप्तर्षयः पात्तु वः ॥

**भावार्थः**—पार्वती के विवाह के समय, शवशुर हिमालय ने अपने भावी जामाता महादेव के सम्बन्ध में सप्तर्षियों से पूछा कि इनका गोत्र क्या है ? इनकी जीविका का साधन क्या है ? इनके धन क्या है ? इनकी जन्मभूमि क्या है ? इनकी आयु क्या है ? इनका चरित्र कैसा है ? इनके साथी-सगी कौन है ? इनके पूर्वपुरुष कौन हैं ? इनके माता-पिता कौन हैं ? इन प्रश्नों को सुनकर राष्ट्रिय लोग मुस्करा कर चूप हो गये और अपना मुख नीचे कर लिया । ऐसे सप्तर्षि आपकी रक्षा करें !

३४७

रामाद्याचय मेदिनीं धनपतेर्वीजं बलाल्लांगलं  
अतेशान्महिषं तवास्ति चृपभः फालं त्रिशूलं तव ।  
शवताहं तव चान्नदानकरणे स्कन्दोऽस्ति गोरक्षणे  
खिल्नाहं हर भिक्षया कुरु कृपि गौरीवचः पातु वः ॥

**भावार्थः—**महादेव जी को भीख मांगकर जीविका चलते हुए देखकर, पार्वती जी बहुत खिन्न होकर, खेती करने की सलाह देती हुई कहती है—“स्वामिन्, परशुराम से खेती के लिए थोड़ी-सी भूमि, कुबेर-से थोड़ा-सा बोज, बलराम से हल, यम से भैसा मागकर खेती करिये । बैल आपके पास है ही और त्रिशूल आप का हल के फाल का काम दे देगा । भोजन में बना ही सकती हूँ । स्वामि कातिकेय गौ की रखवाली कर लेगा । भीख पर गुजारा करने से मैं ऊब गयी हूँ” महादेव जी से पार्वती का यह अनुरोध आपकी रक्षा करे !

### ३४८

लोले, ब्रूहि कपालिकामिनि, पिता कस्ते, पतिः पाथसां,  
कः प्रत्येति जलादपत्यजननं, प्रत्येति यः प्रस्तरात् ।  
इत्यं पर्वतसिन्धुराजसुतयोराकर्णं वाक्चातुर्णे  
संस्मेरस्य हरेहंरस्य च मुदो निघ्नंतु विघ्नंतु वः ।

**भावार्थः—**मंगलाचरण के रूप में लक्ष्मी और पार्वती का व्यग्रपूरण यह प्रसन्नोत्तर बहुत सुन्दर हैः—

पार्वती ध्यग से कहती हैं—“चचले !” लक्ष्मी भी उसी व्यंग के साथ उत्तर देती है—“कपालि (लाप्पर लेकर भीख माँगने वाले भिखारी शिव) की पत्नी, बोलो वया कहना चाहती हो ?” पार्वती—“तुम्हारा पिता कौन हैं ?” लक्ष्मी—“मेरे पिता हैं जलों के राजा समुद्र ।” पार्वती—“कौन विश्वास करेगा कि जल से सन्तान की उत्पत्ति होती है ?” लक्ष्मी—“पत्थर से सन्तान की उत्पत्ति

हो सकती है जो यह विश्वास करेगा, वही जल से भी सन्तान की उत्पत्ति का विश्वास करेगा”—इस प्रवार पर्वतराज हिमालय तथा सिन्धुराज समुद्र की कन्या पार्वती और लक्ष्मी के बीच इस व्यग्रपूर्ण विवाद को सुनकर, हरि (विष्णु) और हर (महादेव) दोनो मुदित होकर हँस पडे । उनका यह मोद आपके विघ्नों का नाश करे ।

## ३४६

आः पाकं न करोषि पापिनि कथं, पापी त्वदीयः पिता,  
रण्डे जलपसि किं, तवैव जननी रण्डा त्वदीया स्वसा ।  
निर्गंच्छ त्वरितं गृहाद्विहितो नेदं त्वदीयं गृहं,  
चेदेवं बहिरेमि गर्दंभगृहान्नात्रावतिष्ठे क्षणम् ॥

**भावार्थ**.—एक कर्कशा कुलटा का वर्णन, पति और पत्नी के सवाद के रूप में, इस श्लोक में है—पति—“रे पापिनी, खाना क्यों नहीं पकाती ?” पत्नी—“मुझे पापिनी कहता है, पापी तू और तेरा पिता ।” पति—“रण्डे, तू बहुत जबान चला रही है ।” पत्नी—“रण्डा तेरी माता और तेरी बहिन ।” पति—“तू फौरन निकल जा मेरे घर से, यह तेरा घर नहीं है ।” पत्नी—“गधे, यदि ऐसी बात है, तो मैं इस घर से तुरन्त जा रही हूँ, एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहरना चाहती ।”

## ३५०

आपाण्डुराः शिरसिजास्त्रिवली कपोले  
दन्तावलिर्विगलिता न च मे वियादः ।

एणीहशो युवतयः पथि मां विलोक्य  
तातेति भापणपराः खलु वज्रपातः ॥

**भावार्थः**—एक बूढ़ा रसिक इपने बुढ़ापे के नाम रोता हुआ कहता हैः—मेरे सिर के बाल सफेद हो गये, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गयीं, मेरे दान्त गिर गये, मुँह पोपला हो गया—इन सब बातों से दुःख मुझे नहीं है। किन्तु दुःख इस बात का है कि मृगनयनी, चन्द्रमुखी युवतियाँ जब मुझे रास्ते में मिलती हैं तो मुझे “बाबा” कहकर पुकारती हैं। यह मुझे वज्रपात के समान लगता है। केशव ने इसी भाव को लेकर अपना यह प्रसिद्ध दोहा लिखा हैः—

केशव केशन अस करी, अरिहू करिहै नाहिं ।  
चन्द्रवदनि मृगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहिं ॥

### ३५१

या पाणिप्रहलालिता सुसरला तन्वी सुवंशोद्भवा  
गौरी स्पर्शसुखावहा गुणवती नित्यं मनोहारिणी ।  
सा केनापि हृता तया विरहितो गन्तुं न शक्नोम्यहं  
रे भिक्षी तव कामिनी ? नहि नहि प्राणप्रिया यष्टिका ॥

**भावार्थः**—एक बृद्ध भिसारी की लाठी लो गयी। इस पर वह लोगों से अपने असीम दुःख का वर्णन करता हुआ, लाठी की प्रशंसा में कहता हैः—“जो सदा मेरे हाथ से लालित थी, मेरे हाथ का सहारा थी, जो अत्यन्त सीधी ओर पञ्चेष्वंश (वांस)

मेरे जन्मी थी, जो तन्वी, एवहरे शरीर वाली और गोर बरण की थी, जिसका स्पर्श अति सुखदायक था, जो अनेक गुणों वाली थी, जो सदा ही मनोहर थी, उसको कोई हर ले गया है और उसके बिना मैं चलने मेरे भी अमर्मर्थ हो गया हूँ।" इस पर किसी ने पूछा कि "रे भिखारी, ता क्या वह तेरी घरवाली थी?" तब तुरन्त वात काट कर वह बोला—“नहीं नहीं। भाई, वह मेरी घरवाली नहीं थी। वह तो मेरी प्राणों से भी व्यारी लाठी थी।”

### ३५२

आहारे बडवानलश्च शयने यः कुंभकरण्यिते  
सन्देशो चधिरः पलायनविधौ सिंहः शृगालो रणे ।  
अन्धो वस्तुनिरोक्षणेऽथ गमने खंजः पदुः ऋन्दने  
भाग्येनैव हि लभ्यते पुनरसौ सर्वोत्तमः सेवकः ॥

**भावार्थ**.—जो भोजन मेरे बडवानल के समान है, सोने मेरे कुंभकरण के समान है, कोई वात कही जाय उसके सुनने मेरे बहिरे के समान है, काम छोड़कर भाग जाने मेरे सिंह के समान है, रण मेरे हिम्मत दिखाने मेरे सियार के समान है, क्या उचित है क्या अनुचित, इसके देखने मेरे अन्धे के समान है, चलने मेरे लूले के समान है और रोने तथा हाय हाय करने मेरे जो परम पदु है—ऐसा सर्वोत्तम सेवक भाग्य से ही मिलता है।

### ३५३

स्वयं पञ्चमुखः पुत्रौ गजाननपडाननौ ।  
दिगंबरः कथं जीवेदन्नपूर्णि न चेदगृहे ॥

**भावार्थः—**महादेवजी की दरिद्रता और उस पर इतने बड़े परिवार के भरणपोपण की चिन्ता का वर्णन, व्यग्पूरणं ढग से इस इलोक मे है—महादेवजी स्वयं तो पाचमुख वाले हैं। दो पुत्र हैं जो एक तो छ मुख वाला और दूसरा हाथी के मुख वाला है। एक मुख को खिलाना कितना कठिन होता है, फिर इतने मुखवालो का खिलाना कितना कठिन होगा, यह सहज ही अनुमान मे आ सकता है। और तुर्रा यह कि पास मे लगोटी भी नहीं। ऐसी दशा मे इतने बड़े कुटुम्ब का गुजारा कैसे होता, यदि साक्षात् अन्नपूरणं उनकी घरवाली न होती। तब उन्हे आटा दाल का भाव मालूम पड़ता।

## ३५४

आवथोः मेलनं कान्तं कदा कुत्र भविष्यति ।

यदि वेदाः प्रमाणं स्युः कुंभीपाके भविष्यति ॥

**भावार्थ.—**एक लपट पुरुष और एक कुलटा नारी दोनो आपस मे मिले हैं। मिलने के बाद विदा होते समय, स्त्री अपने यार से पूछती है—“प्रियतम, अब हम दोनो का मिलना फिर कब और कहाँ होगा ?” इस पर जार उत्तर देता है—“यदि वेदो का प्रमाण ठीक है, तो अब हम दोनो का मिलन केवल कुंभीपाक नरक मे ही होगा !”

## ३५५

असारे खलु संसारे सारं श्वशुरमन्दिरम् ।

हरो हिमालये शेते हरिः शेते महोदधो ॥

**भावार्थ** — इस असार ससार मे यदि कुछ सार है, तो वह समुर का घर है। यदि यह बात न होती, तो वताओ महादेवजी सब स्थानों को छोड़कर, अपनी समुराल-हिमालय मे क्यों बास करते और विष्णु भगवान् सब स्थानों को त्याग कर, अपने श्वशुरालय-समुद्र मे ही क्यों शयन करते ?

### ३५६

कमले कमला शेते हरः शेते हिमालये ।  
हरिः क्षीरोदधौ शेते मन्ये मत्कुण्डशंकया ॥

**भावार्थ** :— लक्ष्मीजो कमल मे, महादेवजी हिमालय मे, विष्णु भगवान् क्षीरसागर मे क्यों सोते है ? इस पर खटमल से सताए हुए किसी विकीर्ण की अनोखी सूझ है — “मैं समझता हूँ कि केवल खटमल के ढर के भारेही लक्ष्मी कमल मि, महादेवजी हिमालय मे और विष्णु भगवान् क्षीर-सागर मे शयन करते हैं। क्योंकि वहाँ तो खटमल नहीं पहुँचेगे ?”

### ३५७

वासं प्रधानं खलु योग्यतायाः  
वासोविहीनं विजहाति लक्ष्मीः ।  
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां  
दिगम्बरं वीक्ष्य विष्यं समुद्रः ॥

**भावार्थ** — वस्त्र ही से शोभा होती है और वही प्रतिष्ठा का मूल कारण है, बिना वस्त्र के लक्ष्मी भी किसी को नहीं

पूछती। देखो, समुद्र ने विष्णु को पीताम्बर आदि उत्तम वस्त्र धारण किये हुए देख कर ही, अपनी कन्या लक्ष्मी उन्हे सौंप दी और महादेव को दिगम्बर (नगम) देखकर केवल विप ही उनको भेट किया।

### ३५८

रे रे घरटृ मात्रोदीः कं कं न भ्रामयन्त्यमूः ।  
कटाक्षेपणादेव कराकृष्टस्य का कथा ॥

**भावार्थः**—जांते (चक्की) की घर घर आवाज सुनकर कवि कहता है:—रे घरटृ (जांते) तुम क्यों रो रहे हो? अरे ये स्त्रियां किस-किसको अपने कटाक्ष मात्र से नहीं छुमाती। फिर तुझे तो स्वयं अपने हाथों से ही चबकर खिला रही हैं। तेरी क्या बात है!

९

### ३५९

अधः पश्यसि कि वृद्धे पतितं तव कि भुवि ।  
रे रे मूढ़ न जानासि गतं तारुण्यमौकितकम् ॥

**भावार्थः**—एक मसखरा किसी बुढिया से, जो कमर झुकाये हुए चल रही है, मजाक के तौर पर पूछता है:—“ऐ वृद्धे, कमर झुकाए हुए तू नोचे क्या देख रही है? क्या जमीन पर तेरा कुछ गिर गया है, जिसे तू ढूढ़ रहो है?” इस पर बुढिया भी व्याभरा जबाब देती है:—“रे मूर्ख, क्या तू नहीं जानता कि मेरी जवानी रूपी मोती गिर पड़ा है, उसी को

दूँढ़ रही हूँ ॥" इसी भाव का एक फारसी का शेर भी है :—

चेरा खम् कर्दा भी गश्तन्द पीराने जहा सायव ।

मगर दर खाक भो जूयन्द ऐथ्यामे जवानीरा ॥

### ३६०

मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः ।

सूतकं वर्तते नित्यं कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥

**भावार्थः**—एक मनुष्य ने किसी वेदान्ती से पूछा कि तुम सन्ध्या वयों नहीं करते ? इस पर वह उत्तर देता है :—मेरी मोह रूपी माता मर गयी है और मेरे ज्ञानरूपी पुत्र पैदा हुआ है । रोज तो मुझे सूतक लगा रहता है, किर सन्ध्या कैसे करें ?

### ३६१

को न प्राति वशं लोके मुखे पिण्डेन पूरितः ।

मृदंगो मुखलेपेन करोति मधुरध्वनिम् ॥

**भावार्थः**—किसी का पेट भर दीजिये, या घूस दे दीजिये, तो वह कौसा आपके वश में हो जाता है और आप जैसा कहें वैसा बोलने लगता है—इसो बात को व्यग्रहण में कवि ने इस प्रकार कहा है—मुख को यथेष्ट उपहार से भर देने पर, कौन ऐसा है जो वश में नहीं हो जाता ? मृदग को ही देखो, उसके मुख पर आटे का लेप करने से, वह कैसी मीठी बोल निकालने लगता है ।

श्रुत्वा पडाननजनुमुदितान्तरेण  
 पंचाननेन सहसा चतुराननाय ।  
 शादूँलचर्म भुजगाभरणं सभस्म  
 दत्तं निशम्य गिरिजाहसितं पुनातु ॥

**भावार्थः**—घर में बालक पडानन (छः मुख वाला कार्तिकेय) पैदा हुआ है यह सुनकर पंचानन (पांच मुख वाले महादेवजी) अतीव प्रसन्न हुए और खुशी में भरकर उन्होंने थोड़ा-सा भस्म, व्याघ्रचर्म और सर्परूपी आभूपण चतुरानन (चार मुख वाले) चह्या को उपहार के रूप में भेट किया । इसके सिवा दिग्म्बर के पास और या ही क्या ? यह सुनकर, गिरजा पार्वती हँस पड़ी । उनका यह हँसना मंगलकारी हो !

चतुरः सखि मे भर्ता  
 स यल्लिखति तदपरो न वाचयति ।  
 तस्मादप्यधिको मे  
 स्वयमपि लिखितं स्वयं न वाचयति ॥

**भावार्थः**—शो मणियाँ आपस में अपने अपने पति की चतुराई की प्रशंसाद्वकर रही हैं । एक कहती है कि मेरा पति ऐसा होगियार है कि वह जो लिख देता है, उसे दूसरा योई नहीं

बाच सकता । इस पर दूसरी सखी कहती है कि इसमें होशियारी की क्या बात है ? मेरा पति तो ऐसा चतुर है, कि अपना लिखा स्वयं आप भी नहीं बाँच सकता, दूसरे की बात ही क्या है ?

३६४

**बिलाद्विहिलस्थान्तःस्थितमाजरिसर्पयोः ।**

**मध्ये चाषुरिवाभाति पत्नीद्वययुतो नरः ॥**

**भावार्थः—**दो पत्नी वाले मनुष्य की कैसी दुर्दशा होती है, इसका वर्णन इस श्लोक में है—दो पत्नियों के बीच मनुष्य की दशा उस चूहे के समान होती है, जिसकी विल के बाहर विल्ली ताक में बैठी हुई है और विल के भीतर साँप उसे खाने के लिये तैयार है, न वह इधर जा सकता है, न उधर ।

३६५

**उष्ट्रकाणां विवाहेषु गर्दभाः स्तुतिपाठका ।**

**परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपमहो ध्वनिः ॥**

**भावार्थः—**दो मूर्ख और मिथ्याभिमानी पुरुष आपस में के दूसरे की किस प्रकार प्रशासा करते हैं, इसको व्यग रूप में कि कहता है—जैंट जैसे सुन्दर आण्टति वाले के विवाह में, उसके अनुरूप ही स्तुतिपाठ करने वाले भी होने चाहिए । इसलिए अत्यन्त मधुर स्वर में गाने वाले गदहे स्तुतिपाठ करने के लिए

बुलाये गये। अब दोनों को जोड़ी बैठ गयी और एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। गदहो ने ऊंटों की प्रशंसा में कहा कि “वाह क्या सुन्दर रूप भगवान् ने आपको दिया है!” और ऊंटों ने गदहो की प्रशंसा में कहा कि “वाह क्या सुरोली आवाज आपने पायी है!”

## ३६६

चिता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः ।

नाऽहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम् ॥

**भावार्थ** —किसी के शब्द को चिता पर जलते हुए देख, आश्चर्य में भरकर एक वैद्य कहता है—इसकी चिकित्सा करने के लिए न तो मैं गया, न मेरा भाई गया, फिर यह किसके हाथ का चमत्कार है? किसके हाथ से इसकी रोग से मुक्ति हुई? गोग भी जाता रहा और साथ ही रोगी भी जाता रहा!